

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 09/209**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	807	4.700	63.66	9.10	0.2721	Good
2	808	4.750	62.47	9.22	0.2736	Good
3	809	4.670	65.78	10.00	0.3073	Good
4	810	3.990	64.59	9.51	0.2450	Good
5	811	3.700	64.23	9.42	0.2239	Good
6	812	4.520	65.56	9.11	0.2698	Good
7	824	7.910	59.09	9.34	0.4366	Good
8	825	9.380	63.30	9.40	0.5581	Good
9	826	9.410	58.21	10.79	0.5909	Good
10	827	9.470	60.41	9.58	0.5483	Good
11	828	9.550	62.46	8.17	0.4871	Inferior
12	834	9.410	64.19	8.94	0.5401	Inferior
13	835	9.300	59.54	9.12	0.5050	Good
14	836	4.290	61.16	9.04	0.2372	Good
15	837	3.980	57.66	10.75	0.2468	Good
16	838	4.050	58.83	9.43	0.2248	Good
17	839	9.560	61.84	11.06	0.6539	Good
18	840	7.660	52.10	10.02	0.3999	Good
19	848	7.860	65.28	14.78	0.7585	Good
20	849	7.830	64.34	13.49	0.6796	Good
21	850	7.770	48.91	11.06	0.4204	Good
22	851	4.730	51.26	9.72	0.2356	Good
23	852	3.970	64.53	14.15	0.3625	Good
24	853	4.720	52.28	10.60	0.2615	Good
25	854	8.020	46.03	15.90	0.5871	Good
26	861	7.730	54.94	11.45	0.4862	Good
27	862	9.580	68.99	13.92	0.9197	Good
28	863	10.120	55.33	9.02	0.5050	Good
29	864	8.000	57.13	9.70	0.4432	Good
30	865	9.710	53.70	10.71	0.5583	Good
31	866	4.980	55.26	10.04	0.2764	Good
32	867	8.420	54.82	9.50	0.4387	Good
33	876	8.640	62.45	8.44	0.4553	Inferior
34	877	7.840	60.53	9.53	0.4524	Good

35	878	10.190	57.22	10.82	0.6308	Good
36	879	9.520	56.84	11.91	0.6445	Good
37	880	8.760	58.56	10.71	0.5493	Good
38	881	7.660	59.86	11.51	0.5278	Good
39	888	7.950	56.75	11.51	0.5191	Good
40	889	10.010	59.82	12.44	0.7447	Good
41	890	7.900	57.95	11.48	0.5254	Good
42	891	7.980	61.45	11.73	0.5754	Good
43	892	9.720	58.69	9.00	0.5132	Good
44	893	9.760	58.24	11.78	0.6695	Good
45	894	9.310	59.47	10.86	0.6014	Good
46	813	4.680	52.14	13.14	0.3206	Good
47	814	3.830	52.13	13.27	0.2650	Good
48	815	7.660	58.87	11.60	0.5232	Good
49	816	3.980	57.21	9.35	0.2129	Good
50	817	9.390	58.15	13.00	0.7099	Good
51	818	9.520	55.01	12.00	0.6283	Good
52	829	9.540	60.44	11.23	0.6478	Good
53	830	9.410	58.99	11.00	0.6107	Good
54	831	9.640	60.89	9.64	0.5659	Good
55	832	9.230	59.64	10.09	0.5556	Good
56	833	9.010	57.56	10.32	0.5352	Good
57	841	8.090	61.15	11.74	0.5809	Good
58	842	9.200	60.78	10.99	0.6146	Good
59	843	9.560	61.00	10.44	0.6090	Good
60	844	7.630	61.18	10.26	0.4792	Good
61	845	4.130	61.21	9.59	0.2424	Good
62	846	3.970	58.20	11.63	0.2688	Good
63	847	3.920	65.24	9.81	0.2509	Good
64	855	8.200	51.61	15.46	0.6544	Good
65	856	4.550	54.23	13.13	0.3240	Good
66	857	9.190	63.75	14.27	0.8363	Good
67	858	5.220	52.46	12.10	0.3315	Good
68	859	4.270	51.30	12.83	0.2810	Good
69	860	4.000	53.14	13.17	0.2800	Good
70	868	8.160	68.34	12.31	0.6863	Good
71	869	8.190	56.05	11.86	0.5446	Good
72	870	9.950	56.22	12.97	0.7254	Good
73	871	9.870	55.88	13.08	0.7215	Good
74	872	7.830	56.80	13.06	0.5810	Good

75	873	4.100	53.30	14.37	0.3141	Good
76	874	5.030	54.49	11.56	0.3169	Good
77	875	4.690	57.59	11.56	0.3124	Good
78	882	10.100	59.46	9.60	0.5767	Good
79	883	8.050	57.72	9.88	0.4589	Good
80	884	9.640	59.47	10.21	0.5851	Good
81	885	7.940	58.84	10.77	0.5034	Good
82	886	7.840	59.30	9.16	0.4257	Good
83	887	9.540	58.07	12.42	0.6878	Good
84	895	7.750	60.28	10.04	0.4689	Good
85	896	4.900	57.16	9.81	0.2749	Good
86	897	10.060	58.56	11.25	0.6630	Good
87	898	9.410	61.41	10.50	0.6069	Good
88	899	9.320	60.44	11.61	0.6543	Good
89	900	5.050	61.27	9.71	0.3005	Good
90	806	4.700	60.40	9.14	0.2594	Good
91	819	9.250	57.83	10.93	0.5846	Good
92	820	4.940	58.44	11.41	0.3295	Good
93	821	9.590	54.42	12.33	0.6435	Good
94	822	4.080	56.00	12.84	0.2934	Good
95	823	7.820	57.19	11.37	0.5083	Good
96	801	3.530	60.29	10.63	0.2263	Good
97	802	3.610	56.80	10.12	0.2076	Good
98	803	3.550	57.44	10.11	0.2063	Good
99	804	7.800	60.38	9.18	0.4321	Good
100	805	4.910	58.88	12.82	0.3707	Good

DATE: 14.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 10/210**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	987	9.120	57.60	10.47	0.5499	Good
2	988	4.170	64.03	11.89	0.3173	Good
3	989	4.180	65.30	9.97	0.2721	Good
4	990	7.840	61.69	10.33	0.4994	Good
5	991	4.540	65.66	13.17	0.3927	Good
6	992	9.590	56.22	10.30	0.5553	Good
7	993	10.020	69.84	12.86	0.8998	Good
8	901	9.600	62.42	9.66	0.5789	Good
9	902	4.770	52.51	11.69	0.2929	Good
10	903	9.860	65.08	10.05	0.6448	Good
11	904	4.970	62.60	10.43	0.3245	Good
12	905	8.120	65.10	9.98	0.5278	Good
13	906	9.580	65.36	10.21	0.6390	Good
14	907	9.450	60.57	9.89	0.5661	Good
15	920	4.570	59.68	11.78	0.3213	Good
16	921	7.130	59.35	9.13	0.3864	Good
17	922	4.450	57.29	11.19	0.2852	Good
18	923	4.880	57.84	9.85	0.2782	Good
19	924	4.040	54.11	10.64	0.2327	Good
20	925	4.200	54.90	10.62	0.2449	Good
21	932	8.900	63.59	10.95	0.6194	Good
22	933	7.550	65.86	10.42	0.5179	Good
23	934	4.500	63.26	11.40	0.3245	Good
24	935	4.540	68.13	9.94	0.3074	Good
25	936	4.150	62.89	9.30	0.2428	Good
26	937	4.400	65.53	10.10	0.2913	Good
27	949	9.060	69.58	12.86	0.8109	Good
28	950	8.950	58.55	11.84	0.6202	Good
29	951	9.320	69.46	12.15	0.7866	Good
30	952	9.170	64.50	14.11	0.8345	Good
31	953	7.930	68.87	12.31	0.6725	Good
32	954	9.620	69.59	14.00	0.9370	Good
33	955	8.060	69.98	13.59	0.7665	Good
34	956	8.250	54.07	12.87	0.5742	Good

35	965	8.060	56.75	10.01	0.4578	Good
36	966	4.270	60.38	13.71	0.3536	Good
37	967	4.290	56.85	13.90	0.3389	Good
38	968	7.790	60.14	9.81	0.4596	Good
39	969	10.160	56.82	12.04	0.6949	Good
40	970	9.360	61.97	9.42	0.5466	Good
41	978	8.230	62.38	9.04	0.4642	Good
42	979	7.900	58.74	10.79	0.5009	Good
43	980	7.020	61.74	9.33	0.4044	Good
44	981	4.740	60.77	10.58	0.3048	Good
45	982	7.990	64.11	9.81	0.5026	Good
46	994	8.200	68.92	12.45	0.7036	Good
47	995	10.100	69.68	9.23	0.6494	Good
48	996	7.580	70.23	9.84	0.5238	Good
49	997	7.060	66.46	9.40	0.4413	Good
50	998	9.770	69.48	12.26	0.8324	Good
51	999	9.360	58.23	10.20	0.5560	Good
52	1000	4.790	56.05	10.42	0.2797	Good
53	908	4.250	55.08	12.60	0.2950	Good
54	909	4.790	52.97	9.16	0.2323	Good
55	910	7.650	54.55	13.80	0.5760	Good
56	911	3.770	54.29	13.80	0.2824	Good
57	912	4.520	58.00	9.69	0.2540	Good
58	913	7.660	58.50	9.90	0.4435	Good
59	914	4.480	56.46	8.32	0.2106	Inferior
60	926	9.270	66.33	10.28	0.6322	Good
61	927	7.340	61.54	10.25	0.4632	Good
62	928	4.650	58.32	9.33	0.2530	Good
63	929	7.640	63.39	9.69	0.4691	Good
64	930	4.450	58.83	9.42	0.2465	Good
65	931	3.790	61.66	9.29	0.2172	Good
66	938	4.460	62.89	9.79	0.2747	Good
67	939	4.700	61.60	9.30	0.2693	Good
68	940	4.250	69.56	9.89	0.2924	Good
69	941	3.630	65.09	10.25	0.2421	Good
70	942	10.170	57.09	15.31	0.8889	Good
71	943	5.030	59.67	9.67	0.2902	Good
72	957	9.200	62.88	8.16	0.4720	Inferior
73	958	7.380	57.98	10.00	0.4280	Good
74	959	9.800	68.37	12.74	0.8536	Good

75	960	9.080	58.31	11.80	0.6247	Good
76	961	4.660	54.39	10.52	0.2666	Good
77	962	9.780	58.22	12.13	0.6905	Good
78	963	9.180	56.21	9.39	0.4847	Good
79	964	8.430	69.28	12.30	0.7182	Good
80	971	4.480	58.87	9.44	0.2491	Good
81	972	7.690	57.25	10.59	0.4660	Good
82	973	9.220	62.14	9.95	0.5698	Good
83	974	9.330	56.41	9.63	0.5066	Good
84	975	9.890	60.69	9.31	0.5588	Good
85	976	4.730	56.13	15.16	0.4025	Good
86	977	9.340	57.98	11.12	0.6024	Good
87	983	7.410	60.60	9.52	0.4276	Good
88	984	9.290	60.17	9.96	0.5565	Good
89	985	9.700	57.21	16.06	0.8914	Good
90	986	4.100	58.28	10.52	0.2513	Good
91	915	4.470	53.07	10.93	0.2593	Good
92	916	4.530	58.73	9.30	0.2473	Good
93	917	7.540	52.20	9.16	0.3604	Good
94	918	4.820	54.07	10.21	0.2661	Good
95	919	4.430	55.44	9.11	0.2237	Good
96	944	8.050	61.50	11.93	0.5909	Good
97	945	7.320	55.70	10.32	0.4209	Good
98	946	4.840	55.45	16.54	0.4438	Good
99	947	9.340	69.68	12.17	0.7920	Good
100	948	7.220	52.58	10.21	0.3877	Good

DATE: 13.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 05/131**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	483	9.350	63.68	7.65	0.4553	Inferior
2	484	4.910	69.25	10.14	0.3447	Good
3	485	9.350	64.66	10.93	0.6610	Good
4	486	9.230	57.64	12.40	0.6599	Good
5	487	9.450	66.13	9.45	0.5906	Good
6	488	7.920	64.13	9.09	0.4617	Good
7	495	7.350	54.73	13.06	0.5255	Good
8	496	7.920	53.70	14.15	0.6019	Good
9	497	4.090	60.02	11.18	0.2744	Good
10	498	9.560	61.50	10.99	0.6463	Good
11	499	9.580	68.49	10.76	0.7060	Good
12	500	9.780	62.19	10.40	0.6328	Good
13	408	9.530	58.94	9.60	0.5394	Good
14	409	7.670	56.44	7.62	0.3298	Inferior
15	410	9.560	58.55	11.15	0.6243	Good
16	411	9.590	57.69	10.35	0.5725	Good
17	412	4.000	55.35	10.23	0.2264	Good
18	413	3.880	51.99	9.77	0.1971	Good
19	414	9.560	65.84	7.23	0.4551	Inferior
20	427	9.500	58.93	10.08	0.5643	Good
21	428	8.110	54.37	11.70	0.5158	Good
22	429	8.080	65.05	10.45	0.5494	Good
23	430	10.270	65.85	9.35	0.6326	Good
24	431	8.580	58.23	10.89	0.5440	Good
25	432	6.890	60.08	11.43	0.4733	Good
26	433	8.170	68.11	13.67	0.7606	Good
27	441	8.140	65.69	14.13	0.7554	Good
28	442	7.470	54.52	11.72	0.4773	Good
29	443	9.670	51.25	11.32	0.5609	Good
30	444	5.160	65.47	13.70	0.4629	Good
31	445	8.060	50.48	13.09	0.5328	Good
32	446	9.500	65.57	9.70	0.6042	Good
33	453	9.870	56.56	13.07	0.7294	Good
34	454	7.860	63.45	13.10	0.6532	Good

35	455	10.030	54.95	10.12	0.5577	Good
36	456	8.150	67.44	10.59	0.5819	Good
37	457	8.050	54.10	14.40	0.6271	Good
38	458	5.010	65.36	12.22	0.4003	Good
39	459	7.860	60.16	13.05	0.6170	Good
40	466	8.170	54.59	9.38	0.4183	Good
41	467	9.740	57.75	8.42	0.4734	Inferior
42	468	5.220	52.21	9.27	0.2526	Good
43	469	8.080	58.56	8.47	0.4008	Inferior
44	470	9.630	49.83	11.06	0.5306	Good
45	471	4.960	53.23	6.88	0.1815	Inferior
46	477	8.080	59.32	6.66	0.3192	Inferior
47	478	9.680	53.86	9.84	0.5130	Good
48	479	7.890	53.83	10.89	0.4624	Good
49	480	9.680	49.45	10.76	0.5150	Good
50	481	7.970	56.02	10.17	0.4543	Good
51	482	9.610	55.52	9.89	0.5276	Good
52	489	9.500	61.36	11.23	0.6546	Good
53	490	3.980	50.90	12.02	0.2436	Good
54	491	8.070	58.63	14.09	0.6666	Good
55	492	9.530	64.80	12.56	0.7757	Good
56	493	7.830	61.38	10.43	0.5011	Good
57	494	4.710	65.22	11.21	0.3443	Good
58	401	8.050	59.71	13.08	0.6287	Good
59	402	7.790	56.58	7.74	0.3412	Inferior
60	403	8.020	61.99	10.49	0.5213	Good
61	404	4.990	60.29	8.18	0.2460	Inferior
62	405	7.670	56.90	14.22	0.6205	Good
63	406	4.720	52.82	11.74	0.2926	Good
64	407	7.830	53.30	8.22	0.3430	Inferior
65	420	9.370	66.87	9.66	0.6053	Good
66	421	8.540	70.50	10.24	0.6166	Good
67	422	9.310	68.35	13.52	0.8602	Good
68	423	9.220	63.86	11.24	0.6620	Good
69	424	3.870	50.36	9.67	0.1885	Good
70	425	9.020	52.45	13.52	0.6395	Good
71	426	8.050	56.08	10.97	0.4951	Good
72	434	8.300	54.51	11.65	0.5271	Good
73	435	10.060	63.32	9.18	0.5845	Good
74	436	9.700	51.43	11.76	0.5869	Good



75	437	9.490	64.89	9.52	0.5865	Good
76	438	9.350	54.54	10.73	0.5470	Good
77	439	9.690	49.58	13.90	0.6676	Good
78	440	9.770	61.70	11.41	0.6878	Good
79	447	8.070	68.86	11.30	0.6278	Good
80	448	8.170	60.66	10.96	0.5433	Good
81	449	9.960	64.48	11.80	0.7580	Good
82	450	9.520	55.02	13.79	0.7226	Good
83	451	10.150	63.75	8.83	0.5714	Inferior
84	452	9.750	70.50	11.15	0.7664	Good
85	460	10.410	60.99	14.46	0.9182	Good
86	461	10.560	62.77	11.60	0.7688	Good
87	462	9.580	62.14	14.03	0.8354	Good
88	463	9.640	66.99	14.15	0.9139	Good
89	464	9.630	51.34	9.12	0.4507	Good
90	465	7.840	67.04	13.31	0.6993	Good
91	415	7.590	54.43	13.43	0.5548	Good
92	416	9.870	58.03	13.77	0.7886	Good
93	417	7.800	56.34	9.89	0.4345	Good
94	418	4.640	66.86	10.28	0.3188	Good
95	419	7.990	62.90	11.96	0.6008	Good
96	472	9.630	60.37	8.61	0.5008	Inferior
97	473	9.900	57.90	10.24	0.5871	Good
98	474	9.760	63.59	10.99	0.6822	Good
99	475	9.310	58.30	10.02	0.5437	Good
100	476	9.580	60.93	9.31	0.5432	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 08/134**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	777	7.550	53.92	12.31	0.5013	Good
2	778	5.690	59.41	11.19	0.3784	Good
3	779	3.620	56.49	11.49	0.2349	Good
4	780	3.590	71.00	14.08	0.3590	Good
5	781	9.440	64.20	13.41	0.8128	Good
6	782	4.740	60.14	10.14	0.2891	Good
7	789	7.370	56.45	9.34	0.3884	Good
8	790	4.730	56.93	10.22	0.2753	Good
9	791	4.750	59.86	11.21	0.3187	Good
10	792	4.550	61.42	10.47	0.2926	Good
11	793	7.840	58.80	9.83	0.4532	Good

12	794	7.840	60.72	9.67	0.4602	Good
13	701	5.170	57.16	12.53	0.3702	Good
14	702	8.050	58.32	13.89	0.6521	Good
15	703	5.120	57.05	9.17	0.2678	Good
16	704	8.260	56.51	9.68	0.4518	Good
17	705	5.380	61.79	12.57	0.4180	Good
18	706	9.660	55.61	11.87	0.6376	Good
19	707	9.600	56.40	10.43	0.5645	Good
20	715	9.470	60.39	9.09	0.5199	Good
21	716	9.410	60.54	10.29	0.5862	Good
22	717	9.770	62.13	9.34	0.5667	Good
23	718	9.230	57.71	11.92	0.6350	Good
24	719	7.850	57.60	9.81	0.4435	Good
25	720	9.360	63.33	10.58	0.6271	Good
26	721	9.280	59.61	9.70	0.5364	Good
27	729	9.520	59.29	9.16	0.5169	Good
28	730	8.110	62.83	9.85	0.5020	Good
29	731	8.350	66.20	9.27	0.5127	Good
30	732	4.770	59.68	9.79	0.2786	Good
31	733	10.020	59.99	9.68	0.5822	Good
32	734	9.700	57.03	12.73	0.7042	Good
33	735	9.900	64.90	10.02	0.6435	Good
34	754	8.700	71.34	12.83	0.7961	Good
35	755	7.380	60.07	15.50	0.6871	Good
36	756	7.440	55.44	11.74	0.4843	Good
37	757	8.450	55.18	10.24	0.4774	Good
38	758	8.630	57.97	10.38	0.5195	Good
39	759	9.600	68.66	13.28	0.8755	Good
40	766	7.450	58.94	10.30	0.4522	Good
41	767	7.610	59.41	13.06	0.5905	Good
42	768	7.570	55.41	12.20	0.5117	Good
43	769	9.420	55.35	10.80	0.5633	Good
44	770	4.560	57.94	10.86	0.2868	Good
45	771	4.480	56.97	9.69	0.2473	Good
46	783	7.850	60.09	9.99	0.4710	Good
47	784	7.520	61.28	11.55	0.5324	Good
48	785	7.630	59.72	9.70	0.4418	Good
49	786	7.870	55.72	10.50	0.4604	Good
50	787	7.910	56.10	9.47	0.4200	Good
51	788	7.390	55.29	10.06	0.4109	Good

52	795	9.340	57.69	11.82	0.6370	Good
53	796	7.650	58.66	11.42	0.5126	Good
54	797	4.550	61.38	10.28	0.2871	Good
55	798	3.910	58.11	12.53	0.2846	Good
56	799	3.770	69.10	13.23	0.3446	Good
57	800	3.900	57.64	13.62	0.3062	Good
58	708	7.880	59.38	10.54	0.4933	Good
59	709	9.690	57.41	14.44	0.8033	Good
60	710	9.670	58.79	9.34	0.5309	Good
61	711	7.990	57.30	12.88	0.5897	Good
62	712	8.030	56.83	12.48	0.5693	Good
63	713	9.520	59.17	11.09	0.6245	Good
64	714	8.540	55.98	4.61	0.2203	Inferior
65	722	4.660	57.98	10.97	0.2964	Good
66	723	8.490	59.63	9.24	0.4678	Good
67	724	7.650	58.29	12.94	0.5768	Good
68	725	9.790	58.62	9.95	0.5708	Good
69	726	4.070	58.65	12.84	0.3065	Good
70	727	7.840	73.17	12.04	0.6907	Good
71	728	9.310	61.02	10.26	0.5828	Good
72	736	8.360	61.46	10.79	0.5543	Good
73	737	4.090	61.65	10.22	0.2577	Good
74	738	4.060	59.55	9.64	0.2330	Good
75	739	9.640	59.56	9.37	0.5379	Good
76	740	7.760	64.05	9.51	0.4726	Good
77	741	9.770	62.01	10.51	0.6370	Good
78	742	9.680	67.05	9.74	0.6321	Good
79	748	3.590	56.31	15.61	0.3156	Good
80	749	8.730	59.44	10.33	0.5360	Good
81	750	3.870	59.37	12.18	0.2798	Good
82	751	8.190	57.72	14.95	0.7068	Good
83	752	9.370	57.69	12.24	0.6615	Good
84	753	9.360	57.48	12.49	0.6720	Good
85	760	9.650	59.95	12.14	0.7025	Good
86	761	4.860	54.96	12.59	0.3363	Good
87	762	3.480	52.56	12.56	0.2297	Good
88	763	4.760	59.38	10.36	0.2927	Good
89	764	4.610	58.59	10.14	0.2738	Good
90	765	4.430	57.61	12.41	0.3167	Good
91	743	4.030	61.62	12.50	0.3103	Good

92	744	4.500	61.07	9.45	0.2597	Good
93	745	9.370	62.25	7.98	0.4657	Inferior
94	746	7.940	61.04	9.49	0.4597	Good
95	747	7.880	66.59	13.29	0.6974	Good
96	772	4.580	55.69	13.58	0.3462	Good
97	773	7.070	60.10	13.14	0.5585	Good
98	774	7.630	57.96	12.77	0.5646	Good
99	775	7.300	68.68	13.82	0.6928	Good
100	776	7.600	54.93	14.55	0.6072	Good

DATE: 11.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 26/395**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2591	3.720	58.82	10.98	0.2403	Good
2	2592	8.240	63.62	9.48	0.4969	Good
3	2593	7.570	61.60	11.09	0.5170	Good
4	2594	9.160	58.51	15.84	0.8491	Good
5	2595	8.780	59.00	15.42	0.7990	Good
6	2501	7.480	50.13	9.10	0.3411	Good
7	2502	4.770	47.92	12.52	0.2862	Good
8	2503	9.200	53.00	14.68	0.7158	Good
9	2504	8.040	57.85	10.08	0.4687	Good
10	2505	7.950	57.88	11.97	0.5509	Good
11	2506	7.890	53.10	14.35	0.6012	Good
12	2507	4.780	58.53	12.22	0.3418	Good
13	2520	4.810	60.58	9.82	0.2862	Good
14	2521	7.740	64.87	9.36	0.4698	Good
15	2522	8.180	49.74	16.79	0.6830	Good
16	2523	9.660	56.19	10.02	0.5439	Good
17	2524	9.160	49.67	15.44	0.7026	Good
18	2525	4.920	55.55	9.81	0.2681	Good
19	2526	8.140	58.07	9.59	0.4534	Good
20	2527	8.480	55.38	15.13	0.7106	Good
21	2541	9.520	55.91	11.64	0.6198	Good
22	2542	7.940	56.47	13.78	0.6177	Good
23	2543	5.020	55.95	10.49	0.2947	Good
24	2544	7.450	49.01	13.47	0.4917	Good
25	2545	8.620	49.48	10.41	0.4439	Good
26	2546	7.700	48.39	11.86	0.4420	Good
27	2547	3.870	50.67	11.33	0.2221	Good
28	2554	7.780	61.95	9.12	0.4396	Good
29	2555	7.630	56.55	10.73	0.4631	Good
30	2556	7.570	49.66	10.29	0.3868	Good
31	2557	9.460	55.97	9.97	0.5279	Good
32	2558	9.370	57.33	14.04	0.7543	Good
33	2559	8.890	54.29	13.65	0.6587	Good
34	2560	7.450	57.46	10.34	0.4425	Good

35	2568	7.710	56.03	13.19	0.5698	Good
36	2569	7.460	57.58	11.79	0.5065	Good
37	2570	7.380	62.01	11.90	0.5446	Good
38	2571	7.780	61.14	11.43	0.5438	Good
39	2572	7.910	58.54	9.96	0.4612	Good
40	2573	8.860	57.89	10.05	0.5157	Good
41	2580	8.930	60.82	9.24	0.5019	Good
42	2581	9.230	60.16	9.42	0.5233	Good
43	2582	4.100	65.47	10.00	0.2686	Good
44	2583	7.380	49.14	16.30	0.5911	Good
45	2584	4.440	55.65	14.05	0.3472	Good
46	2596	4.940	57.90	12.82	0.3665	Good
47	2597	4.560	61.10	15.11	0.4209	Good
48	2598	7.660	60.76	11.45	0.5331	Good
49	2599	7.390	64.65	10.44	0.4988	Good
50	2600	7.460	64.60	10.84	0.5222	Good
51	2508	7.190	54.85	10.85	0.4278	Good
52	2509	7.800	54.92	7.32	0.3136	Inferior
53	2510	4.460	60.27	11.83	0.3180	Good
54	2511	7.700	60.68	14.29	0.6676	Good
55	2512	3.910	59.58	10.54	0.2455	Good
56	2513	4.300	56.67	15.12	0.3685	Good
57	2514	4.870	64.29	9.95	0.3117	Good
58	2528	7.650	57.34	14.18	0.6219	Good
59	2529	3.630	61.53	12.95	0.2893	Good
60	2530	4.350	63.24	9.80	0.2697	Good
61	2531	7.660	48.72	10.59	0.3953	Good
62	2532	3.950	69.87	13.20	0.3642	Good
63	2533	4.830	55.80	12.83	0.3458	Good
64	2534	3.930	58.99	9.92	0.2299	Good
65	2535	8.130	54.15	12.76	0.5618	Good
66	2548	7.400	50.85	10.52	0.3959	Good
67	2549	7.560	51.94	13.42	0.5269	Good
68	2550	7.690	51.38	11.60	0.4583	Good
69	2551	7.620	56.89	11.88	0.5151	Good
70	2552	7.680	56.82	10.42	0.4547	Good
71	2553	4.960	52.71	11.00	0.2877	Good
72	2561	1.690	56.00	9.02	0.0853	Good
73	2562	4.380	59.70	15.04	0.3933	Good
74	2563	4.530	56.05	10.94	0.2777	Good

75	2564	4.700	60.67	16.40	0.4677	Good
76	2565	4.630	65.40	12.06	0.3653	Good
77	2566	4.560	66.18	10.91	0.3292	Good
78	2567	7.630	64.58	10.02	0.4937	Good
79	2574	7.760	56.74	9.61	0.4229	Good
80	2575	3.640	58.55	10.78	0.2297	Good
81	2576	3.870	59.91	9.03	0.2094	Good
82	2577	7.890	57.48	11.24	0.5097	Good
83	2578	8.140	65.26	10.47	0.5560	Good
84	2579	9.470	62.38	9.92	0.5862	Good
85	2585	8.760	58.91	11.25	0.5808	Good
86	2586	7.400	51.32	11.11	0.4218	Good
87	2587	7.830	53.94	9.23	0.3899	Good
88	2588	7.600	51.55	9.41	0.3686	Good
89	2589	9.110	55.05	14.39	0.7215	Good
90	2590	9.610	53.77	6.96	0.3594	Inferior
91	2515	9.880	60.39	11.91	0.7104	Good
92	2516	9.760	56.90	7.33	0.4070	Inferior
93	2517	9.580	66.00	10.70	0.6763	Good
94	2518	3.780	57.32	7.97	0.1727	Inferior
95	2519	7.940	65.56	12.32	0.6416	Good
96	2536	7.890	52.47	12.94	0.5357	Good
97	2537	8.180	55.60	11.56	0.5260	Good
98	2538	10.020	58.62	9.93	0.5832	Good
99	2539	4.810	58.54	12.27	0.3454	Good
100	2540	8.100	61.56	11.52	0.5743	Good

DATE: 10.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 23/354**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2220	7.780	54.13	12.06	0.5080	Good
2	2221	9.850	69.14	12.94	0.8816	Good
3	2222	4.620	56.34	11.18	0.2911	Good
4	2223	7.900	53.21	12.08	0.5080	Good
5	2224	10.090	53.76	9.02	0.4894	Good
6	2225	9.380	52.98	10.44	0.5187	Good
7	2226	4.660	53.80	12.90	0.3234	Good
8	2234	4.410	55.46	14.06	0.3440	Good
9	2235	7.070	55.43	15.50	0.6073	Good
10	2236	9.440	68.75	12.45	0.8081	Good
11	2237	8.260	52.13	7.00	0.3015	Inferior
12	2238	4.820	49.12	9.22	0.2183	Good
13	2239	10.570	55.21	7.66	0.4471	Inferior
14	2240	8.170	50.59	7.02	0.2900	Inferior
15	2248	9.780	50.17	11.38	0.5584	Good
16	2249	4.930	53.25	7.83	0.2056	Inferior
17	2250	9.660	52.10	10.35	0.5207	Good
18	2251	9.360	52.55	8.72	0.4287	Inferior
19	2252	7.670	52.58	10.50	0.4234	Good
20	2253	5.650	59.78	10.74	0.3627	Good
21	2260	7.340	52.79	9.91	0.3839	Good
22	2261	9.330	57.84	11.50	0.6204	Good
23	2262	7.660	59.23	11.04	0.5010	Good
24	2263	7.710	54.78	10.28	0.4341	Good
25	2264	7.780	56.78	10.92	0.4824	Good
26	2275	7.670	64.23	14.20	0.6995	Good
27	2276	8.060	54.14	12.74	0.5561	Good
28	2277	5.010	59.72	11.50	0.3442	Good
29	2278	7.950	68.77	12.13	0.6630	Good
30	2279	7.860	62.53	11.98	0.5887	Good
31	2208	4.650	68.62	12.30	0.3925	Good
32	2209	4.700	54.84	11.07	0.2853	Good
33	2210	9.520	69.70	12.64	0.8387	Good
34	2211	4.690	57.01	11.02	0.2945	Good



35	2212	9.430	55.51	11.48	0.6007	Good
36	2213	7.680	56.95	9.36	0.4093	Good
37	2214	9.690	62.63	7.86	0.4767	Inferior
38	2293	9.690	53.31	13.47	0.6957	Good
39	2294	9.710	57.23	9.85	0.5476	Good
40	2295	4.770	52.85	10.10	0.2547	Good
41	2296	7.840	53.39	11.26	0.4712	Good
42	2297	4.740	57.57	9.38	0.2560	Good
43	2298	9.500	53.93	11.01	0.5643	Good
44	2299	9.710	68.05	12.84	0.8487	Good
45	2300	6.710	52.96	9.06	0.3221	Good
46	2227	4.480	59.10	12.13	0.3212	Good
47	2228	7.500	54.86	10.39	0.4275	Good
48	2229	7.630	54.76	10.61	0.4433	Good
49	2230	7.370	57.61	9.34	0.3965	Good
50	2231	4.810	56.07	12.47	0.3362	Good
51	2232	8.970	60.82	10.85	0.5920	Good
52	2233	7.690	64.43	12.54	0.6214	Good
53	2241	8.560	52.14	7.90	0.3527	Inferior
54	2242	8.980	70.75	12.24	0.7777	Good
55	2243	4.690	67.95	12.73	0.4057	Good
56	2244	5.860	53.16	10.52	0.3276	Good
57	2245	4.580	50.29	13.04	0.3004	Good
58	2246	8.220	52.23	9.61	0.4126	Good
59	2247	9.210	54.18	8.18	0.4080	Inferior
60	2254	4.750	54.90	10.86	0.2831	Good
61	2255	5.530	51.50	11.63	0.3312	Good
62	2256	5.290	49.59	8.81	0.2312	Inferior
63	2257	8.510	61.35	9.71	0.5072	Good
64	2258	5.420	69.10	13.07	0.4894	Good
65	2259	9.600	54.78	9.15	0.4810	Good
66	2265	9.510	54.21	10.83	0.5582	Good
67	2266	7.860	68.33	10.95	0.5879	Good
68	2267	7.950	66.38	10.59	0.5589	Good
69	2268	7.460	55.38	12.22	0.5050	Good
70	2269	7.660	54.60	12.99	0.5431	Good
71	2280	7.540	58.17	12.98	0.5693	Good
72	2281	7.700	60.10	11.85	0.5482	Good
73	2282	7.850	61.66	13.33	0.6453	Good
74	2283	7.560	61.49	10.96	0.5095	Good

75	2284	7.120	68.13	11.87	0.5760	Good
76	2201	8.080	54.99	8.07	0.3588	Inferior
77	2202	10.120	67.24	12.57	0.8551	Good
78	2203	4.440	56.26	10.79	0.2695	Good
79	2204	3.770	50.45	13.95	0.2654	Good
80	2205	3.870	53.94	10.98	0.2291	Good
81	2206	7.810	49.96	9.15	0.3569	Good
82	2207	9.370	52.75	9.67	0.4779	Good
83	2285	7.810	67.19	10.92	0.5733	Good
84	2286	5.470	54.23	5.88	0.1745	Inferior
85	2287	3.900	58.96	11.62	0.2672	Good
86	2288	7.550	63.86	13.06	0.6297	Good
87	2289	4.510	64.01	12.64	0.3649	Good
88	2290	7.510	55.62	7.89	0.3297	Inferior
89	2291	9.310	51.76	8.11	0.3910	Inferior
90	2292	7.740	59.33	7.13	0.3274	Inferior
91	2270	7.770	57.07	12.53	0.5556	Good
92	2271	7.680	61.98	10.86	0.5169	Good
93	2272	7.730	60.66	12.23	0.5736	Good
94	2273	7.590	53.82	11.41	0.4660	Good
95	2274	7.730	62.89	12.04	0.5852	Good
96	2215	9.640	59.07	9.46	0.5389	Good
97	2216	4.580	58.54	11.56	0.3101	Good
98	2217	3.840	60.20	9.73	0.2250	Good
99	2218	3.560	62.49	9.89	0.2200	Good
100	2219	4.320	65.98	10.11	0.2881	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 24/355**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2321	7.880	54.51	12.68	0.5445	Good
2	2322	5.090	56.76	11.58	0.3344	Good
3	2323	3.530	49.37	8.24	0.1437	Inferior
4	2324	9.610	48.62	9.30	0.4344	Good
5	2325	4.830	52.43	9.67	0.2449	Good
6	2326	8.330	51.54	11.20	0.4806	Good
7	2327	9.510	54.46	8.39	0.4346	Inferior
8	2335	7.210	53.06	9.71	0.3713	Good
9	2336	4.480	62.62	10.08	0.2827	Good
10	2337	7.120	50.15	12.16	0.4343	Good
11	2338	4.610	56.89	8.24	0.2162	Inferior

12	2339	7.340	60.15	9.86	0.4353	Good
13	2340	7.310	54.94	13.76	0.5526	Good
14	2347	4.610	53.43	9.30	0.2291	Good
15	2348	4.910	49.64	10.21	0.2489	Good
16	2349	9.050	53.89	9.30	0.4534	Good
17	2350	4.520	50.63	9.22	0.2111	Good
18	2351	7.620	55.86	10.49	0.4465	Good
19	2352	7.950	61.19	9.79	0.4762	Good
20	2359	4.780	53.07	7.69	0.1950	Inferior
21	2360	4.940	58.77	9.14	0.2653	Good
22	2361	4.880	57.33	8.22	0.2298	Inferior
23	2362	4.600	59.65	9.92	0.2723	Good
24	2363	7.140	53.29	9.85	0.3749	Good
25	2364	7.080	62.24	9.45	0.4163	Good
26	2365	4.800	59.10	10.36	0.2938	Good
27	2373	7.490	68.41	10.92	0.5595	Good
28	2374	7.560	76.54	10.79	0.6245	Good
29	2375	4.200	73.23	10.46	0.3217	Good
30	2376	7.660	54.83	14.99	0.6297	Good
31	2377	7.110	70.99	9.28	0.4685	Good
32	2301	7.830	54.73	9.68	0.4150	Good
33	2302	4.320	54.12	9.18	0.2147	Good
34	2303	7.700	55.85	12.43	0.5344	Good
35	2304	7.840	51.94	10.22	0.4163	Good
36	2305	7.950	54.51	9.78	0.4237	Good
37	2306	4.870	52.09	12.29	0.3117	Good
38	2307	8.000	53.49	10.26	0.4392	Good
39	2394	5.400	51.33	9.27	0.2570	Good
40	2395	7.850	51.25	8.39	0.3376	Inferior
41	2396	7.660	52.28	11.59	0.4642	Good
42	2397	7.440	48.44	11.11	0.4003	Good
43	2398	7.930	54.19	10.44	0.4488	Good
44	2399	4.900	51.39	9.96	0.2509	Good
45	2400	8.040	50.42	6.90	0.2798	Inferior
46	2328	5.380	50.82	9.46	0.2588	Good
47	2329	4.410	55.94	12.03	0.2968	Good
48	2330	9.650	52.38	13.36	0.6755	Good
49	2331	4.580	57.09	11.98	0.3133	Good
50	2332	7.810	74.27	11.78	0.6834	Good
51	2333	4.290	45.97	9.72	0.1918	Good

52	2334	7.370	49.51	9.63	0.3515	Good
53	2341	4.420	62.19	12.61	0.3465	Good
54	2342	7.210	63.17	14.47	0.6590	Good
55	2343	5.040	54.93	9.48	0.2626	Good
56	2344	7.530	53.23	5.62	0.2251	Inferior
57	2345	4.400	52.94	6.55	0.1527	Inferior
58	2346	4.880	48.55	10.83	0.2567	Good
59	2353	4.450	49.23	9.24	0.2025	Good
60	2354	4.620	52.53	11.00	0.2670	Good
61	2355	7.330	52.03	10.76	0.4105	Good
62	2356	3.760	50.55	9.10	0.1730	Good
63	2357	4.540	48.61	10.45	0.2306	Good
64	2358	7.210	46.30	13.17	0.4398	Good
65	2366	7.630	56.50	12.39	0.5341	Good
66	2367	4.410	61.98	11.00	0.3008	Good
67	2368	4.820	62.04	11.88	0.3552	Good
68	2369	4.440	56.88	11.45	0.2890	Good
69	2370	9.410	56.83	11.79	0.6305	Good
70	2371	4.580	59.81	7.89	0.2162	Inferior
71	2372	4.670	64.59	12.29	0.3708	Good
72	2378	4.490	52.22	11.24	0.2636	Good
73	2379	8.050	50.28	9.39	0.3800	Good
74	2380	4.610	57.09	9.88	0.2600	Good
75	2381	3.970	55.82	9.41	0.2084	Good
76	2382	7.980	54.75	11.63	0.5083	Good
77	2308	7.780	58.54	11.77	0.5360	Good
78	2309	8.920	53.50	14.92	0.7118	Good
79	2310	4.880	74.35	11.94	0.4333	Good
80	2311	4.960	51.63	11.89	0.3045	Good
81	2312	9.970	61.57	14.54	0.8923	Good
82	2313	7.740	55.81	12.04	0.5201	Good
83	2314	8.880	64.62	11.96	0.6864	Good
84	2387	7.850	49.47	6.29	0.2441	Inferior
85	2388	4.860	55.86	6.16	0.1672	Inferior
86	2389	7.710	49.35	7.50	0.2853	Inferior
87	2390	7.880	50.86	8.28	0.3317	Inferior
88	2391	9.560	51.92	8.44	0.4187	Inferior
89	2392	7.720	47.80	10.08	0.3721	Good
90	2393	8.020	50.41	9.68	0.3914	Good
91	2383	4.290	53.34	11.32	0.2591	Good

92	2384	7.720	55.96	9.01	0.3891	Good
93	2385	4.180	52.97	11.14	0.2466	Good
94	2386	4.150	62.53	13.85	0.3594	Good
95	2315	9.350	54.74	12.24	0.6265	Good
96	2316	10.020	56.93	11.58	0.6603	Good
97	2317	7.730	58.61	10.97	0.4970	Good
98	2318	9.200	52.90	9.26	0.4508	Good
99	2319	7.690	59.94	11.90	0.5483	Good
100	2320	7.860	62.95	15.52	0.7679	Good

DATE: 09.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 29/398**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2806	4.750	59.90	12.99	0.3696	Good
2	2807	7.990	64.47	12.38	0.6376	Good
3	2808	4.840	59.32	12.93	0.3712	Good
4	2809	7.900	60.50	10.99	0.5254	Good
5	2810	3.680	70.74	12.33	0.3209	Good
6	2811	7.220	59.04	16.55	0.7054	Good
7	2812	7.380	59.27	15.32	0.6701	Good
8	2825	4.090	65.56	10.65	0.2855	Good
9	2826	3.810	64.89	14.38	0.3555	Good
10	2827	7.310	55.04	12.74	0.5124	Good
11	2828	4.760	58.26	13.49	0.3741	Good
12	2829	4.470	53.44	15.33	0.3661	Good
13	2830	3.560	53.38	16.73	0.3179	Good
14	2837	4.800	53.78	15.25	0.3936	Good
15	2838	7.490	50.60	10.30	0.3902	Good
16	2839	7.100	56.18	15.72	0.6269	Good
17	2840	7.350	56.98	15.78	0.6608	Good
18	2841	4.560	57.93	16.04	0.4236	Good
19	2842	7.560	59.68	14.18	0.6396	Good
20	2849	4.610	62.38	13.53	0.3891	Good
21	2850	7.620	61.50	14.31	0.6706	Good
22	2851	7.530	60.61	15.39	0.7025	Good
23	2852	4.730	56.78	9.35	0.2512	Good
24	2853	4.830	54.46	12.47	0.3280	Good
25	2854	9.370	53.57	15.34	0.7702	Good
26	2861	8.080	58.61	11.48	0.5438	Good
27	2862	7.920	54.79	9.49	0.4118	Good
28	2863	4.710	61.30	9.56	0.2760	Good
29	2864	8.080	56.94	14.70	0.6763	Good
30	2865	7.720	58.11	15.26	0.6848	Good
31	2866	7.650	59.73	16.07	0.7344	Good
32	2867	4.850	56.59	15.07	0.4137	Good
33	2875	9.170	57.88	12.63	0.6703	Good
34	2876	7.520	53.40	16.33	0.6557	Good

35	2877	4.820	58.80	11.00	0.3119	Good
36	2878	5.170	59.23	13.78	0.4219	Good
37	2879	9.300	55.81	11.00	0.5710	Good
38	2880	4.750	53.12	15.64	0.3947	Good
39	2887	5.180	59.08	15.44	0.4724	Good
40	2888	4.030	57.78	9.07	0.2112	Good
41	2889	4.480	59.76	13.37	0.3580	Good
42	2890	4.050	67.15	9.47	0.2576	Good
43	2891	7.860	58.31	15.06	0.6901	Good
44	2892	4.810	60.55	13.38	0.3896	Good
45	2893	4.010	57.88	15.79	0.3665	Good
46	2813	9.320	57.22	15.43	0.8230	Good
47	2814	4.410	53.99	15.98	0.3806	Good
48	2815	7.370	56.15	15.67	0.6486	Good
49	2816	7.570	55.45	10.96	0.4603	Good
50	2817	4.450	52.69	12.03	0.2821	Good
51	2818	7.470	61.16	10.24	0.4676	Good
52	2819	7.510	64.46	10.10	0.4889	Good
53	2831	4.270	53.50	16.49	0.3766	Good
54	2832	4.140	55.35	9.74	0.2231	Good
55	2833	7.790	54.25	14.64	0.6185	Good
56	2834	8.400	51.23	15.28	0.6577	Good
57	2835	4.430	53.19	16.92	0.3987	Good
58	2836	8.730	58.54	11.80	0.6032	Good
59	2843	4.470	59.71	10.85	0.2897	Good
60	2844	7.140	57.36	14.89	0.6098	Good
61	2845	4.750	54.26	14.28	0.3681	Good
62	2846	4.480	55.55	16.67	0.4148	Good
63	2847	4.400	63.11	10.71	0.2974	Good
64	2848	4.120	64.15	11.80	0.3119	Good
65	2855	7.360	59.64	15.63	0.6860	Good
66	2856	7.760	55.29	13.75	0.5898	Good
67	2857	8.000	51.41	16.48	0.6776	Good
68	2858	9.470	54.56	15.69	0.8106	Good
69	2859	9.530	53.23	15.56	0.7891	Good
70	2860	8.160	50.51	9.52	0.3925	Good
71	2868	9.440	58.62	16.72	0.9251	Good
72	2869	8.140	56.64	16.19	0.7464	Good
73	2870	8.040	63.91	7.10	0.3650	Inferior
74	2871	7.670	57.17	16.16	0.7087	Good

75	2872	4.720	58.40	9.93	0.2738	Good
76	2873	4.720	58.38	14.29	0.3936	Good
77	2874	4.730	56.89	12.90	0.3472	Good
78	2881	4.820	56.54	16.73	0.4560	Good
79	2882	8.020	57.46	16.78	0.7731	Good
80	2883	8.090	60.71	14.63	0.7184	Good
81	2884	7.620	60.14	14.20	0.6507	Good
82	2885	7.950	57.82	15.06	0.6924	Good
83	2886	4.730	54.52	14.49	0.3737	Good
84	2894	7.910	59.96	14.38	0.6818	Good
85	2895	7.830	58.84	13.72	0.6319	Good
86	2896	7.770	62.25	13.83	0.6690	Good
87	2897	4.460	61.82	15.14	0.4175	Good
88	2898	9.670	63.35	14.63	0.8964	Good
89	2899	7.980	58.74	14.69	0.6887	Good
90	2900	3.950	60.85	16.32	0.3922	Good
91	2820	4.430	59.25	13.54	0.3553	Good
92	2821	4.030	58.42	13.73	0.3232	Good
93	2822	7.320	62.83	13.86	0.6376	Good
94	2823	3.630	63.29	13.22	0.3038	Good
95	2824	7.170	61.63	11.13	0.4919	Good
96	2801	8.110	61.30	15.14	0.7526	Good
97	2802	7.640	54.51	16.84	0.7014	Good
98	2803	3.560	61.00	14.28	0.3101	Good
99	2804	8.510	62.64	9.02	0.4808	Good
100	2805	7.780	55.64	14.97	0.6481	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 33/451**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3237	7.350	49.51	12.32	0.4484	Good
2	3238	4.630	53.70	10.47	0.2602	Good
3	3239	7.910	52.44	6.69	0.2776	Inferior
4	3240	7.600	50.58	15.68	0.6027	Good
5	3241	9.540	52.67	13.18	0.6621	Good
6	3242	4.570	52.82	13.78	0.3327	Good
7	3243	7.830	53.20	10.15	0.4228	Good
8	3251	7.690	56.94	11.03	0.4829	Good
9	3252	4.800	57.43	13.39	0.3691	Good
10	3253	4.690	58.71	7.09	0.1951	Inferior
11	3254	7.560	59.45	12.65	0.5685	Good



12	3255	9.550	57.35	9.05	0.4956	Good
13	3256	8.000	62.35	9.67	0.4824	Good
14	3263	4.480	60.15	6.87	0.1850	Inferior
15	3264	4.760	66.31	9.67	0.3051	Good
16	3265	7.680	55.54	15.25	0.6505	Good
17	3266	7.420	57.84	11.50	0.4934	Good
18	3267	4.440	57.29	9.86	0.2509	Good
19	3268	4.260	64.42	13.09	0.3591	Good
20	3275	3.550	60.68	12.05	0.2595	Good
21	3276	7.620	61.06	10.51	0.4892	Good
22	3277	7.850	60.59	12.56	0.5974	Good
23	3278	7.060	60.15	16.69	0.7088	Good
24	3279	7.540	60.56	10.12	0.4622	Good
25	3280	8.070	59.40	11.16	0.5350	Good
26	3281	9.280	64.43	11.17	0.6682	Good
27	3289	9.240	59.54	10.51	0.5784	Good
28	3290	6.920	62.54	10.84	0.4692	Good
29	3291	9.570	62.41	8.38	0.5005	Inferior
30	3292	7.750	63.93	9.12	0.4518	Good
31	3293	4.470	60.58	11.44	0.3098	Good
32	3294	4.790	60.34	15.10	0.4364	Good
33	3208	8.070	61.16	9.68	0.4777	Good
34	3209	4.590	67.28	4.95	0.1528	Inferior
35	3210	4.420	63.29	10.13	0.2833	Good
36	3211	4.620	61.17	11.33	0.3202	Good
37	3212	4.530	64.98	7.91	0.2328	Inferior
38	3213	4.440	61.54	12.15	0.3321	Good
39	3214	3.950	61.47	13.01	0.3160	Good
40	3226	8.150	61.31	13.31	0.6650	Good
41	3227	3.840	61.25	14.19	0.3337	Good
42	3228	4.660	62.24	14.44	0.4189	Good
43	3229	4.750	60.34	10.23	0.2931	Good
44	3230	4.360	61.50	12.91	0.3462	Good
45	3231	7.490	60.21	11.14	0.5026	Good
46	3244	4.460	59.74	11.85	0.3158	Good
47	3245	4.760	58.82	11.36	0.3180	Good
48	3246	3.800	59.09	11.19	0.2512	Good
49	3247	7.330	57.95	9.56	0.4061	Good
50	3248	7.260	58.92	11.56	0.4944	Good
51	3249	4.770	60.19	10.88	0.3124	Good

52	3250	7.650	57.48	14.23	0.6258	Good
53	3257	7.760	57.28	12.52	0.5564	Good
54	3258	4.550	60.03	10.86	0.2967	Good
55	3259	7.510	61.36	12.11	0.5580	Good
56	3260	7.790	61.07	13.53	0.6435	Good
57	3261	4.470	59.42	13.97	0.3710	Good
58	3262	7.490	63.11	13.18	0.6232	Good
59	3269	3.970	61.88	11.62	0.2854	Good
60	3270	4.200	61.30	12.84	0.3305	Good
61	3271	4.060	62.27	12.70	0.3211	Good
62	3272	7.430	58.86	12.96	0.5669	Good
63	3273	4.480	60.16	13.26	0.3575	Good
64	3274	4.500	62.15	14.01	0.3920	Good
65	3282	9.310	61.18	14.81	0.8435	Good
66	3283	8.970	60.72	13.70	0.7463	Good
67	3284	7.570	71.38	12.26	0.6624	Good
68	3285	4.740	61.11	12.62	0.3655	Good
69	3286	7.140	60.94	13.95	0.6069	Good
70	3287	7.780	61.89	13.65	0.6574	Good
71	3288	8.980	61.33	11.25	0.6196	Good
72	3295	7.410	61.23	13.64	0.6187	Good
73	3296	4.520	60.26	14.69	0.4000	Good
74	3297	4.760	60.77	13.26	0.3837	Good
75	3298	4.670	61.19	12.14	0.3470	Good
76	3299	3.670	60.67	14.85	0.3307	Good
77	3300	7.310	62.41	11.73	0.5351	Good
78	3201	7.560	59.14	12.36	0.5526	Good
79	3202	8.110	58.52	12.75	0.6050	Good
80	3203	7.080	61.84	13.28	0.5813	Good
81	3204	4.300	58.92	10.42	0.2640	Good
82	3205	9.080	58.84	15.02	0.8027	Good
83	3206	4.260	56.39	13.83	0.3323	Good
84	3207	4.860	59.51	11.31	0.3271	Good
85	3220	4.910	64.26	10.33	0.3260	Good
86	3221	4.520	60.69	13.68	0.3752	Good
87	3222	9.370	60.33	13.09	0.7402	Good
88	3223	4.340	60.16	10.64	0.2778	Good
89	3224	7.570	62.51	13.21	0.6253	Good
90	3225	7.990	57.50	16.24	0.7463	Good
91	3215	5.020	58.48	13.94	0.4091	Good

92	3216	4.890	61.24	15.48	0.4636	Good
93	3217	4.800	61.26	13.88	0.4080	Good
94	3218	4.810	59.74	15.92	0.4574	Good
95	3219	9.320	63.72	11.41	0.6776	Good
96	3232	4.870	59.60	11.83	0.3433	Good
97	3233	7.740	57.84	12.34	0.5526	Good
98	3234	7.920	59.89	14.44	0.6851	Good
99	3235	4.500	62.39	13.62	0.3825	Good
100	3236	4.790	63.28	11.50	0.3487	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 27/396**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2687	7.750	67.94	14.60	0.7688	Good
2	2688	3.330	58.69	16.15	0.3157	Good
3	2689	4.490	57.98	15.83	0.4122	Good
4	2690	3.770	53.24	8.41	0.1689	Inferior
5	2691	7.770	51.87	7.54	0.3038	Inferior
6	2692	7.420	49.59	8.41	0.3094	Inferior
7	2693	7.900	50.57	7.99	0.3192	Inferior
8	2601	4.460	56.00	11.36	0.2837	Good
9	2602	8.480	53.94	11.09	0.5071	Good
10	2603	7.510	58.38	11.87	0.5204	Good
11	2604	4.680	60.79	10.84	0.3084	Good
12	2605	4.700	51.36	10.16	0.2453	Good
13	2606	7.840	56.27	12.23	0.5394	Good
14	2607	4.820	62.93	11.12	0.3374	Good
15	2620	4.180	64.76	11.24	0.3043	Good
16	2621	9.120	48.76	7.14	0.3174	Inferior
17	2622	7.570	49.24	6.86	0.2559	Inferior
18	2623	5.000	55.96	9.35	0.2615	Good
19	2624	4.520	51.56	10.57	0.2463	Good
20	2625	4.540	57.14	8.03	0.2084	Inferior
21	2626	7.790	53.41	7.73	0.3217	Inferior
22	2627	7.830	61.90	9.16	0.4440	Good
23	2636	8.870	50.72	10.45	0.4701	Good
24	2637	4.230	51.97	10.95	0.2407	Good
25	2638	7.260	48.98	11.62	0.4131	Good
26	2639	8.830	52.30	8.45	0.3903	Inferior
27	2640	7.140	51.50	9.55	0.3513	Good
28	2646	7.090	55.53	10.68	0.4204	Good

29	2647	7.340	58.47	9.54	0.4096	Good
30	2648	4.070	58.94	12.25	0.2939	Good
31	2649	7.350	54.14	10.97	0.4366	Good
32	2650	7.310	57.46	10.37	0.4357	Good
33	2651	7.160	54.94	10.87	0.4275	Good
34	2657	7.790	50.23	9.00	0.3521	Good
35	2658	7.800	49.17	11.61	0.4454	Good
36	2659	2.020	56.52	12.67	0.1446	Good
37	2660	4.590	55.48	11.91	0.3034	Good
38	2661	4.580	69.10	13.85	0.4383	Good
39	2662	4.280	45.86	9.97	0.1956	Good
40	2671	4.480	58.07	10.06	0.2616	Good
41	2672	4.260	56.88	10.28	0.2492	Good
42	2673	4.240	57.61	9.53	0.2328	Good
43	2674	4.690	55.83	10.64	0.2786	Good
44	2675	4.160	54.34	13.08	0.2958	Good
45	2676	3.830	59.72	10.10	0.2309	Good
46	2694	9.310	62.79	15.37	0.8984	Good
47	2695	7.990	49.16	9.62	0.3779	Good
48	2696	9.530	62.19	15.66	0.9282	Good
49	2697	4.750	47.28	9.60	0.2157	Good
50	2698	8.060	54.04	6.74	0.2934	Inferior
51	2699	8.060	52.09	13.05	0.5481	Good
52	2700	9.180	51.25	8.14	0.3828	Inferior
53	2608	7.930	69.33	14.31	0.7867	Good
54	2609	9.580	63.77	11.78	0.7195	Good
55	2610	7.670	56.43	14.89	0.6443	Good
56	2611	7.940	61.49	14.44	0.7051	Good
57	2612	4.690	73.55	10.44	0.3602	Good
58	2613	4.800	59.70	10.62	0.3043	Good
59	2614	9.350	71.42	10.95	0.7312	Good
60	2628	7.910	54.94	10.81	0.4699	Good
61	2629	9.720	53.39	12.98	0.6736	Good
62	2630	7.310	51.26	13.30	0.4985	Good
63	2631	7.610	64.82	10.34	0.5099	Good
64	2632	9.590	54.34	11.72	0.6109	Good
65	2633	7.830	58.09	13.86	0.6303	Good
66	2634	8.090	62.90	14.66	0.7459	Good
67	2635	9.990	63.96	13.66	0.8731	Good
68	2641	7.440	57.43	9.28	0.3966	Good

69	2642	8.870	53.57	7.86	0.3734	Inferior
70	2643	7.190	52.19	9.39	0.3523	Good
71	2644	8.560	49.44	12.20	0.5162	Good
72	2645	8.940	53.20	11.75	0.5588	Good
73	2652	7.820	54.79	11.30	0.4841	Good
74	2653	9.420	54.36	13.72	0.7027	Good
75	2654	7.240	58.40	10.15	0.4293	Good
76	2655	8.780	49.35	18.32	0.7937	Good
77	2656	4.440	46.88	7.89	0.1643	Inferior
78	2663	3.550	54.81	7.85	0.1527	Inferior
79	2664	4.170	55.66	10.60	0.2460	Good
80	2665	4.230	54.13	8.44	0.1933	Inferior
81	2666	4.380	49.11	11.18	0.2405	Good
82	2667	4.450	54.92	6.19	0.1513	Inferior
83	2668	4.230	48.98	12.64	0.2618	Good
84	2669	3.730	52.08	9.45	0.1835	Good
85	2670	7.380	51.58	16.56	0.6303	Good
86	2677	3.380	55.04	11.99	0.2231	Good
87	2678	4.310	49.42	14.83	0.3159	Good
88	2679	4.280	57.26	11.82	0.2898	Good
89	2680	3.840	57.42	13.29	0.2930	Good
90	2681	4.700	50.87	8.39	0.2007	Inferior
91	2615	9.480	56.69	11.54	0.6200	Good
92	2616	3.730	57.45	11.94	0.2559	Good
93	2617	4.000	50.93	13.25	0.2700	Good
94	2618	7.550	55.68	16.27	0.6840	Good
95	2619	9.310	61.42	14.28	0.8165	Good
96	2682	4.590	48.01	6.10	0.1345	Inferior
97	2683	5.670	52.80	9.09	0.2722	Good
98	2684	4.400	47.90	9.35	0.1971	Good
99	2685	4.810	58.11	16.50	0.4613	Good
100	2686	4.840	48.89	6.26	0.1481	Inferior

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 42/504**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4101	4.380	60.48	9.64	0.2554	Good
2	4102	6.500	62.40	11.91	0.4830	Good
3	4103	3.610	56.10	10.14	0.2054	Good
4	4104	3.380	52.54	15.45	0.2745	Good
5	4105	4.860	59.73	12.22	0.3548	Good

6	4106	4.460	60.33	14.34	0.3858	Good
7	4118	4.690	59.56	11.65	0.3255	Good
8	4119	4.050	59.83	10.68	0.2588	Good
9	4120	3.280	50.33	13.39	0.2211	Good
10	4121	3.320	59.77	12.21	0.2424	Good
11	4122	3.320	64.71	11.88	0.2553	Good
12	4123	7.830	56.53	10.14	0.4487	Good
13	4136	8.090	59.44	9.03	0.4344	Good
14	4137	8.150	62.63	10.87	0.5550	Good
15	4138	4.630	57.86	10.32	0.2764	Good
16	4139	5.100	57.56	12.73	0.3738	Good
17	4140	8.080	63.62	9.49	0.4880	Good
18	4141	4.630	62.82	10.71	0.3116	Good
19	4147	8.070	62.52	10.25	0.5173	Good
20	4148	3.930	60.80	9.54	0.2279	Good
21	4149	4.750	63.42	9.59	0.2888	Good
22	4150	7.640	64.62	11.03	0.5447	Good
23	4151	8.150	63.56	9.79	0.5069	Good
24	4152	7.960	60.26	12.45	0.5970	Good
25	4159	4.100	56.29	10.41	0.2403	Good
26	4160	5.040	46.12	11.19	0.2601	Good
27	4161	4.130	59.15	10.19	0.2490	Good
28	4162	7.610	59.62	10.52	0.4771	Good
29	4163	8.680	63.69	9.62	0.5321	Good
30	4164	5.320	58.86	13.17	0.4123	Good
31	4165	4.750	65.82	9.34	0.2921	Good
32	4173	4.430	57.27	10.01	0.2538	Good
33	4174	4.620	57.70	10.92	0.2911	Good
34	4175	4.820	64.63	13.86	0.4319	Good
35	4176	10.050	55.66	9.95	0.5568	Good
36	4177	4.580	61.72	9.98	0.2821	Good
37	4178	4.080	63.35	14.62	0.3778	Good
38	4185	4.220	55.07	10.11	0.2351	Good
39	4186	6.980	52.16	7.90	0.2876	Inferior
40	4187	4.480	59.44	10.01	0.2666	Good
41	4188	4.230	59.15	10.06	0.2517	Good
42	4189	4.240	52.82	10.03	0.2247	Good
43	4190	4.090	55.73	9.12	0.2078	Good
44	4191	4.640	62.22	12.44	0.3591	Good
45	4192	4.270	60.66	7.12	0.1845	Inferior

46	4107	4.560	65.78	9.46	0.2836	Good
47	4108	4.500	56.04	9.49	0.2394	Good
48	4109	4.590	62.14	9.37	0.2671	Good
49	4110	4.780	63.76	10.45	0.3183	Good
50	4111	4.330	65.35	11.19	0.3165	Good
51	4112	4.720	64.21	10.64	0.3224	Good
52	4124	7.870	62.82	9.25	0.4572	Good
53	4125	7.850	58.40	9.38	0.4302	Good
54	4126	4.860	53.68	11.31	0.2950	Good
55	4127	7.730	60.10	9.15	0.4252	Good
56	4128	7.790	65.03	10.50	0.5321	Good
57	4129	4.740	63.22	9.47	0.2839	Good
58	4130	7.730	63.10	9.46	0.4615	Good
59	4142	4.910	62.37	9.83	0.3010	Good
60	4143	4.770	63.12	9.95	0.2996	Good
61	4144	4.940	67.04	9.11	0.3018	Good
62	4145	4.800	65.24	10.12	0.3168	Good
63	4146	5.010	65.39	9.28	0.3041	Good
64	4153	9.870	65.55	10.31	0.6672	Good
65	4154	7.860	67.90	13.24	0.7066	Good
66	4155	8.000	51.31	11.95	0.4904	Good
67	4156	7.070	68.01	14.00	0.6731	Good
68	4157	8.420	43.92	14.37	0.5313	Good
69	4158	3.870	63.42	10.52	0.2581	Good
70	4166	4.220	66.52	9.03	0.2536	Good
71	4167	4.940	54.06	9.29	0.2480	Good
72	4168	4.840	46.54	10.10	0.2275	Good
73	4169	8.490	52.43	12.15	0.5408	Good
74	4170	7.940	65.21	15.26	0.7900	Good
75	4171	5.000	54.81	10.09	0.2765	Good
76	4172	9.510	67.22	13.34	0.8530	Good
77	4179	7.810	61.24	10.21	0.4881	Good
78	4180	4.640	58.15	9.32	0.2515	Good
79	4181	4.040	60.11	14.79	0.3592	Good
80	4182	4.970	64.45	6.25	0.2003	Inferior
81	4183	4.940	63.76	11.28	0.3552	Good
82	4184	4.300	54.84	11.74	0.2769	Good
83	4193	4.130	53.00	10.04	0.2197	Good
84	4194	3.680	61.83	10.42	0.2370	Good
85	4195	4.630	69.48	9.34	0.3005	Good

86	4196	7.960	52.99	10.76	0.4537	Good
87	4197	7.660	65.44	14.33	0.7185	Good
88	4198	8.020	53.06	9.91	0.4219	Good
89	4199	4.520	63.32	9.98	0.2857	Good
90	4200	7.610	58.93	9.49	0.4254	Good
91	4113	4.740	63.78	9.08	0.2744	Good
92	4114	4.660	55.16	10.79	0.2773	Good
93	4115	7.770	59.47	11.50	0.5315	Good
94	4116	5.010	55.73	10.60	0.2961	Good
95	4117	4.820	54.51	9.85	0.2588	Good
96	4131	8.030	64.09	11.42	0.5878	Good
97	4132	4.910	58.53	10.71	0.3079	Good
98	4133	4.910	60.91	11.03	0.3300	Good
99	4134	8.060	61.35	10.02	0.4957	Good
100	4135	4.440	63.25	10.66	0.2993	Good

DATE: 08.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 30/448**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2918	3.720	52.48	17.63	0.3441	Good
2	2919	7.610	58.25	16.52	0.7321	Good
3	2920	4.730	59.37	13.44	0.3775	Good
4	2921	7.680	60.24	16.30	0.7542	Good
5	2922	4.450	58.31	13.33	0.3458	Good
6	2923	7.630	47.27	18.15	0.6547	Good
7	2935	8.090	54.58	10.85	0.4789	Good
8	2936	7.590	56.69	11.17	0.4804	Good
9	2937	7.710	54.96	14.43	0.6114	Good
10	2938	7.680	63.62	14.81	0.7235	Good
11	2939	7.870	61.03	14.58	0.7004	Good
12	2940	7.960	55.80	11.81	0.5246	Good
13	2947	8.300	55.40	10.32	0.4748	Good
14	2948	7.790	58.08	13.17	0.5959	Good
15	2949	8.030	58.05	14.56	0.6785	Good
16	2950	7.690	63.46	14.70	0.7175	Good
17	2951	8.080	60.98	14.82	0.7304	Good
18	2952	7.830	62.47	11.41	0.5583	Good
19	2959	4.750	60.51	14.56	0.4185	Good
20	2960	9.450	59.37	15.88	0.8911	Good
21	2961	9.650	58.24	12.14	0.6823	Good
22	2962	7.970	58.96	15.38	0.7229	Good
23	2963	9.110	62.58	14.67	0.8363	Good
24	2964	8.000	61.97	12.93	0.6408	Good
25	2971	7.660	59.18	14.26	0.6465	Good
26	2972	8.090	60.59	15.05	0.7378	Good
27	2973	7.190	64.32	13.01	0.6018	Good
28	2974	10.160	62.35	14.51	0.9195	Good
29	2975	4.510	62.86	12.54	0.3554	Good
30	2981	7.890	60.44	14.66	0.6991	Good
31	2982	7.860	64.50	14.45	0.7326	Good
32	2983	8.690	35.37	18.55	0.5701	Good
33	2984	4.820	52.81	12.12	0.3085	Good
34	2985	4.820	51.92	13.96	0.3495	Good

35	2991	8.110	59.91	11.08	0.5385	Good
36	2992	7.250	59.30	15.28	0.6569	Good
37	2993	9.530	58.84	13.80	0.7738	Good
38	2994	4.740	54.56	11.49	0.2972	Good
39	2995	8.190	58.58	15.72	0.7543	Good
40	2907	4.190	55.59	14.80	0.3448	Good
41	2908	7.990	59.59	14.05	0.6688	Good
42	2909	7.930	51.20	14.20	0.5765	Good
43	2910	7.630	60.99	13.13	0.6112	Good
44	2911	4.440	60.27	12.43	0.3326	Good
45	2912	5.680	58.21	16.42	0.5430	Good
46	2924	4.500	49.45	15.35	0.3416	Good
47	2925	7.510	60.44	15.09	0.6849	Good
48	2926	7.700	57.57	11.95	0.5298	Good
49	2927	7.440	51.92	14.31	0.5528	Good
50	2928	9.460	59.33	15.64	0.8779	Good
51	2929	7.930	60.54	15.77	0.7573	Good
52	2941	7.760	63.61	13.27	0.6549	Good
53	2942	7.620	60.28	12.64	0.5806	Good
54	2943	8.010	57.35	14.96	0.6873	Good
55	2944	4.600	64.32	12.81	0.3790	Good
56	2945	8.000	57.54	16.11	0.7416	Good
57	2946	8.090	60.24	15.26	0.7435	Good
58	2953	5.050	59.67	15.02	0.4525	Good
59	2954	7.630	54.91	11.78	0.4937	Good
60	2955	4.810	58.77	16.49	0.4661	Good
61	2956	4.850	56.16	15.83	0.4312	Good
62	2957	5.100	63.16	15.12	0.4871	Good
63	2958	4.950	61.06	16.66	0.5034	Good
64	2965	9.700	67.92	9.29	0.6121	Good
65	2966	9.400	60.89	16.75	0.9588	Good
66	2967	9.260	63.42	13.56	0.7964	Good
67	2968	4.750	60.76	9.27	0.2674	Good
68	2969	4.840	63.05	13.40	0.4090	Good
69	2970	5.080	61.92	12.23	0.3846	Good
70	2976	9.480	62.38	14.64	0.8655	Good
71	2977	7.840	61.22	12.45	0.5974	Good
72	2978	7.700	62.59	11.74	0.5660	Good
73	2979	3.990	57.77	15.41	0.3551	Good
74	2980	8.220	69.69	11.41	0.6535	Good

75	2986	4.950	53.30	12.42	0.3277	Good
76	2987	10.000	55.76	12.55	0.7000	Good
77	2988	5.220	56.18	11.91	0.3492	Good
78	2989	7.890	50.42	13.45	0.5349	Good
79	2990	4.740	56.97	12.27	0.3313	Good
80	2996	4.150	60.32	13.89	0.3478	Good
81	2997	8.100	61.05	12.76	0.6310	Good
82	2998	8.480	60.87	12.29	0.6343	Good
83	2999	8.230	60.07	14.38	0.7111	Good
84	3000	9.690	59.27	11.44	0.6570	Good
85	2901	4.070	61.92	15.55	0.3919	Good
86	2902	3.950	64.04	10.62	0.2686	Good
87	2903	4.620	64.20	13.83	0.4103	Good
88	2904	3.990	64.53	14.68	0.3779	Good
89	2905	4.780	58.65	10.76	0.3016	Good
90	2906	7.550	59.04	12.89	0.5746	Good
91	2913	4.370	61.55	15.13	0.4068	Good
92	2914	4.500	58.31	15.49	0.4064	Good
93	2915	4.550	50.49	12.87	0.2958	Good
94	2916	5.270	51.02	12.50	0.3362	Good
95	2917	4.640	49.94	11.69	0.2710	Good
96	2930	9.580	60.87	15.18	0.8852	Good
97	2931	9.060	63.15	15.76	0.9015	Good
98	2932	9.640	62.39	15.90	0.9563	Good
99	2933	9.730	64.85	13.74	0.8669	Good
100	2934	8.180	58.99	16.02	0.7730	Good

DATE: 07.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 19/350**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1806	9.100	45.99	16.96	0.7098	Good
2	1807	8.720	53.69	10.13	0.4744	Good
3	1808	7.610	51.53	11.86	0.4650	Good
4	1809	7.800	52.87	11.10	0.4579	Good
5	1810	9.190	59.93	13.97	0.7692	Good
6	1811	8.030	58.54	14.08	0.6617	Good
7	1829	7.420	61.29	11.83	0.5380	Good
8	1830	7.470	56.91	11.51	0.4893	Good
9	1831	7.420	53.23	12.94	0.5112	Good
10	1832	9.110	53.91	10.55	0.5184	Good
11	1833	7.910	53.64	11.26	0.4778	Good
12	1834	4.670	56.67	12.07	0.3194	Good
13	1835	9.420	53.11	12.37	0.6189	Good
14	1842	9.460	55.47	12.31	0.6461	Good
15	1843	4.690	65.02	12.90	0.3935	Good
16	1844	7.660	52.86	7.11	0.2880	Inferior
17	1845	7.940	60.03	16.49	0.7861	Good
18	1846	8.230	50.05	9.35	0.3852	Good
19	1853	4.690	51.80	9.31	0.2261	Good
20	1854	8.000	53.68	10.26	0.4408	Good
21	1855	4.890	51.88	11.97	0.3037	Good
22	1856	8.080	51.78	12.09	0.5058	Good
23	1857	7.750	53.81	10.46	0.4363	Good
24	1858	7.710	55.73	12.96	0.5567	Good
25	1865	7.820	53.21	10.94	0.4551	Good
26	1866	8.040	54.13	13.08	0.5692	Good
27	1867	7.650	60.97	11.33	0.5286	Good
28	1868	7.580	57.70	11.58	0.5063	Good
29	1869	9.750	53.98	12.89	0.6786	Good
30	1870	9.550	54.99	11.66	0.6122	Good
31	1879	7.720	55.66	11.62	0.4995	Good
32	1880	9.840	53.13	10.07	0.5264	Good
33	1881	9.590	56.18	13.14	0.7077	Good
34	1882	9.700	56.12	12.49	0.6800	Good

35	1883	9.510	57.84	13.66	0.7513	Good
36	1884	9.290	60.92	12.66	0.7163	Good
37	1885	7.920	54.09	14.12	0.6051	Good
38	1886	8.130	57.68	13.51	0.6333	Good
39	1894	7.790	59.99	11.79	0.5508	Good
40	1895	7.850	56.51	12.69	0.5628	Good
41	1896	9.270	63.86	15.71	0.9298	Good
42	1897	4.680	49.21	11.48	0.2644	Good
43	1898	7.430	50.84	9.62	0.3633	Good
44	1899	3.740	50.50	14.69	0.2775	Good
45	1900	4.870	50.32	12.64	0.3097	Good
46	1812	9.360	54.23	12.28	0.6234	Good
47	1813	4.200	54.99	12.11	0.2797	Good
48	1814	4.720	55.78	9.86	0.2596	Good
49	1815	8.010	55.59	13.22	0.5887	Good
50	1816	9.140	58.76	10.94	0.5877	Good
51	1817	4.950	59.01	16.51	0.4821	Good
52	1823	7.960	54.31	9.41	0.4068	Good
53	1824	4.760	56.45	9.65	0.2594	Good
54	1825	3.620	52.66	11.05	0.2107	Good
55	1826	4.490	54.28	13.98	0.3408	Good
56	1827	4.580	56.74	10.73	0.2789	Good
57	1828	7.190	59.33	15.57	0.6644	Good
58	1836	4.710	60.80	10.56	0.3024	Good
59	1837	3.780	61.94	10.99	0.2574	Good
60	1838	3.810	55.21	12.23	0.2572	Good
61	1839	7.490	66.71	13.13	0.6561	Good
62	1840	8.920	64.64	11.15	0.6431	Good
63	1841	4.480	63.34	9.16	0.2598	Good
64	1847	9.930	56.81	11.25	0.6345	Good
65	1848	7.940	53.94	11.55	0.4947	Good
66	1849	9.330	53.96	12.73	0.6410	Good
67	1850	8.010	57.13	8.21	0.3757	Inferior
68	1851	9.790	51.59	10.97	0.5541	Good
69	1852	5.010	55.37	10.31	0.2861	Good
70	1859	7.550	55.69	11.33	0.4764	Good
71	1860	9.560	55.92	11.70	0.6252	Good
72	1861	7.920	52.97	10.19	0.4277	Good
73	1862	8.030	56.66	9.30	0.4232	Good
74	1863	7.310	58.04	11.58	0.4912	Good

75	1864	7.610	59.42	9.39	0.4246	Good
76	1871	8.030	62.55	8.04	0.4039	Inferior
77	1872	9.540	61.77	9.68	0.5705	Good
78	1873	7.980	68.29	12.56	0.6847	Good
79	1874	8.150	60.41	10.35	0.5094	Good
80	1875	7.560	60.07	13.93	0.6328	Good
81	1876	8.040	61.58	10.88	0.5387	Good
82	1877	8.200	55.16	10.57	0.4781	Good
83	1878	4.990	55.63	11.54	0.3204	Good
84	1887	9.530	53.97	13.38	0.6881	Good
85	1888	7.650	56.68	14.54	0.6304	Good
86	1889	5.020	59.38	11.69	0.3484	Good
87	1890	9.450	55.67	14.07	0.7399	Good
88	1891	4.950	56.93	16.42	0.4628	Good
89	1892	4.930	61.66	10.20	0.3101	Good
90	1893	9.740	58.27	14.71	0.8347	Good
91	1801	4.540	57.71	10.59	0.2774	Good
92	1802	7.510	53.61	9.92	0.3995	Good
93	1803	8.780	52.32	10.63	0.4882	Good
94	1804	3.410	52.86	11.71	0.2111	Good
95	1805	9.230	56.54	13.44	0.7015	Good
96	1818	4.670	60.73	11.10	0.3148	Good
97	1819	4.650	50.30	10.76	0.2516	Good
98	1820	9.280	50.15	9.89	0.4603	Good
99	1821	4.730	55.45	10.19	0.2672	Good
100	1822	7.790	60.56	6.92	0.3264	Inferior

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 41/503**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4068	7.610	58.29	12.61	0.5593	Good
2	4069	4.730	57.32	13.21	0.3581	Good
3	4070	4.350	57.01	15.84	0.3928	Good
4	4071	4.150	58.94	13.05	0.3191	Good
5	4072	4.060	56.63	16.16	0.3715	Good
6	4073	4.290	53.03	14.20	0.3230	Good
7	4074	7.770	56.42	14.18	0.6216	Good
8	4082	4.340	53.13	14.89	0.3433	Good
9	4083	4.420	59.25	12.19	0.3191	Good
10	4084	4.340	60.13	11.97	0.3125	Good
11	4085	4.670	49.54	13.95	0.3227	Good

12	4086	4.420	61.11	11.36	0.3067	Good
13	4087	4.780	59.99	14.95	0.4288	Good
14	4088	4.440	60.85	14.02	0.3787	Good
15	4001	3.810	61.77	13.57	0.3193	Good
16	4002	4.150	61.85	10.43	0.2677	Good
17	4003	9.580	61.95	14.71	0.8727	Good
18	4004	7.970	59.21	13.17	0.6217	Good
19	4005	4.820	62.09	11.58	0.3466	Good
20	4006	4.470	60.29	10.43	0.2812	Good
21	4007	7.900	60.50	14.89	0.7118	Good
22	4020	3.890	61.72	13.79	0.3310	Good
23	4021	8.070	61.65	12.52	0.6230	Good
24	4022	4.680	68.66	10.20	0.3276	Good
25	4023	3.990	64.80	11.79	0.3048	Good
26	4024	4.750	70.70	11.09	0.3724	Good
27	4025	7.590	57.94	13.00	0.5715	Good
28	4032	4.450	62.02	11.06	0.3053	Good
29	4033	7.590	60.77	12.69	0.5852	Good
30	4034	4.670	54.94	9.83	0.2522	Good
31	4035	7.570	59.21	12.99	0.5821	Good
32	4036	7.760	54.99	11.31	0.4827	Good
33	4037	7.850	59.98	12.60	0.5935	Good
34	4044	4.480	59.63	16.05	0.4287	Good
35	4045	7.440	58.83	14.86	0.6503	Good
36	4046	7.660	61.05	9.09	0.4251	Good
37	4047	3.670	57.31	13.45	0.2830	Good
38	4048	7.540	56.96	13.25	0.5693	Good
39	4049	7.750	60.68	11.06	0.5200	Good
40	4056	7.550	60.13	13.90	0.6312	Good
41	4057	4.680	59.58	15.51	0.4324	Good
42	4058	4.440	60.15	13.92	0.3716	Good
43	4059	4.840	59.69	13.37	0.3862	Good
44	4060	7.390	64.97	13.81	0.6629	Good
45	4061	4.730	60.99	13.22	0.3812	Good
46	4075	4.150	54.80	16.72	0.3801	Good
47	4076	4.310	54.57	14.79	0.3478	Good
48	4077	4.190	55.46	14.32	0.3327	Good
49	4078	4.310	48.77	12.18	0.2560	Good
50	4079	4.320	56.66	15.20	0.3720	Good
51	4080	4.550	57.76	14.80	0.3890	Good

52	4081	7.030	56.36	16.52	0.6545	Good
53	4094	4.620	55.19	14.91	0.3802	Good
54	4095	4.460	53.30	12.21	0.2903	Good
55	4096	4.400	58.62	12.09	0.3120	Good
56	4097	4.480	59.44	10.78	0.2872	Good
57	4098	4.660	56.54	15.79	0.4161	Good
58	4099	3.950	56.85	14.97	0.3361	Good
59	4100	4.000	55.19	10.11	0.2232	Good
60	4008	7.940	61.62	13.24	0.6479	Good
61	4009	4.750	57.27	14.55	0.3957	Good
62	4010	4.820	59.99	12.32	0.3562	Good
63	4011	9.380	60.88	14.87	0.8489	Good
64	4012	7.860	63.01	10.19	0.5046	Good
65	4013	4.690	61.99	11.45	0.3330	Good
66	4014	4.620	62.44	13.39	0.3862	Good
67	4026	7.440	53.26	15.13	0.5997	Good
68	4027	4.330	58.49	11.13	0.2819	Good
69	4028	8.410	53.39	15.94	0.7157	Good
70	4029	4.410	55.84	15.45	0.3806	Good
71	4030	7.520	58.15	15.15	0.6625	Good
72	4031	4.200	56.92	16.30	0.3898	Good
73	4038	9.100	54.19	15.72	0.7753	Good
74	4039	7.530	59.15	9.72	0.4330	Good
75	4040	9.090	54.26	11.68	0.5763	Good
76	4041	9.360	62.25	15.52	0.9042	Good
77	4042	4.770	57.54	15.54	0.4264	Good
78	4043	4.490	54.81	15.49	0.3812	Good
79	4050	4.560	53.27	15.09	0.3666	Good
80	4051	4.410	57.99	15.42	0.3943	Good
81	4052	7.880	57.40	13.85	0.6265	Good
82	4053	9.210	56.23	16.52	0.8556	Good
83	4054	4.450	53.86	16.99	0.4072	Good
84	4055	8.960	59.60	15.17	0.8100	Good
85	4062	7.520	62.39	16.09	0.7550	Good
86	4063	4.520	65.29	9.83	0.2902	Good
87	4064	4.580	53.37	14.37	0.3513	Good
88	4065	4.740	49.08	11.94	0.2778	Good
89	4066	7.320	51.29	15.19	0.5702	Good
90	4067	4.250	49.66	12.16	0.2567	Good
91	4015	7.730	57.78	14.92	0.6663	Good



92	4016	4.910	60.91	12.33	0.3687	Good
93	4017	3.800	57.68	13.94	0.3055	Good
94	4018	4.020	60.55	11.76	0.2862	Good
95	4019	3.830	65.91	11.52	0.2907	Good
96	4089	4.890	51.69	14.28	0.3609	Good
97	4090	4.280	59.93	15.77	0.4045	Good
98	4091	4.240	56.88	16.98	0.4096	Good
99	4092	4.640	53.35	16.03	0.3967	Good
100	4093	4.450	52.76	15.20	0.3569	Good

DATE: 06.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 22/353**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2107	5.040	62.99	14.22	0.4516	Good
2	2108	4.970	57.43	13.60	0.3882	Good
3	2109	8.100	55.55	14.04	0.6318	Good
4	2110	7.470	58.48	13.44	0.5871	Good
5	2111	7.720	59.79	14.67	0.6770	Good
6	2112	7.930	60.36	12.34	0.5908	Good
7	2125	7.960	55.89	14.69	0.6535	Good
8	2126	9.720	58.29	15.63	0.8855	Good
9	2127	7.650	56.58	13.50	0.5845	Good
10	2128	9.850	60.15	13.35	0.7910	Good
11	2129	9.700	61.15	14.34	0.8507	Good
12	2130	9.740	59.45	10.75	0.6224	Good
13	2131	9.380	60.72	11.30	0.6435	Good
14	2138	7.810	60.32	15.27	0.7193	Good
15	2139	9.130	62.84	10.31	0.5916	Good
16	2140	8.060	58.60	15.34	0.7246	Good
17	2141	7.900	62.90	10.49	0.5214	Good
18	2142	8.050	63.19	11.06	0.5627	Good
19	2143	5.160	60.96	13.29	0.4180	Good
20	2156	9.190	59.20	15.22	0.8280	Good
21	2157	9.500	55.67	15.43	0.8161	Good
22	2158	8.470	53.79	16.79	0.7648	Good
23	2159	9.800	56.96	15.98	0.8918	Good
24	2160	4.790	50.97	16.70	0.4076	Good
25	2161	10.140	59.32	14.03	0.8436	Good
26	2162	4.150	57.67	13.13	0.3142	Good
27	2169	8.280	57.75	15.24	0.7286	Good
28	2170	9.790	57.66	13.48	0.7607	Good
29	2171	9.560	55.49	16.26	0.8623	Good
30	2172	9.670	58.90	15.40	0.8771	Good
31	2173	8.100	59.48	14.54	0.7007	Good
32	2174	8.010	56.51	15.38	0.6961	Good
33	2182	8.030	58.96	13.99	0.6625	Good
34	2183	7.880	59.78	12.65	0.5957	Good

35	2184	8.590	62.11	14.64	0.7808	Good
36	2185	7.960	61.05	13.60	0.6607	Good
37	2186	4.800	60.72	11.91	0.3470	Good
38	2187	9.670	58.04	10.61	0.5957	Good
39	2188	8.160	60.51	14.99	0.7401	Good
40	2195	4.470	55.94	16.34	0.4086	Good
41	2196	8.070	55.28	15.38	0.6860	Good
42	2197	9.560	51.53	16.71	0.8231	Good
43	2198	8.050	57.27	18.25	0.8412	Good
44	2199	9.890	54.72	14.42	0.7803	Good
45	2200	8.170	61.81	11.21	0.5662	Good
46	2101	7.950	57.86	16.04	0.7378	Good
47	2102	7.470	52.55	16.21	0.6364	Good
48	2103	8.260	57.45	13.44	0.6377	Good
49	2104	9.620	56.04	15.38	0.8292	Good
50	2105	7.820	57.37	11.19	0.5020	Good
51	2106	9.580	53.06	15.77	0.8018	Good
52	2118	7.630	57.15	16.92	0.7378	Good
53	2119	5.310	59.20	14.97	0.4705	Good
54	2120	9.520	57.59	12.22	0.6702	Good
55	2121	7.400	58.57	15.86	0.6875	Good
56	2122	7.760	57.55	15.13	0.6759	Good
57	2123	7.750	56.90	14.36	0.6332	Good
58	2124	7.910	56.68	16.39	0.7348	Good
59	2132	9.570	60.53	12.46	0.7216	Good
60	2133	7.920	56.24	14.06	0.6265	Good
61	2134	4.580	63.70	14.57	0.4250	Good
62	2135	9.730	60.12	14.09	0.8241	Good
63	2136	4.820	58.75	12.17	0.3446	Good
64	2137	7.940	59.87	15.38	0.7313	Good
65	2149	8.120	58.75	14.13	0.6740	Good
66	2150	4.750	56.56	14.27	0.3833	Good
67	2151	9.230	53.58	15.90	0.7864	Good
68	2152	9.610	56.73	14.97	0.8159	Good
69	2153	8.100	55.13	16.18	0.7225	Good
70	2154	4.810	54.71	15.34	0.4036	Good
71	2155	8.000	58.87	15.02	0.7072	Good
72	2163	5.220	61.92	12.39	0.4004	Good
73	2164	8.220	59.61	12.78	0.6264	Good
74	2165	4.960	51.61	15.85	0.4057	Good

75	2166	7.980	56.85	16.64	0.7549	Good
76	2167	8.030	54.93	13.22	0.5830	Good
77	2168	7.940	55.73	15.77	0.6979	Good
78	2175	9.410	57.92	13.21	0.7199	Good
79	2176	7.840	57.45	12.88	0.5802	Good
80	2177	9.980	57.81	16.66	0.9611	Good
81	2178	4.890	61.26	12.24	0.3668	Good
82	2179	4.110	59.20	14.41	0.3506	Good
83	2180	4.940	56.02	15.05	0.4164	Good
84	2181	8.040	61.24	12.08	0.5950	Good
85	2189	7.970	59.22	13.02	0.6145	Good
86	2190	9.370	60.47	13.21	0.7487	Good
87	2191	4.300	58.74	15.70	0.3965	Good
88	2192	4.300	58.67	14.06	0.3548	Good
89	2193	7.900	58.61	12.28	0.5688	Good
90	2194	7.990	62.99	14.13	0.7111	Good
91	2113	8.450	56.64	13.79	0.6599	Good
92	2114	7.740	53.50	15.46	0.6401	Good
93	2115	5.050	57.44	11.33	0.3288	Good
94	2116	9.670	53.90	15.88	0.8278	Good
95	2117	8.100	54.39	16.47	0.7258	Good
96	2144	9.660	60.24	9.86	0.5738	Good
97	2145	9.220	56.79	13.98	0.7321	Good
98	2146	9.710	62.03	11.91	0.7176	Good
99	2147	7.860	60.58	13.02	0.6202	Good
100	2148	7.550	62.47	14.23	0.6712	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 25/394**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2456	4.560	60.33	15.13	0.4163	Good
2	2457	3.620	55.37	16.89	0.3385	Good
3	2458	7.710	57.83	16.10	0.7178	Good
4	2459	4.590	59.12	15.60	0.4232	Good
5	2460	4.460	63.56	11.52	0.3265	Good
6	2461	7.200	64.53	10.23	0.4752	Good
7	2462	9.660	56.98	10.53	0.5796	Good
8	2475	4.530	63.18	13.88	0.3973	Good
9	2476	4.040	61.36	13.56	0.3361	Good
10	2477	8.520	65.94	12.81	0.7199	Good
11	2478	4.960	62.74	16.08	0.5005	Good

12	2479	4.670	63.17	10.53	0.3106	Good
13	2480	4.580	58.77	15.48	0.4168	Good
14	2487	4.810	66.36	12.31	0.3930	Good
15	2488	3.570	59.39	16.08	0.3409	Good
16	2489	4.220	62.52	13.71	0.3617	Good
17	2490	4.450	60.96	15.63	0.4241	Good
18	2491	4.720	62.08	13.43	0.3936	Good
19	2492	9.090	60.59	14.34	0.7899	Good
20	2493	9.090	62.87	13.42	0.7672	Good
21	2408	7.420	55.41	18.05	0.7420	Good
22	2409	7.610	56.84	12.28	0.5312	Good
23	2410	7.420	58.32	17.22	0.7450	Good
24	2411	4.700	55.96	15.31	0.4028	Good
25	2412	4.620	57.24	18.12	0.4791	Good
26	2413	4.410	57.57	15.93	0.4044	Good
27	2414	4.260	52.35	13.14	0.2931	Good
28	2422	7.070	57.18	14.27	0.5769	Good
29	2423	6.980	55.80	16.09	0.6268	Good
30	2424	4.410	61.29	17.65	0.4772	Good
31	2425	8.150	56.35	16.43	0.7547	Good
32	2426	4.590	58.04	18.35	0.4888	Good
33	2427	8.030	56.76	14.48	0.6601	Good
34	2428	9.610	58.25	14.90	0.8341	Good
35	2434	7.870	60.21	14.88	0.7052	Good
36	2435	7.120	71.73	13.83	0.7063	Good
37	2436	4.420	57.70	16.55	0.4221	Good
38	2437	7.410	56.41	14.31	0.5980	Good
39	2438	7.340	68.42	14.12	0.7090	Good
40	2445	7.460	57.45	14.36	0.6155	Good
41	2446	4.720	55.95	15.19	0.4012	Good
42	2447	4.700	57.81	14.56	0.3957	Good
43	2448	7.320	59.18	16.26	0.7042	Good
44	2449	4.590	56.15	15.10	0.3892	Good
45	2450	7.210	54.76	16.45	0.6496	Good
46	2463	4.850	54.18	13.97	0.3671	Good
47	2464	9.980	56.88	14.86	0.8433	Good
48	2465	7.430	52.23	13.86	0.5379	Good
49	2466	9.020	56.65	13.29	0.6792	Good
50	2467	8.200	69.64	14.22	0.8118	Good
51	2468	7.410	58.19	13.28	0.5728	Good

52	2469	9.080	61.37	12.43	0.6928	Good
53	2481	4.590	57.17	13.82	0.3626	Good
54	2482	4.600	56.06	14.95	0.3855	Good
55	2483	4.750	57.58	12.05	0.3297	Good
56	2484	4.570	58.82	13.70	0.3683	Good
57	2485	4.890	58.95	11.31	0.3262	Good
58	2486	8.160	56.47	14.73	0.6789	Good
59	2494	8.690	60.97	13.01	0.6891	Good
60	2495	7.580	60.38	14.72	0.6739	Good
61	2496	4.790	61.87	12.90	0.3822	Good
62	2497	3.190	69.43	13.83	0.3062	Good
63	2498	9.280	62.80	13.58	0.7916	Good
64	2499	8.000	54.07	15.11	0.6536	Good
65	2500	7.990	53.56	14.06	0.6016	Good
66	2401	9.190	59.57	13.16	0.7205	Good
67	2402	8.160	56.07	13.27	0.6071	Good
68	2403	8.020	59.26	11.91	0.5662	Good
69	2404	9.590	59.62	13.49	0.7710	Good
70	2405	7.910	57.04	11.08	0.4999	Good
71	2406	4.520	52.55	16.23	0.3856	Good
72	2407	3.890	54.35	14.04	0.2968	Good
73	2415	7.070	59.42	11.39	0.4786	Good
74	2416	4.520	58.81	13.69	0.3639	Good
75	2417	4.760	59.51	14.08	0.3989	Good
76	2418	3.980	62.80	12.53	0.3132	Good
77	2419	4.460	51.37	18.30	0.4192	Good
78	2420	6.670	54.31	18.78	0.6803	Good
79	2421	4.790	57.18	18.38	0.5034	Good
80	2429	8.030	56.21	14.25	0.6432	Good
81	2430	9.760	56.57	13.31	0.7349	Good
82	2431	4.900	60.98	10.51	0.3141	Good
83	2432	7.460	54.28	19.77	0.8005	Good
84	2433	4.140	59.85	9.22	0.2285	Good
85	2439	4.250	52.27	20.30	0.4509	Good
86	2440	7.610	58.56	16.12	0.7184	Good
87	2441	7.670	52.97	16.24	0.6596	Good
88	2442	9.100	57.06	13.21	0.6861	Good
89	2443	9.110	58.82	16.97	0.9092	Good
90	2444	4.490	54.86	17.19	0.4234	Good
91	2451	4.520	59.68	13.66	0.3684	Good

92	2452	7.500	55.95	15.66	0.6570	Good
93	2453	4.260	57.43	18.42	0.4507	Good
94	2454	4.580	58.30	15.33	0.4095	Good
95	2455	4.400	58.05	15.85	0.4048	Good
96	2470	7.000	61.92	12.40	0.5376	Good
97	2471	4.840	59.67	15.92	0.4598	Good
98	2472	7.870	66.99	13.14	0.6926	Good
99	2473	9.350	57.25	11.32	0.6059	Good
100	2474	7.670	63.17	11.75	0.5691	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 13/278**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1215	3.990	54.40	16.88	0.3663	Good
2	1216	4.050	53.35	14.62	0.3159	Good
3	1217	4.850	58.72	13.37	0.3807	Good
4	1218	5.080	56.11	10.68	0.3043	Good
5	1219	7.940	56.13	14.15	0.6304	Good
6	1220	4.790	54.87	11.76	0.3090	Good
7	1221	5.090	57.11	12.90	0.3751	Good
8	1234	7.680	63.13	12.10	0.5868	Good
9	1235	7.420	57.22	16.53	0.7019	Good
10	1236	4.570	56.37	16.09	0.4145	Good
11	1237	7.650	56.11	11.74	0.5041	Good
12	1238	7.620	57.48	13.99	0.6126	Good
13	1239	4.520	59.29	13.34	0.3575	Good
14	1240	8.250	62.35	10.28	0.5288	Good
15	1248	8.270	61.19	10.31	0.5218	Good
16	1249	7.170	62.74	10.26	0.4617	Good
17	1250	8.060	58.03	12.10	0.5658	Good
18	1251	4.570	62.13	11.56	0.3281	Good
19	1252	3.960	59.07	14.44	0.3378	Good
20	1253	4.720	64.90	13.91	0.4262	Good
21	1260	4.200	59.54	14.38	0.3595	Good
22	1261	4.580	62.15	11.28	0.3211	Good
23	1262	4.540	67.14	11.99	0.3655	Good
24	1263	10.860	61.15	15.18	1.0078	Good
25	1264	9.130	57.74	16.38	0.8637	Good
26	1265	7.670	59.20	15.42	0.7003	Good
27	1272	7.590	57.55	15.79	0.6899	Good
28	1273	5.430	60.40	11.46	0.3758	Good

29	1274	7.950	59.38	14.38	0.6789	Good
30	1275	4.970	57.68	13.78	0.3951	Good
31	1276	4.920	56.98	13.95	0.3911	Good
32	1277	9.460	57.53	12.97	0.7057	Good
33	1278	9.450	59.49	10.96	0.6161	Good
34	1291	8.100	59.82	16.97	0.8222	Good
35	1292	8.150	61.10	12.67	0.6308	Good
36	1293	7.910	59.49	12.83	0.6035	Good
37	1294	9.260	62.39	11.35	0.6556	Good
38	1295	9.710	61.50	13.58	0.8108	Good
39	1201	5.580	56.87	16.09	0.5106	Good
40	1202	7.650	54.13	12.67	0.5248	Good
41	1203	8.100	69.75	13.99	0.7906	Good
42	1204	7.690	57.75	15.31	0.6798	Good
43	1205	7.780	60.40	14.95	0.7025	Good
44	1206	7.720	55.47	13.56	0.5805	Good
45	1207	9.760	53.95	14.16	0.7457	Good
46	1222	5.110	58.29	13.62	0.4057	Good
47	1223	4.650	57.53	14.83	0.3966	Good
48	1224	4.760	57.00	13.81	0.3746	Good
49	1225	9.540	58.49	12.81	0.7145	Good
50	1226	7.610	57.39	15.37	0.6712	Good
51	1227	4.190	57.42	13.25	0.3189	Good
52	1228	3.890	56.80	16.09	0.3555	Good
53	1241	4.790	62.97	13.01	0.3923	Good
54	1242	6.980	55.32	12.91	0.4984	Good
55	1243	8.150	58.70	13.29	0.6357	Good
56	1244	8.100	59.78	11.04	0.5346	Good
57	1245	7.870	60.46	10.95	0.5210	Good
58	1246	5.120	59.52	12.55	0.3825	Good
59	1247	4.740	61.20	12.48	0.3621	Good
60	1254	8.730	61.34	11.98	0.6417	Good
61	1255	4.680	58.46	14.93	0.4086	Good
62	1256	4.620	61.85	11.46	0.3276	Good
63	1257	4.520	61.18	15.12	0.4181	Good
64	1258	7.980	60.31	12.20	0.5873	Good
65	1259	4.530	59.91	11.38	0.3089	Good
66	1266	9.430	59.65	14.69	0.8261	Good
67	1267	8.050	59.11	13.94	0.6633	Good
68	1268	9.840	54.40	15.99	0.8561	Good



69	1269	9.770	56.55	13.16	0.7269	Good
70	1270	4.710	57.81	12.85	0.3500	Good
71	1271	4.670	57.29	13.34	0.3568	Good
72	1279	7.960	60.35	11.98	0.5755	Good
73	1280	8.080	62.51	11.15	0.5632	Good
74	1281	9.720	61.41	11.95	0.7134	Good
75	1282	9.600	58.13	13.68	0.7632	Good
76	1283	9.960	61.67	11.58	0.7111	Good
77	1284	9.680	59.72	12.59	0.7279	Good
78	1285	9.850	57.48	12.67	0.7171	Good
79	1296	7.360	60.35	10.84	0.4813	Good
80	1297	9.350	65.88	13.83	0.8518	Good
81	1298	9.420	62.03	11.90	0.6952	Good
82	1299	7.850	60.93	14.26	0.6822	Good
83	1300	4.860	71.08	13.07	0.4515	Good
84	1208	7.910	57.39	9.13	0.4145	Good
85	1209	9.680	60.20	13.55	0.7899	Good
86	1210	4.030	52.22	15.15	0.3188	Good
87	1211	8.090	62.64	12.45	0.6310	Good
88	1212	4.980	55.64	14.77	0.4094	Good
89	1213	3.900	56.09	13.80	0.3019	Good
90	1214	4.080	64.58	14.39	0.3790	Good
91	1229	4.040	60.10	13.11	0.3184	Good
92	1230	3.820	58.56	13.10	0.2930	Good
93	1231	5.000	61.27	10.97	0.3360	Good
94	1232	8.010	57.60	12.83	0.5919	Good
95	1233	4.830	57.58	11.18	0.3111	Good
96	1286	7.640	70.48	12.88	0.6937	Good
97	1287	7.490	58.18	11.62	0.5063	Good
98	1288	7.630	57.92	16.40	0.7249	Good
99	1289	9.410	59.77	11.96	0.6728	Good
100	1290	7.730	56.30	10.50	0.4568	Good

DATE: 05.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 12/212**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1119	11.220	57.41	11.79	0.7596	Good
2	1120	10.020	59.85	14.75	0.8848	Good
3	1121	4.520	59.17	16.36	0.4375	Good
4	1122	10.600	60.22	14.20	0.9063	Good
5	1123	9.500	57.87	12.91	0.7097	Good
6	1124	8.050	57.81	13.51	0.6287	Good
7	1125	9.830	56.75	10.34	0.5770	Good
8	1133	8.000	60.07	15.93	0.7656	Good
9	1134	9.940	60.40	11.47	0.6888	Good
10	1135	3.960	57.20	15.28	0.3461	Good
11	1136	8.210	62.44	12.46	0.6387	Good
12	1137	8.010	62.01	14.21	0.7057	Good
13	1138	10.490	60.62	16.86	1.0721	Good
14	1144	5.150	66.15	10.25	0.3492	Good
15	1145	9.130	59.60	13.04	0.7094	Good
16	1146	7.770	64.46	13.30	0.6659	Good
17	1147	9.490	62.03	14.27	0.8399	Good
18	1148	8.380	61.72	9.35	0.4835	Good
19	1149	8.190	59.79	14.47	0.7084	Good
20	1150	8.240	58.39	14.52	0.6988	Good
21	1163	8.570	57.40	13.92	0.6847	Good
22	1164	9.150	50.08	12.98	0.5948	Good
23	1165	7.720	54.22	15.49	0.6485	Good
24	1166	8.990	57.35	16.50	0.8505	Good
25	1167	7.430	58.73	16.87	0.7363	Good
26	1168	7.710	63.84	14.46	0.7116	Good
27	1175	9.170	57.87	13.58	0.7208	Good
28	1176	8.920	54.03	12.66	0.6101	Good
29	1177	7.680	56.92	16.76	0.7327	Good
30	1178	4.500	56.31	14.24	0.3609	Good
31	1179	7.410	59.49	15.87	0.6995	Good
32	1180	7.420	57.95	15.82	0.6804	Good
33	1181	7.710	62.12	13.78	0.6600	Good
34	1189	9.770	62.32	13.08	0.7963	Good

35	1190	7.320	58.49	12.67	0.5424	Good
36	1191	9.410	59.01	11.64	0.6465	Good
37	1192	4.500	62.30	13.74	0.3852	Good
38	1193	9.210	61.73	14.76	0.8390	Good
39	1194	7.560	50.48	9.37	0.3576	Good
40	1107	7.970	56.56	13.26	0.5978	Good
41	1108	10.460	52.56	15.83	0.8703	Good
42	1109	7.980	53.14	15.45	0.6552	Good
43	1110	9.510	58.91	12.93	0.7247	Good
44	1111	4.850	60.23	13.78	0.4026	Good
45	1112	4.920	57.25	15.30	0.4310	Good
46	1126	8.330	57.97	12.51	0.6039	Good
47	1127	4.990	61.14	13.58	0.4142	Good
48	1128	10.650	59.82	16.57	1.0554	Good
49	1129	9.480	60.82	15.52	0.8949	Good
50	1130	8.300	58.25	13.37	0.6466	Good
51	1131	9.570	57.43	14.16	0.7780	Good
52	1132	4.090	60.13	12.47	0.3068	Good
53	1139	9.130	57.36	12.87	0.6738	Good
54	1140	7.990	61.99	12.11	0.6000	Good
55	1141	9.830	54.64	14.09	0.7569	Good
56	1142	9.580	57.00	9.56	0.5221	Good
57	1143	9.880	59.31	12.51	0.7331	Good
58	1151	3.770	59.22	12.85	0.2869	Good
59	1152	7.760	65.03	11.01	0.5556	Good
60	1153	8.650	64.19	13.26	0.7361	Good
61	1154	9.370	48.87	16.76	0.7674	Good
62	1155	7.110	50.89	16.74	0.6058	Good
63	1156	7.470	51.84	13.02	0.5042	Good
64	1157	7.560	50.97	15.30	0.5897	Good
65	1158	8.910	51.63	16.58	0.7627	Good
66	1169	8.330	56.74	11.98	0.5664	Good
67	1170	9.250	57.98	11.52	0.6179	Good
68	1171	7.820	54.62	13.82	0.5904	Good
69	1172	7.560	56.84	12.28	0.5277	Good
70	1173	9.720	55.13	11.88	0.6367	Good
71	1174	9.560	56.48	14.00	0.7562	Good
72	1182	7.500	57.85	14.12	0.6128	Good
73	1183	9.840	58.64	13.27	0.7656	Good
74	1184	7.500	61.61	12.66	0.5850	Good

75	1185	7.650	57.88	11.13	0.4927	Good
76	1186	9.120	59.86	13.72	0.7488	Good
77	1187	9.180	58.84	11.06	0.5976	Good
78	1188	9.350	59.87	12.04	0.6741	Good
79	1195	7.270	49.57	14.61	0.5263	Good
80	1196	9.250	65.11	13.58	0.8177	Good
81	1197	9.290	63.74	13.96	0.8268	Good
82	1198	7.960	62.08	14.92	0.7371	Good
83	1199	7.160	54.14	12.47	0.4833	Good
84	1200	9.930	54.32	14.80	0.7984	Good
85	1101	8.320	61.78	9.44	0.4851	Good
86	1102	10.270	62.63	12.18	0.7836	Good
87	1103	9.610	63.17	11.03	0.6698	Good
88	1104	8.100	55.60	12.03	0.5419	Good
89	1105	8.050	52.17	14.51	0.6094	Good
90	1106	9.680	57.78	13.62	0.7618	Good
91	1159	9.910	54.47	14.50	0.7829	Good
92	1160	8.630	56.11	16.36	0.7922	Good
93	1161	7.230	53.43	14.62	0.5647	Good
94	1162	4.580	56.49	13.08	0.3385	Good
95	1113	9.670	59.78	11.88	0.6866	Good
96	1114	8.730	57.04	10.55	0.5255	Good
97	1115	8.360	55.37	12.12	0.5610	Good
98	1116	8.190	59.35	12.20	0.5930	Good
99	1117	4.690	60.20	9.88	0.2791	Good
100	1118	10.030	59.56	9.22	0.5506	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 21/352**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2066	6.120	48.60	14.22	0.4229	Good
2	2067	7.990	60.70	16.62	0.8062	Good
3	2068	4.720	48.05	12.13	0.2752	Good
4	2069	7.850	46.14	15.26	0.5526	Good
5	2070	7.930	49.46	14.42	0.5654	Good
6	2071	7.780	52.43	10.36	0.4225	Good
7	2072	8.000	51.77	10.97	0.4544	Good
8	2073	4.670	49.99	11.40	0.2662	Good
9	2087	7.940	50.60	12.71	0.5105	Good
10	2088	7.900	51.26	12.91	0.5230	Good
11	2089	7.730	50.25	10.93	0.4244	Good

12	2090	7.500	47.64	13.71	0.4898	Good
13	2091	8.070	61.08	16.63	0.8199	Good
14	2092	4.900	50.60	13.66	0.3386	Good
15	2093	4.860	60.50	14.13	0.4155	Good
16	2008	9.390	51.59	11.01	0.5334	Good
17	2009	9.280	46.70	10.30	0.4464	Good
18	2010	4.790	47.33	10.42	0.2361	Good
19	2011	7.770	49.94	10.81	0.4196	Good
20	2012	5.010	51.97	11.33	0.2951	Good
21	2013	4.840	49.10	10.02	0.2381	Good
22	2014	5.070	49.66	12.12	0.3052	Good
23	2021	4.840	49.08	11.51	0.2735	Good
24	2022	9.730	51.39	10.74	0.5371	Good
25	2023	7.890	50.53	10.03	0.4000	Good
26	2024	7.380	53.81	12.49	0.4959	Good
27	2025	4.330	51.66	12.33	0.2758	Good
28	2026	7.930	52.64	10.51	0.4385	Good
29	2033	9.800	58.48	10.93	0.6262	Good
30	2034	8.090	59.38	11.79	0.5663	Good
31	2035	9.140	61.92	15.57	0.8811	Good
32	2036	4.440	60.96	9.61	0.2602	Good
33	2037	8.370	60.14	9.54	0.4804	Good
34	2038	4.570	65.98	13.02	0.3926	Good
35	2044	9.680	63.09	10.19	0.6224	Good
36	2045	5.100	55.42	11.24	0.3177	Good
37	2046	1.850	58.18	11.41	0.1228	Good
38	2047	4.010	56.45	12.21	0.2763	Good
39	2048	4.020	58.50	10.58	0.2488	Good
40	2055	7.720	61.13	12.69	0.5991	Good
41	2056	4.770	64.38	13.45	0.4131	Good
42	2057	3.590	56.71	11.46	0.2334	Good
43	2058	3.870	53.60	11.59	0.2403	Good
44	2059	9.170	48.29	12.20	0.5401	Good
45	2060	9.380	52.37	7.35	0.3611	Inferior
46	2074	8.090	53.86	8.04	0.3503	Inferior
47	2075	4.880	61.91	14.02	0.4236	Good
48	2076	7.850	53.33	6.64	0.2779	Inferior
49	2077	7.900	52.29	10.00	0.4132	Good
50	2078	4.350	59.23	10.72	0.2762	Good
51	2079	4.700	64.50	9.35	0.2834	Good

52	2080	2.890	60.68	10.83	0.1899	Good
53	2081	7.790	62.58	10.71	0.5219	Good
54	2094	8.080	65.20	10.87	0.5729	Good
55	2095	9.790	67.91	10.93	0.7264	Good
56	2096	7.690	72.71	10.14	0.5668	Good
57	2097	4.830	61.24	14.34	0.4241	Good
58	2098	8.130	62.12	11.62	0.5870	Good
59	2099	8.220	74.59	13.31	0.8162	Good
60	2100	4.710	63.85	12.70	0.3820	Good
61	2001	4.350	58.23	9.86	0.2497	Good
62	2002	4.690	60.22	14.95	0.4221	Good
63	2003	4.850	61.14	15.88	0.4709	Good
64	2004	9.540	63.40	16.15	0.9769	Good
65	2005	4.760	66.16	13.48	0.4246	Good
66	2006	7.500	64.45	10.77	0.5205	Good
67	2007	4.780	62.45	15.26	0.4555	Good
68	2015	4.550	65.95	11.27	0.3381	Good
69	2016	7.430	53.84	9.19	0.3678	Good
70	2017	4.620	56.86	8.46	0.2222	Inferior
71	2018	9.450	66.18	14.26	0.8921	Good
72	2019	5.030	65.50	15.07	0.4965	Good
73	2020	9.180	53.95	10.62	0.5260	Good
74	2027	4.070	55.96	10.99	0.2503	Good
75	2028	4.760	52.29	11.70	0.2913	Good
76	2029	9.320	57.36	9.24	0.4940	Good
77	2030	4.730	63.63	15.68	0.4721	Good
78	2031	8.270	62.37	10.42	0.5376	Good
79	2032	9.520	65.12	9.55	0.5921	Good
80	2039	9.270	62.16	10.81	0.6229	Good
81	2040	4.930	57.89	16.10	0.4595	Good
82	2041	3.860	57.84	11.15	0.2490	Good
83	2042	4.700	57.85	10.98	0.2985	Good
84	2043	9.620	61.45	15.80	0.9341	Good
85	2049	4.780	60.89	10.38	0.3021	Good
86	2050	8.370	61.64	15.61	0.8052	Good
87	2051	9.710	53.30	12.48	0.6457	Good
88	2052	6.440	67.28	12.90	0.5590	Good
89	2053	7.750	63.80	11.27	0.5572	Good
90	2054	9.270	57.61	12.15	0.6489	Good
91	2061	5.090	44.14	16.13	0.3624	Good

92	2062	4.110	46.45	14.64	0.2795	Good
93	2063	9.560	52.47	8.73	0.4378	Inferior
94	2064	4.900	53.89	9.96	0.2631	Good
95	2065	4.840	52.02	9.34	0.2352	Good
96	2082	4.810	58.97	16.75	0.4752	Good
97	2083	8.620	63.22	15.68	0.8542	Good
98	2084	8.310	58.62	10.82	0.5269	Good
99	2085	4.930	54.71	10.47	0.2825	Good
100	2086	7.820	50.88	10.95	0.4356	Good

DATE: 04.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 11/211**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1026	7.680	56.97	9.76	0.4270	Good
2	1027	7.470	57.38	10.11	0.4333	Good
3	1028	9.380	55.28	7.60	0.3940	Inferior
4	1029	9.050	54.52	12.66	0.6245	Good
5	1030	8.200	57.90	9.76	0.4633	Good
6	1031	9.970	54.64	9.88	0.5384	Good
7	1038	4.270	54.49	11.67	0.2716	Good
8	1039	8.120	57.70	10.68	0.5002	Good
9	1040	9.130	49.73	12.41	0.5633	Good
10	1041	7.900	52.69	9.68	0.4029	Good
11	1042	8.580	52.89	14.77	0.6701	Good
12	1043	9.330	59.17	14.72	0.8126	Good
13	1051	9.520	64.72	13.38	0.8244	Good
14	1052	8.130	54.36	9.38	0.4146	Good
15	1053	4.480	52.67	11.81	0.2787	Good
16	1054	7.890	50.79	9.02	0.3614	Good
17	1055	7.960	51.23	12.47	0.5086	Good
18	1056	9.350	50.71	13.27	0.6293	Good
19	1057	8.490	52.90	10.51	0.4720	Good
20	1081	9.730	55.57	10.22	0.5527	Good
21	1082	8.200	52.70	14.02	0.6060	Good
22	1083	5.220	54.34	9.44	0.2678	Good
23	1084	8.180	51.57	10.49	0.4425	Good
24	1085	9.380	50.22	13.74	0.6472	Good
25	1091	9.740	53.26	12.67	0.6575	Good
26	1092	7.920	57.63	9.87	0.4506	Good
27	1093	10.250	64.02	13.75	0.9020	Good
28	1094	8.210	48.47	16.32	0.6494	Good
29	1095	10.240	52.54	14.75	0.7936	Good
30	1001	4.730	51.54	9.84	0.2398	Good
31	1002	7.470	53.25	7.61	0.3025	Inferior
32	1003	7.470	52.77	8.02	0.3160	Inferior
33	1004	9.370	56.26	9.07	0.4779	Good
34	1005	4.650	51.39	11.91	0.2846	Good

35	1006	8.630	49.29	9.96	0.4237	Good
36	1007	7.520	51.31	10.00	0.3858	Good
37	1063	9.250	48.70	12.24	0.5513	Good
38	1064	9.510	53.52	11.29	0.5744	Good
39	1065	7.980	52.29	11.65	0.4860	Good
40	1066	9.860	52.57	9.91	0.5137	Good
41	1067	5.120	52.05	12.16	0.3241	Good
42	1068	8.120	53.96	7.75	0.3394	Inferior
43	1069	8.160	53.38	14.13	0.6153	Good
44	1070	8.250	56.29	8.40	0.3902	Inferior
45	1071	6.390	54.44	10.58	0.3681	Good
46	1020	4.430	52.72	9.48	0.2215	Good
47	1021	9.230	54.54	9.44	0.4753	Good
48	1022	9.400	54.10	9.48	0.4822	Good
49	1023	9.540	55.67	9.41	0.4999	Good
50	1024	9.040	53.52	9.60	0.4647	Good
51	1025	8.020	56.52	9.75	0.4419	Good
52	1032	8.880	58.55	12.98	0.6749	Good
53	1033	4.280	53.58	9.69	0.2221	Good
54	1034	9.610	56.21	10.28	0.5555	Good
55	1035	8.510	55.99	11.39	0.5429	Good
56	1036	8.140	57.84	9.61	0.4526	Good
57	1037	1.820	53.69	11.55	0.1128	Good
58	1044	4.820	59.84	12.83	0.3702	Good
59	1045	9.530	70.86	12.14	0.8196	Good
60	1046	7.580	48.22	10.72	0.3919	Good
61	1047	9.390	49.93	10.29	0.4826	Good
62	1048	9.480	64.37	13.61	0.8304	Good
63	1049	8.050	64.92	14.11	0.7374	Good
64	1050	9.190	54.13	9.92	0.4935	Good
65	1086	8.160	51.62	11.10	0.4676	Good
66	1087	9.790	50.03	14.61	0.7156	Good
67	1088	10.160	51.98	13.79	0.7285	Good
68	1089	7.550	50.24	12.80	0.4855	Good
69	1090	8.220	55.74	9.85	0.4513	Good
70	1096	9.840	70.26	13.17	0.9102	Good
71	1097	9.700	51.69	13.58	0.6809	Good
72	1098	9.510	53.32	13.67	0.6933	Good
73	1099	7.830	60.06	10.44	0.4909	Good
74	1100	10.010	54.60	13.50	0.7377	Good

75	1008	7.950	50.22	9.06	0.3617	Good
76	1009	7.520	52.57	7.80	0.3083	Inferior
77	1010	9.230	53.59	11.14	0.5510	Good
78	1011	9.080	50.02	13.91	0.6320	Good
79	1012	4.740	51.37	11.33	0.2759	Good
80	1013	9.210	53.32	11.68	0.5738	Good
81	1014	9.000	52.85	9.91	0.4716	Good
82	1072	8.310	56.92	9.35	0.4421	Good
83	1073	9.580	55.40	10.87	0.5767	Good
84	1074	9.650	49.22	10.20	0.4844	Good
85	1075	7.960	52.30	10.92	0.4545	Good
86	1076	9.370	51.45	11.56	0.5575	Good
87	1077	9.790	50.73	14.92	0.7411	Good
88	1078	8.140	55.84	9.60	0.4363	Good
89	1079	8.140	52.53	13.12	0.5608	Good
90	1080	8.120	50.62	10.92	0.4490	Good
91	1015	9.440	54.95	13.83	0.7174	Good
92	1016	8.780	51.05	10.75	0.4820	Good
93	1017	9.140	43.55	12.17	0.4844	Good
94	1018	7.210	55.59	13.01	0.5213	Good
95	1019	7.630	53.33	10.63	0.4326	Good
96	1058	8.030	63.32	9.60	0.4882	Good
97	1059	3.910	61.56	12.33	0.2968	Good
98	1060	7.810	62.27	13.31	0.6474	Good
99	1061	9.790	63.74	11.00	0.6863	Good
100	1062	3.790	52.78	14.34	0.2869	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 14/279**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1387	7.670	55.14	10.97	0.4640	Good
2	1388	7.280	49.86	12.88	0.4674	Good
3	1389	9.400	51.37	12.26	0.5922	Good
4	1390	8.760	52.26	13.20	0.6044	Good
5	1391	3.730	52.68	13.78	0.2708	Good
6	1392	8.870	52.06	13.43	0.6200	Good
7	1393	7.350	52.02	11.51	0.4403	Good
8	1308	4.160	54.01	16.98	0.3815	Good
9	1309	4.840	50.90	14.91	0.3674	Good
10	1310	8.170	53.97	16.73	0.7378	Good
11	1311	9.240	63.61	14.92	0.8769	Good

12	1312	8.070	51.95	8.35	0.3502	Inferior
13	1313	9.660	45.09	14.44	0.6289	Good
14	1314	4.870	57.85	15.16	0.4271	Good
15	1321	9.620	66.92	13.15	0.8466	Good
16	1322	8.330	51.98	9.73	0.4215	Good
17	1323	7.950	49.41	8.26	0.3244	Inferior
18	1324	9.610	64.49	13.21	0.8188	Good
19	1325	9.910	52.63	10.24	0.5341	Good
20	1326	5.310	47.21	14.83	0.3717	Good
21	1339	9.880	47.54	12.31	0.5780	Good
22	1340	9.830	48.35	12.60	0.5986	Good
23	1341	8.930	47.96	15.64	0.6698	Good
24	1342	8.500	50.36	12.75	0.5457	Good
25	1343	7.970	52.27	11.61	0.4838	Good
26	1344	9.240	47.98	12.05	0.5341	Good
27	1345	4.930	51.02	11.72	0.2948	Good
28	1353	8.170	52.46	12.37	0.5302	Good
29	1354	4.810	51.05	12.71	0.3122	Good
30	1355	4.680	53.18	13.65	0.3398	Good
31	1356	8.120	50.47	14.50	0.5944	Good
32	1357	4.200	68.49	13.45	0.3868	Good
33	1358	4.190	53.26	11.51	0.2568	Good
34	1364	8.730	54.15	9.58	0.4531	Good
35	1365	7.800	52.84	9.24	0.3806	Good
36	1366	9.310	53.08	9.17	0.4534	Good
37	1367	7.350	57.36	8.19	0.3455	Inferior
38	1368	7.600	55.48	7.55	0.3184	Inferior
39	1375	9.140	50.27	14.36	0.6599	Good
40	1376	9.390	54.84	9.06	0.4667	Good
41	1377	8.990	52.53	11.44	0.5403	Good
42	1378	7.560	55.14	10.83	0.4513	Good
43	1379	9.190	53.77	9.84	0.4862	Good
44	1380	8.820	54.84	11.52	0.5574	Good
45	1381	7.910	56.09	10.36	0.4596	Good
46	1394	9.040	53.36	9.95	0.4800	Good
47	1395	4.680	49.06	15.21	0.3491	Good
48	1396	8.790	54.84	9.48	0.4571	Good
49	1397	4.750	53.85	8.17	0.2090	Inferior
50	1398	9.180	50.33	12.16	0.5618	Good
51	1399	7.770	50.26	14.27	0.5571	Good

52	1400	8.100	46.76	16.25	0.6156	Good
53	1301	9.270	48.29	13.23	0.5924	Good
54	1302	9.330	53.89	12.62	0.6344	Good
55	1303	7.910	50.84	13.87	0.5577	Good
56	1304	4.950	51.23	13.08	0.3317	Good
57	1305	4.700	55.24	14.17	0.3680	Good
58	1306	4.800	55.65	14.99	0.4003	Good
59	1307	4.390	48.33	16.59	0.3521	Good
60	1315	7.930	49.95	10.35	0.4100	Good
61	1316	9.550	51.18	9.05	0.4422	Good
62	1317	8.190	53.26	9.24	0.4029	Good
63	1318	8.140	51.12	11.03	0.4591	Good
64	1319	5.230	50.44	9.52	0.2510	Good
65	1320	9.570	49.02	11.18	0.5244	Good
66	1332	8.030	49.67	12.12	0.4834	Good
67	1333	9.310	57.47	15.96	0.8537	Good
68	1334	5.100	52.95	11.97	0.3233	Good
69	1335	5.050	53.39	10.13	0.2732	Good
70	1336	9.210	52.55	12.18	0.5894	Good
71	1337	4.970	49.41	13.88	0.3409	Good
72	1338	8.260	49.55	12.55	0.5138	Good
73	1346	9.710	51.64	10.63	0.5331	Good
74	1347	9.790	54.42	10.25	0.5463	Good
75	1348	4.410	66.90	13.41	0.3956	Good
76	1349	9.810	50.95	13.92	0.6955	Good
77	1350	4.710	52.58	12.29	0.3043	Good
78	1351	8.390	51.44	13.41	0.5789	Good
79	1352	7.970	51.47	14.44	0.5922	Good
80	1359	4.730	50.54	9.54	0.2280	Good
81	1360	7.240	51.15	9.11	0.3374	Good
82	1361	7.570	49.53	9.67	0.3626	Good
83	1362	9.160	49.85	10.25	0.4681	Good
84	1363	7.720	51.37	9.27	0.3675	Good
85	1369	8.100	52.06	9.95	0.4196	Good
86	1370	9.300	49.45	10.41	0.4790	Good
87	1371	9.140	50.68	10.40	0.4817	Good
88	1372	4.350	47.83	12.40	0.2580	Good
89	1373	7.530	46.18	16.09	0.5595	Good
90	1374	4.520	50.83	12.89	0.2961	Good
91	1327	3.900	48.96	11.83	0.2258	Good

92	1328	9.690	47.76	9.44	0.4370	Good
93	1329	7.970	49.93	10.03	0.3993	Good
94	1330	4.190	53.46	10.48	0.2346	Good
95	1331	8.160	49.26	12.46	0.5010	Good
96	1382	4.640	44.46	13.23	0.2728	Good
97	1383	9.090	49.71	12.33	0.5572	Good
98	1384	8.760	52.19	11.23	0.5133	Good
99	1385	8.800	52.09	10.41	0.4770	Good
100	1386	7.510	50.79	10.20	0.3890	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 37/499**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3619	5.060	62.34	14.98	0.4726	Good
2	3620	7.830	64.92	14.91	0.7579	Good
3	3621	7.610	62.05	13.18	0.6225	Good
4	3622	7.890	57.74	13.39	0.6099	Good
5	3623	7.970	62.16	13.55	0.6711	Good
6	3624	9.670	56.07	14.20	0.7697	Good
7	3631	10.410	60.32	15.37	0.9650	Good
8	3632	8.090	62.52	13.58	0.6868	Good
9	3633	7.820	64.87	12.35	0.6264	Good
10	3634	8.280	61.91	15.38	0.7883	Good
11	3635	8.190	59.37	15.02	0.7305	Good
12	3636	8.100	62.56	10.93	0.5540	Good
13	3643	4.700	56.04	13.22	0.3483	Good
14	3644	7.970	54.69	13.55	0.5906	Good
15	3645	2.520	65.42	10.26	0.1691	Good
16	3646	7.560	52.35	16.05	0.6350	Good
17	3647	7.370	67.55	11.55	0.5749	Good
18	3648	4.760	54.20	15.81	0.4079	Good
19	3601	8.010	55.45	14.19	0.6304	Good
20	3602	7.860	60.46	12.80	0.6084	Good
21	3603	8.140	62.62	10.67	0.5438	Good
22	3604	7.840	56.66	16.85	0.7487	Good
23	3605	5.000	64.18	12.36	0.3965	Good
24	3606	7.870	59.27	14.88	0.6941	Good
25	3659	4.420	58.91	15.24	0.3969	Good
26	3660	4.450	59.50	14.17	0.3751	Good
27	3661	3.960	59.00	16.25	0.3798	Good
28	3662	3.840	59.91	15.36	0.3533	Good

29	3663	3.630	57.98	13.61	0.2864	Good
30	3664	3.890	57.37	15.58	0.3478	Good
31	3665	4.400	64.50	13.55	0.3846	Good
32	3666	8.870	57.79	15.71	0.8054	Good
33	3667	4.480	59.92	15.25	0.4095	Good
34	3674	7.580	63.26	13.18	0.6322	Good
35	3675	4.760	52.78	15.18	0.3813	Good
36	3676	4.890	57.55	16.56	0.4660	Good
37	3677	7.320	57.00	16.21	0.6764	Good
38	3678	7.470	62.16	10.15	0.4714	Good
39	3687	4.410	57.14	11.20	0.2822	Good
40	3688	4.460	63.33	12.40	0.3501	Good
41	3689	9.640	59.96	15.08	0.8715	Good
42	3690	4.750	59.46	16.25	0.4589	Good
43	3691	7.610	60.69	15.03	0.6940	Good
44	3692	7.730	64.54	13.82	0.6895	Good
45	3693	4.550	59.32	13.12	0.3540	Good
46	3625	9.480	58.20	14.78	0.8153	Good
47	3626	9.950	56.90	13.87	0.7851	Good
48	3627	8.340	56.98	16.25	0.7723	Good
49	3628	8.020	58.59	15.22	0.7154	Good
50	3629	4.330	58.34	12.74	0.3217	Good
51	3630	9.400	52.19	15.69	0.7699	Good
52	3637	10.510	59.22	16.99	1.0573	Good
53	3638	4.430	47.40	16.81	0.3531	Good
54	3639	4.530	57.45	11.11	0.2890	Good
55	3640	3.890	64.70	12.87	0.3240	Good
56	3641	4.450	55.70	16.14	0.4001	Good
57	3642	7.560	55.16	16.46	0.6864	Good
58	3649	4.460	56.81	14.72	0.3729	Good
59	3650	4.600	58.64	15.09	0.4071	Good
60	3651	7.680	61.67	11.48	0.5437	Good
61	3652	4.700	62.23	11.26	0.3295	Good
62	3653	7.440	58.67	15.27	0.6666	Good
63	3654	7.570	61.01	14.16	0.6540	Good
64	3607	3.870	54.20	13.21	0.2771	Good
65	3608	9.810	59.49	15.04	0.8780	Good
66	3609	4.690	62.80	15.40	0.4535	Good
67	3610	7.950	56.98	13.60	0.6161	Good
68	3611	4.820	56.78	14.85	0.4063	Good

69	3612	8.140	59.62	15.72	0.7627	Good
70	3668	7.640	64.05	10.40	0.5088	Good
71	3669	4.770	52.58	14.80	0.3711	Good
72	3670	8.680	55.49	14.16	0.6822	Good
73	3671	7.630	55.14	15.58	0.6554	Good
74	3672	7.780	56.55	15.83	0.6963	Good
75	3673	4.770	56.80	16.29	0.4412	Good
76	3679	4.880	55.03	16.23	0.4358	Good
77	3680	7.380	64.20	12.71	0.6022	Good
78	3681	4.880	62.15	12.21	0.3704	Good
79	3682	4.730	57.09	15.20	0.4106	Good
80	3683	4.510	52.71	15.82	0.3761	Good
81	3684	8.870	54.57	16.82	0.8143	Good
82	3685	7.760	58.91	15.33	0.7007	Good
83	3686	7.500	59.86	15.79	0.7088	Good
84	3694	4.640	59.13	13.11	0.3596	Good
85	3695	5.020	61.23	13.26	0.4076	Good
86	3696	7.390	59.70	15.24	0.6725	Good
87	3697	7.430	58.37	14.32	0.6211	Good
88	3698	7.630	61.18	16.49	0.7699	Good
89	3699	4.680	62.55	16.87	0.4937	Good
90	3700	4.410	60.35	15.97	0.4251	Good
91	3613	8.150	59.96	13.69	0.6691	Good
92	3614	4.710	66.12	10.77	0.3354	Good
93	3615	10.100	59.03	12.35	0.7363	Good
94	3616	9.750	58.53	15.14	0.8639	Good
95	3617	8.000	58.71	14.63	0.6872	Good
96	3618	5.120	61.20	12.63	0.3958	Good
97	3655	4.680	61.00	12.49	0.3566	Good
98	3656	4.350	60.31	15.72	0.4124	Good
99	3657	7.440	57.80	15.19	0.6532	Good
100	3658	7.510	60.93	15.69	0.7180	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 40/502**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3965	4.210	52.05	10.66	0.2337	Good
2	3966	3.980	58.65	10.84	0.2531	Good
3	3967	3.850	52.70	13.70	0.2780	Good
4	3968	8.140	53.82	10.54	0.4615	Good
5	3969	9.020	61.08	11.59	0.6386	Good



6	3970	3.910	52.31	14.03	0.2870	Good
7	3977	4.490	54.18	9.75	0.2371	Good
8	3978	9.410	68.04	12.73	0.8149	Good
9	3979	4.530	66.93	14.91	0.4521	Good
10	3980	4.750	58.33	11.69	0.3240	Good
11	3981	7.930	59.25	10.53	0.4948	Good
12	3982	7.780	69.20	12.88	0.6932	Good
13	3989	4.330	55.54	11.51	0.2767	Good
14	3990	4.550	53.91	9.39	0.2302	Good
15	3991	4.700	57.46	9.52	0.2571	Good
16	3992	7.770	59.26	11.80	0.5431	Good
17	3993	4.480	53.19	9.31	0.2218	Good
18	3994	4.570	53.71	12.01	0.2948	Good
19	3907	7.900	49.03	9.46	0.3666	Good
20	3908	4.570	51.98	9.73	0.2312	Good
21	3909	4.840	49.09	9.19	0.2183	Good
22	3910	7.970	50.03	9.23	0.3682	Good
23	3911	7.980	52.63	9.44	0.3966	Good
24	3912	5.000	46.85	12.38	0.2900	Good
25	3925	9.470	53.11	9.62	0.4839	Good
26	3926	7.920	51.24	10.17	0.4126	Good
27	3927	3.980	53.35	11.25	0.2388	Good
28	3928	5.180	52.11	12.03	0.3248	Good
29	3929	5.040	52.92	11.75	0.3135	Good
30	3930	4.890	53.23	10.28	0.2675	Good
31	3935	4.840	52.87	10.88	0.2783	Good
32	3936	7.990	55.51	10.38	0.4602	Good
33	3937	5.030	57.20	13.55	0.3898	Good
34	3938	3.910	62.48	11.76	0.2874	Good
35	3939	4.590	58.61	10.95	0.2947	Good
36	3940	4.360	69.45	13.10	0.3968	Good
37	3948	4.550	47.07	12.70	0.2721	Good
38	3949	4.550	68.14	13.08	0.4054	Good
39	3950	7.490	45.09	13.22	0.4464	Good
40	3951	3.810	46.34	12.56	0.2217	Good
41	3952	5.060	54.41	13.95	0.3841	Good
42	3953	4.660	60.48	13.86	0.3905	Good
43	3954	4.630	55.76	11.23	0.2898	Good
44	3955	4.340	47.23	9.19	0.1884	Good
45	3956	7.680	59.34	10.57	0.4815	Good

46	3971	4.320	68.99	13.02	0.3879	Good
47	3972	7.820	45.26	12.17	0.4309	Good
48	3973	7.360	48.60	10.68	0.3820	Good
49	3974	7.880	50.82	12.48	0.4996	Good
50	3975	4.100	49.41	12.65	0.2563	Good
51	3976	9.570	48.62	12.46	0.5799	Good
52	3983	9.520	54.14	10.92	0.5626	Good
53	3984	8.010	53.94	11.33	0.4894	Good
54	3985	7.910	62.25	10.47	0.5157	Good
55	3986	7.920	67.62	10.37	0.5552	Good
56	3987	7.640	60.85	9.79	0.4553	Good
57	3988	7.880	52.23	12.85	0.5287	Good
58	3995	4.670	54.49	11.73	0.2984	Good
59	3996	4.810	59.44	10.11	0.2891	Good
60	3997	3.670	56.16	10.36	0.2136	Good
61	3998	4.000	54.64	9.22	0.2016	Good
62	3999	3.900	53.37	11.41	0.2375	Good
63	4000	3.980	57.41	9.96	0.2277	Good
64	3901	5.030	50.97	11.93	0.3058	Good
65	3902	4.770	47.56	10.89	0.2471	Good
66	3903	7.660	49.67	6.08	0.2313	Inferior
67	3904	4.390	47.77	10.45	0.2191	Good
68	3905	4.550	52.68	7.80	0.1870	Inferior
69	3906	4.700	50.14	10.81	0.2547	Good
70	3919	7.830	53.23	9.21	0.3837	Good
71	3920	4.660	54.15	11.73	0.2959	Good
72	3921	4.850	47.38	12.52	0.2876	Good
73	3922	7.870	54.88	9.02	0.3896	Good
74	3923	4.770	53.19	11.73	0.2976	Good
75	3924	9.510	55.73	11.34	0.6010	Good
76	3941	3.570	68.79	13.04	0.3202	Good
77	3942	4.720	52.65	8.72	0.2166	Inferior
78	3943	3.770	49.32	7.91	0.1470	Inferior
79	3944	9.170	53.91	11.20	0.5539	Good
80	3945	4.280	51.32	10.44	0.2294	Good
81	3946	4.350	50.48	11.67	0.2562	Good
82	3947	7.260	56.47	12.31	0.5046	Good
83	3957	4.130	53.48	12.68	0.2800	Good
84	3958	4.560	59.85	12.68	0.3461	Good
85	3959	7.980	53.29	10.71	0.4557	Good

86	3960	8.080	50.18	12.93	0.5244	Good
87	3961	4.240	50.02	9.60	0.2035	Good
88	3962	4.410	53.95	11.44	0.2721	Good
89	3963	9.440	56.88	11.66	0.6259	Good
90	3964	4.300	52.00	8.37	0.1871	Inferior
91	3931	4.920	55.02	13.72	0.3715	Good
92	3932	9.860	59.15	10.46	0.6103	Good
93	3933	5.030	54.60	11.28	0.3098	Good
94	3934	3.950	58.43	12.80	0.2955	Good
95	3913	4.020	45.62	12.89	0.2364	Good
96	3914	4.790	47.23	9.27	0.2098	Good
97	3915	4.670	52.33	9.71	0.2372	Good
98	3916	4.620	55.01	10.29	0.2615	Good
99	3917	7.900	55.91	9.55	0.4219	Good
100	3918	5.150	49.45	11.89	0.3028	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 45/516**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4455	4.490	70.49	12.97	0.4104	Good
2	4456	9.560	61.47	3.20	0.1883	Inferior
3	4457	7.170	72.88	12.23	0.6388	Good
4	4458	4.690	65.42	14.80	0.4540	Good
5	4459	7.570	64.33	12.44	0.6056	Good
6	4460	7.470	61.69	13.76	0.6342	Good
7	4467	9.610	51.45	11.51	0.5689	Good
8	4468	4.900	56.46	11.21	0.3102	Good
9	4469	6.790	72.33	13.15	0.6457	Good
10	4470	7.240	53.72	11.90	0.4626	Good
11	4471	7.570	65.06	14.00	0.6896	Good
12	4472	8.050	52.70	9.43	0.4001	Good
13	4473	7.320	55.17	12.20	0.4926	Good
14	4474	4.290	53.82	9.18	0.2119	Good
15	4487	9.030	52.44	10.20	0.4831	Good
16	4488	8.930	54.65	12.94	0.6314	Good
17	4489	4.280	55.81	12.02	0.2872	Good
18	4490	4.450	53.74	10.03	0.2399	Good
19	4491	8.260	53.73	10.91	0.4840	Good
20	4492	7.740	58.19	15.45	0.6958	Good
21	4493	3.840	54.95	9.39	0.1981	Good
22	4401	7.290	54.04	9.81	0.3864	Good

23	4402	9.570	58.34	9.82	0.5484	Good
24	4403	9.490	55.27	10.95	0.5741	Good
25	4404	8.150	61.69	9.48	0.4768	Good
26	4405	8.280	48.63	15.09	0.6078	Good
27	4406	8.120	55.87	11.65	0.5286	Good
28	4407	9.630	52.04	9.61	0.4815	Good
29	4427	4.720	58.71	9.40	0.2605	Good
30	4428	9.390	54.44	9.59	0.4902	Good
31	4429	4.490	50.60	13.10	0.2977	Good
32	4430	8.070	53.54	13.17	0.5689	Good
33	4431	4.320	65.29	11.32	0.3192	Good
34	4432	4.850	58.10	11.69	0.3293	Good
35	4438	7.950	56.92	11.93	0.5398	Good
36	4439	9.950	59.00	10.75	0.6308	Good
37	4440	7.900	54.17	14.92	0.6383	Good
38	4441	7.700	65.72	10.61	0.5367	Good
39	4442	4.790	55.50	13.53	0.3597	Good
40	4449	5.020	58.83	11.39	0.3363	Good
41	4450	4.760	61.14	11.06	0.3218	Good
42	4451	3.970	70.02	12.05	0.3351	Good
43	4452	4.680	63.06	13.56	0.4001	Good
44	4453	4.140	73.77	10.91	0.3333	Good
45	4454	4.350	61.19	14.15	0.3767	Good
46	4461	4.310	65.48	13.99	0.3948	Good
47	4462	7.770	53.93	13.31	0.5579	Good
48	4463	8.210	53.51	10.39	0.4565	Good
49	4464	4.500	55.18	10.44	0.2592	Good
50	4465	7.350	57.53	9.33	0.3947	Good
51	4466	7.690	50.34	12.18	0.4714	Good
52	4479	4.360	47.39	9.12	0.1884	Good
53	4480	4.540	53.15	10.25	0.2474	Good
54	4481	7.350	53.53	10.33	0.4065	Good
55	4482	7.450	57.64	8.67	0.3725	Inferior
56	4483	7.310	51.37	11.13	0.4181	Good
57	4484	8.990	50.25	8.72	0.3938	Inferior
58	4485	4.540	50.75	11.39	0.2624	Good
59	4486	9.320	57.20	10.56	0.5629	Good
60	4494	4.800	56.50	9.04	0.2453	Good
61	4495	7.370	56.81	11.21	0.4695	Good
62	4496	7.710	54.92	11.25	0.4765	Good

63	4497	4.530	57.23	11.85	0.3071	Good
64	4498	4.030	53.10	8.25	0.1765	Inferior
65	4499	4.210	59.20	9.41	0.2345	Good
66	4500	3.700	48.37	9.14	0.1635	Good
67	4408	7.980	56.53	9.16	0.4134	Good
68	4409	8.160	56.72	12.34	0.5712	Good
69	4410	7.530	53.14	10.56	0.4224	Good
70	4411	9.800	63.86	12.09	0.7566	Good
71	4412	8.240	68.87	8.39	0.4763	Inferior
72	4413	10.010	71.56	10.15	0.7267	Good
73	4414	4.940	47.73	9.74	0.2297	Good
74	4421	7.720	56.49	7.59	0.3312	Inferior
75	4422	8.130	55.88	10.65	0.4837	Good
76	4423	4.210	48.17	9.53	0.1932	Good
77	4424	4.790	59.18	11.42	0.3238	Good
78	4425	4.810	53.27	10.16	0.2602	Good
79	4426	8.430	65.34	14.55	0.8017	Good
80	4433	4.190	65.86	10.01	0.2761	Good
81	4434	4.210	72.90	11.08	0.3402	Good
82	4435	8.110	73.46	9.57	0.5701	Good
83	4436	4.910	76.03	7.87	0.2936	Inferior
84	4437	4.670	68.44	10.72	0.3428	Good
85	4443	7.920	74.77	12.09	0.7160	Good
86	4444	7.770	70.21	9.71	0.5299	Good
87	4445	7.870	69.27	11.14	0.6076	Good
88	4446	8.060	70.98	9.16	0.5239	Good
89	4447	8.200	63.93	13.62	0.7142	Good
90	4448	8.120	61.52	10.14	0.5067	Good
91	4415	6.990	55.39	9.77	0.3782	Good
92	4416	4.840	51.14	5.92	0.1467	Inferior
93	4417	9.780	48.59	9.80	0.4655	Good
94	4418	7.550	60.02	7.86	0.3564	Inferior
95	4419	4.150	55.55	11.81	0.2722	Good
96	4420	8.450	55.80	9.82	0.4631	Good
97	4475	9.780	60.96	7.71	0.4597	Inferior
98	4476	4.820	54.27	11.28	0.2950	Good
99	4477	7.990	55.65	6.72	0.2988	Inferior
100	4478	4.400	51.08	9.38	0.2108	Good

DATE: 03.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 44/515**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4395	8.210	61.43	12.08	0.6092	Good
2	4396	4.680	64.17	12.39	0.3721	Good
3	4397	7.910	58.85	14.85	0.6913	Good
4	4398	7.920	57.60	14.43	0.6582	Good
5	4399	9.530	60.06	10.51	0.6013	Good
6	4400	7.670	55.93	15.63	0.6704	Good
7	4308	3.950	61.72	12.02	0.2931	Good
8	4309	4.590	51.52	14.89	0.3521	Good
9	4310	4.690	52.25	16.02	0.3926	Good
10	4311	4.790	57.96	15.22	0.4225	Good
11	4312	5.200	56.62	16.16	0.4758	Good
12	4313	4.310	58.48	15.18	0.3827	Good
13	4314	7.950	56.30	13.53	0.6058	Good
14	4327	5.200	62.81	10.86	0.3546	Good
15	4328	4.980	57.62	11.14	0.3197	Good
16	4329	4.810	59.50	13.34	0.3819	Good
17	4330	4.960	69.39	13.99	0.4816	Good
18	4331	10.180	55.92	15.72	0.8948	Good
19	4332	4.790	65.41	10.37	0.3248	Good
20	4339	4.170	62.03	13.59	0.3515	Good
21	4340	7.580	52.50	16.17	0.6435	Good
22	4341	7.830	63.96	9.60	0.4808	Good
23	4342	4.290	62.76	10.85	0.2921	Good
24	4343	4.660	51.66	15.89	0.3826	Good
25	4344	7.740	57.91	13.83	0.6200	Good
26	4345	4.550	51.61	15.64	0.3672	Good
27	4356	7.740	57.95	12.18	0.5464	Good
28	4357	7.930	59.40	13.60	0.6407	Good
29	4358	7.570	62.95	15.38	0.7328	Good
30	4359	9.640	59.36	14.18	0.8117	Good
31	4360	7.450	59.95	13.79	0.6161	Good
32	4361	4.420	61.27	13.25	0.3589	Good
33	4369	4.830	58.77	11.74	0.3333	Good
34	4370	9.080	58.39	14.35	0.7609	Good

35	4371	3.690	61.21	11.98	0.2705	Good
36	4372	7.670	56.11	14.63	0.6297	Good
37	4373	4.790	61.75	13.18	0.3899	Good
38	4374	4.580	61.24	14.06	0.3943	Good
39	4382	7.820	59.88	14.31	0.6702	Good
40	4383	5.000	60.14	11.51	0.3460	Good
41	4384	8.020	60.11	10.06	0.4852	Good
42	4385	8.890	60.03	12.96	0.6916	Good
43	4386	8.210	64.04	13.07	0.6872	Good
44	4387	7.710	55.49	14.60	0.6245	Good
45	4388	7.700	59.24	13.91	0.6345	Good
46	4389	8.100	64.00	10.58	0.5484	Good
47	4390	4.420	63.58	14.16	0.3978	Good
48	4391	4.450	63.62	11.21	0.3173	Good
49	4392	7.980	55.63	13.57	0.6025	Good
50	4393	9.210	57.35	13.51	0.7138	Good
51	4394	8.240	55.85	15.94	0.7334	Good
52	4301	4.760	51.14	15.29	0.3722	Good
53	4302	9.540	55.30	13.78	0.7269	Good
54	4303	4.520	58.88	12.75	0.3395	Good
55	4304	4.890	54.63	12.89	0.3443	Good
56	4305	8.000	62.31	9.90	0.4936	Good
57	4306	4.770	55.50	14.23	0.3768	Good
58	4307	7.790	65.02	11.69	0.5920	Good
59	4320	8.000	54.75	15.45	0.6768	Good
60	4321	4.960	57.39	14.29	0.4067	Good
61	4322	5.180	54.05	15.28	0.4279	Good
62	4323	8.530	54.90	14.12	0.6611	Good
63	4324	4.660	53.94	14.57	0.3663	Good
64	4325	7.990	54.28	14.17	0.6144	Good
65	4326	7.640	60.34	14.17	0.6532	Good
66	4333	8.030	56.12	15.61	0.7034	Good
67	4334	8.100	54.47	14.61	0.6448	Good
68	4335	4.570	61.81	11.94	0.3373	Good
69	4336	7.950	60.52	12.86	0.6185	Good
70	4337	8.270	63.93	12.34	0.6525	Good
71	4338	6.720	56.77	16.80	0.6411	Good
72	4346	7.890	59.03	16.40	0.7638	Good
73	4347	9.280	62.38	11.24	0.6505	Good
74	4348	7.920	55.30	12.53	0.5489	Good



75	4349	7.480	60.89	14.70	0.6695	Good
76	4350	4.210	56.62	13.02	0.3103	Good
77	4362	9.500	61.67	14.27	0.8360	Good
78	4363	8.320	62.02	13.93	0.7188	Good
79	4364	8.910	58.43	14.82	0.7716	Good
80	4365	4.730	65.23	11.08	0.3420	Good
81	4366	4.630	60.31	16.42	0.4584	Good
82	4367	8.290	61.67	11.77	0.6019	Good
83	4368	4.920	60.85	13.77	0.4123	Good
84	4375	4.990	58.76	16.27	0.4770	Good
85	4376	4.780	60.44	15.82	0.4570	Good
86	4377	9.430	58.01	13.57	0.7421	Good
87	4378	4.560	57.82	13.02	0.3434	Good
88	4379	4.770	60.80	13.67	0.3964	Good
89	4380	7.300	65.06	11.91	0.5658	Good
90	4381	4.570	61.14	13.97	0.3903	Good
91	4315	7.930	52.17	19.11	0.7906	Good
92	4316	4.570	64.56	11.54	0.3405	Good
93	4317	4.850	55.90	15.71	0.4258	Good
94	4318	4.490	65.74	10.85	0.3201	Good
95	4319	8.090	63.59	10.00	0.5145	Good
96	4351	4.510	62.22	10.59	0.2972	Good
97	4352	7.730	57.43	14.96	0.6640	Good
98	4353	8.050	62.97	15.80	0.8010	Good
99	4354	4.570	59.01	15.88	0.4282	Good
100	4355	7.680	64.67	10.34	0.5138	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 18/283**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1701	4.350	59.46	14.80	0.3828	Good
2	1702	7.680	60.82	10.24	0.4785	Good
3	1703	9.120	59.96	13.69	0.7488	Good
4	1704	7.610	58.98	12.55	0.5631	Good
5	1705	7.270	60.10	10.72	0.4682	Good
6	1706	4.300	60.20	11.38	0.2946	Good
7	1719	4.650	58.97	13.45	0.3687	Good
8	1720	4.630	62.03	11.37	0.3264	Good
9	1721	7.680	60.38	10.27	0.4762	Good
10	1722	7.480	63.23	10.77	0.5094	Good
11	1723	9.070	63.76	12.56	0.7265	Good

12	1724	4.410	59.67	10.19	0.2681	Good
13	1735	9.410	56.23	14.21	0.7519	Good
14	1736	7.180	57.16	13.44	0.5514	Good
15	1737	7.480	55.12	15.87	0.6545	Good
16	1738	4.590	58.31	13.07	0.3498	Good
17	1739	9.520	58.15	12.36	0.6845	Good
18	1740	5.430	58.60	13.77	0.4382	Good
19	1747	5.090	62.27	9.39	0.2978	Good
20	1748	4.600	56.78	12.42	0.3243	Good
21	1749	4.600	58.15	13.79	0.3689	Good
22	1750	7.820	60.97	11.04	0.5263	Good
23	1751	7.910	59.37	10.83	0.5086	Good
24	1752	4.530	56.68	12.93	0.3320	Good
25	1759	4.870	63.12	13.31	0.4091	Good
26	1760	4.820	59.27	12.16	0.3475	Good
27	1761	7.810	61.04	13.52	0.6443	Good
28	1762	4.630	58.18	13.54	0.3648	Good
29	1763	7.430	58.47	14.45	0.6278	Good
30	1764	7.800	62.78	11.90	0.5827	Good
31	1765	4.640	60.76	11.98	0.3378	Good
32	1773	9.510	61.40	11.71	0.6838	Good
33	1774	8.420	59.35	11.63	0.5810	Good
34	1775	4.770	61.51	12.47	0.3659	Good
35	1776	4.410	54.49	14.88	0.3577	Good
36	1777	4.560	56.65	11.49	0.2969	Good
37	1778	7.300	54.36	16.15	0.6409	Good
38	1779	9.570	52.43	14.76	0.7407	Good
39	1787	4.380	53.67	13.27	0.3119	Good
40	1788	8.940	61.31	11.65	0.6383	Good
41	1789	8.940	60.26	12.55	0.6759	Good
42	1790	7.540	60.62	11.27	0.5150	Good
43	1791	7.470	60.14	12.77	0.5737	Good
44	1792	7.610	55.57	15.82	0.6689	Good
45	1793	7.410	62.55	10.70	0.4957	Good
46	1707	7.670	64.48	11.37	0.5622	Good
47	1708	4.440	57.22	13.46	0.3419	Good
48	1709	4.430	60.82	10.52	0.2835	Good
49	1710	3.820	56.67	13.52	0.2926	Good
50	1711	3.680	58.75	13.28	0.2870	Good
51	1712	4.280	59.58	11.87	0.3026	Good

52	1725	7.330	64.10	12.57	0.5908	Good
53	1726	7.610	59.44	11.14	0.5038	Good
54	1727	7.210	65.16	9.05	0.4254	Good
55	1728	7.150	65.54	12.76	0.5977	Good
56	1729	4.540	65.84	11.07	0.3310	Good
57	1730	7.340	64.18	13.09	0.6166	Good
58	1741	4.600	61.18	13.29	0.3740	Good
59	1742	7.710	62.00	12.02	0.5744	Good
60	1743	4.380	59.10	10.30	0.2667	Good
61	1744	7.630	56.71	14.49	0.6272	Good
62	1745	4.560	59.85	12.10	0.3301	Good
63	1746	7.860	59.34	10.01	0.4669	Good
64	1753	4.680	60.02	13.83	0.3884	Good
65	1754	4.730	63.61	10.06	0.3027	Good
66	1755	7.760	60.81	11.40	0.5378	Good
67	1756	7.610	60.76	10.80	0.4992	Good
68	1757	7.770	65.37	11.04	0.5610	Good
69	1758	7.840	65.24	10.32	0.5276	Good
70	1766	8.220	55.86	13.53	0.6214	Good
71	1767	7.990	55.86	14.72	0.6568	Good
72	1768	4.790	59.46	12.26	0.3492	Good
73	1769	9.700	57.47	11.05	0.6160	Good
74	1770	4.050	56.82	10.03	0.2309	Good
75	1771	8.340	57.54	14.08	0.6755	Good
76	1772	4.980	59.79	11.87	0.3536	Good
77	1780	7.580	58.25	12.81	0.5655	Good
78	1781	7.450	60.06	11.06	0.4947	Good
79	1782	7.640	62.15	10.36	0.4920	Good
80	1783	8.020	64.17	10.75	0.5534	Good
81	1784	4.160	66.37	10.91	0.3012	Good
82	1785	7.470	64.12	11.23	0.5378	Good
83	1786	4.550	64.14	11.55	0.3372	Good
84	1794	8.590	60.80	12.07	0.6305	Good
85	1795	8.920	62.29	10.79	0.5994	Good
86	1796	8.540	62.58	12.61	0.6738	Good
87	1797	8.770	58.82	11.12	0.5736	Good
88	1798	7.470	61.76	12.65	0.5834	Good
89	1799	7.350	61.73	12.26	0.5564	Good
90	1800	8.010	63.97	13.73	0.7033	Good
91	1713	7.620	63.87	11.77	0.5730	Good

92	1714	8.740	65.45	9.84	0.5629	Good
93	1715	9.000	63.59	10.02	0.5733	Good
94	1716	4.200	64.75	10.15	0.2759	Good
95	1717	8.150	53.65	12.77	0.5583	Good
96	1718	4.510	64.41	11.07	0.3216	Good
97	1731	4.490	64.04	12.05	0.3466	Good
98	1732	7.600	65.39	10.78	0.5358	Good
99	1733	4.580	52.24	14.66	0.3508	Good
100	1734	4.510	58.13	13.02	0.3414	Good

Date:02.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 17/282**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1689	8.850	49.04	10.89	0.4726	Good
2	1690	4.330	52.83	9.22	0.2109	Good
3	1691	7.500	55.48	6.85	0.2850	Inferior
4	1692	7.460	60.55	7.89	0.3566	Inferior
5	1693	7.230	59.67	5.97	0.2574	Inferior
6	1694	4.380	54.05	10.21	0.2418	Good
7	1601	9.180	55.87	11.88	0.6096	Good
8	1602	8.290	49.02	15.14	0.6151	Good
9	1603	10.360	52.03	12.78	0.6889	Good
10	1604	8.310	50.93	12.10	0.5119	Good
11	1605	8.380	52.72	12.25	0.5413	Good
12	1606	9.700	52.31	15.52	0.7876	Good
13	1607	9.480	53.06	13.29	0.6683	Good
14	1621	9.840	57.01	12.68	0.7114	Good
15	1622	9.850	52.50	16.27	0.8412	Good
16	1623	4.760	55.37	16.69	0.4398	Good
17	1624	7.960	64.57	13.12	0.6742	Good
18	1625	4.820	56.86	12.93	0.3543	Good
19	1626	10.050	56.28	14.66	0.8291	Good
20	1633	7.960	48.12	13.99	0.5357	Good
21	1634	8.210	62.83	15.12	0.7800	Good
22	1635	8.970	50.24	13.52	0.6091	Good
23	1636	7.910	51.31	13.92	0.5648	Good
24	1637	8.510	49.67	13.31	0.5625	Good
25	1638	8.440	49.68	13.61	0.5705	Good
26	1649	4.020	52.64	10.96	0.2320	Good
27	1650	9.530	49.42	14.25	0.6709	Good
28	1651	9.560	49.57	14.44	0.6845	Good
29	1652	5.020	50.26	12.57	0.3173	Good
30	1653	4.150	52.14	13.96	0.3021	Good
31	1654	2.790	56.45	13.66	0.2151	Good
32	1655	3.990	48.58	6.63	0.1285	Inferior
33	1663	9.460	53.86	7.76	0.3954	Inferior
34	1664	7.560	51.65	9.60	0.3750	Good

35	1665	4.740	49.76	10.53	0.2484	Good
36	1666	3.570	53.51	10.99	0.2099	Good
37	1667	3.840	46.68	10.52	0.1885	Good
38	1673	3.960	55.75	9.52	0.2103	Good
39	1674	4.050	48.14	14.60	0.2847	Good
40	1675	3.650	48.05	12.11	0.2124	Good
41	1676	4.430	52.42	10.21	0.2370	Good
42	1677	9.810	49.86	7.50	0.3669	Inferior
43	1678	4.780	58.65	8.32	0.2333	Inferior
44	1679	9.970	52.19	10.29	0.5354	Good
45	1680	8.030	66.41	14.38	0.7669	Good
46	1695	7.650	55.88	8.00	0.3420	Inferior
47	1696	7.320	56.54	7.18	0.2972	Inferior
48	1697	4.620	54.15	5.91	0.1478	Inferior
49	1698	7.180	55.83	7.40	0.2965	Inferior
50	1699	4.800	52.29	9.06	0.2275	Good
51	1700	4.360	51.49	12.93	0.2904	Good
52	1608	9.600	50.98	12.30	0.6019	Good
53	1609	4.900	53.13	12.48	0.3249	Good
54	1610	8.030	54.88	14.07	0.6199	Good
55	1611	5.110	59.54	9.99	0.3040	Good
56	1612	5.140	54.33	11.91	0.3326	Good
57	1613	4.860	56.63	11.88	0.3271	Good
58	1614	9.890	53.77	12.13	0.6448	Good
59	1627	8.100	55.92	15.40	0.6974	Good
60	1628	8.400	57.17	13.49	0.6476	Good
61	1629	4.500	63.39	15.74	0.4491	Good
62	1630	7.270	63.91	15.30	0.7110	Good
63	1631	3.560	47.89	11.23	0.1915	Good
64	1632	8.840	51.76	9.85	0.4508	Good
65	1639	9.640	49.34	10.92	0.5196	Good
66	1640	9.950	49.34	14.65	0.7194	Good
67	1641	7.620	59.24	11.88	0.5364	Good
68	1642	7.440	49.84	12.92	0.4791	Good
69	1643	4.720	45.59	15.49	0.3332	Good
70	1644	8.520	49.00	14.22	0.5938	Good
71	1656	4.910	50.40	7.72	0.1910	Inferior
72	1657	3.880	65.21	15.17	0.3837	Good
73	1658	4.970	51.84	10.82	0.2788	Good
74	1659	8.510	55.92	7.74	0.3685	Inferior

75	1660	7.940	50.36	10.23	0.4089	Good
76	1661	4.320	51.48	9.17	0.2039	Good
77	1662	4.530	48.23	9.21	0.2011	Good
78	1668	3.940	50.42	8.45	0.1678	Inferior
79	1669	3.850	49.87	9.89	0.1898	Good
80	1670	3.920	47.45	10.71	0.1991	Good
81	1671	4.880	54.89	10.24	0.2743	Good
82	1672	7.380	55.76	10.65	0.4384	Good
83	1681	9.770	53.38	10.21	0.5325	Good
84	1682	7.920	51.24	12.82	0.5203	Good
85	1683	8.330	55.38	7.96	0.3674	Inferior
86	1684	10.070	48.77	9.78	0.4803	Good
87	1685	9.840	48.44	11.02	0.5255	Good
88	1686	4.580	52.59	12.78	0.3078	Good
89	1687	7.370	50.96	13.70	0.5144	Good
90	1688	7.670	52.15	8.34	0.3336	Inferior
91	1615	10.090	55.04	14.34	0.7961	Good
92	1616	10.170	54.88	15.56	0.8685	Good
93	1617	4.950	54.57	13.60	0.3673	Good
94	1618	9.370	52.02	12.25	0.5969	Good
95	1619	4.740	57.32	14.34	0.3896	Good
96	1620	5.010	60.76	14.14	0.4304	Good
97	1645	4.000	58.23	10.48	0.2440	Good
98	1646	7.560	49.02	15.52	0.5753	Good
99	1647	3.550	55.39	11.86	0.2332	Good
100	1648	3.730	50.69	13.51	0.2555	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 28/397**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2777	4.970	53.19	6.79	0.1794	Inferior
2	2778	4.730	52.12	9.17	0.2261	Good
3	2779	5.050	46.70	13.06	0.3081	Good
4	2780	7.970	50.59	10.30	0.4152	Good
5	2781	7.960	48.05	10.91	0.4171	Good
6	2782	5.090	53.08	7.95	0.2148	Inferior
7	2701	4.770	51.80	14.32	0.3539	Good
8	2702	4.620	55.89	7.46	0.1927	Inferior
9	2703	4.700	50.23	12.22	0.2886	Good
10	2704	5.320	57.92	7.79	0.2399	Inferior
11	2705	5.270	56.94	7.92	0.2377	Inferior

12	2706	4.630	54.06	8.14	0.2037	Inferior
13	2707	10.000	58.92	0.19	0.0110	Inferior
14	2720	7.420	51.29	11.76	0.4474	Good
15	2721	7.220	52.56	11.15	0.4231	Good
16	2722	8.640	46.43	13.07	0.5244	Good
17	2723	7.200	49.87	12.85	0.4615	Good
18	2724	4.280	49.19	12.16	0.2559	Good
19	2725	7.420	49.55	12.15	0.4467	Good
20	2726	8.510	49.35	9.83	0.4127	Good
21	2734	7.980	48.73	12.48	0.4852	Good
22	2735	8.890	49.59	13.05	0.5752	Good
23	2736	4.150	53.26	11.27	0.2490	Good
24	2737	4.620	58.37	11.41	0.3077	Good
25	2738	4.420	50.86	12.90	0.2900	Good
26	2739	4.590	50.43	14.97	0.3465	Good
27	2740	7.570	49.44	14.58	0.5458	Good
28	2748	7.460	55.08	13.42	0.5513	Good
29	2749	7.670	52.35	16.73	0.6719	Good
30	2750	7.470	51.00	13.51	0.5147	Good
31	2751	8.580	54.80	14.96	0.7036	Good
32	2752	4.380	56.08	15.85	0.3894	Good
33	2753	7.340	55.16	13.94	0.5644	Good
34	2760	7.780	54.68	14.61	0.6216	Good
35	2761	8.950	62.19	13.97	0.7778	Good
36	2762	7.700	49.30	15.90	0.6037	Good
37	2763	8.060	52.29	10.73	0.4522	Good
38	2764	9.460	50.86	10.26	0.4938	Good
39	2765	4.390	48.17	14.88	0.3148	Good
40	2789	4.920	50.76	9.63	0.2406	Good
41	2790	7.930	49.21	10.59	0.4132	Good
42	2791	4.880	49.33	11.43	0.2752	Good
43	2792	4.280	52.04	11.43	0.2547	Good
44	2793	7.570	52.82	12.17	0.4868	Good
45	2794	4.510	49.14	10.79	0.2390	Good
46	2783	4.950	43.98	10.62	0.2312	Good
47	2784	4.740	53.11	9.57	0.2408	Good
48	2785	4.710	60.52	13.81	0.3938	Good
49	2786	4.930	48.34	9.68	0.2307	Good
50	2787	4.930	51.97	12.55	0.3214	Good
51	2788	4.990	61.32	7.06	0.2161	Inferior



52	2708	4.610	46.03	10.67	0.2264	Good
53	2709	3.800	47.47	12.01	0.2166	Good
54	2710	4.310	48.71	12.01	0.2521	Good
55	2711	8.790	51.04	10.66	0.4782	Good
56	2712	7.010	46.91	12.15	0.3996	Good
57	2713	7.250	45.27	15.93	0.5227	Good
58	2714	8.700	52.48	9.76	0.4454	Good
59	2727	3.660	48.96	11.15	0.1998	Good
60	2728	3.610	49.04	11.15	0.1975	Good
61	2729	3.590	47.24	12.87	0.2183	Good
62	2730	3.580	51.35	14.22	0.2613	Good
63	2731	4.550	62.72	11.89	0.3394	Good
64	2732	8.800	51.59	15.12	0.6864	Good
65	2733	8.610	51.63	12.88	0.5726	Good
66	2741	3.570	53.77	14.04	0.2695	Good
67	2742	3.900	48.75	10.28	0.1954	Good
68	2743	3.620	52.46	11.72	0.2226	Good
69	2744	3.550	54.47	12.56	0.2428	Good
70	2745	3.970	49.77	13.06	0.2581	Good
71	2746	7.230	52.30	14.36	0.5430	Good
72	2747	8.610	57.76	11.05	0.5493	Good
73	2754	6.920	56.28	16.56	0.6449	Good
74	2755	4.680	55.70	15.78	0.4114	Good
75	2756	8.570	59.14	12.58	0.6376	Good
76	2757	3.950	55.30	14.65	0.3200	Good
77	2758	3.610	56.07	16.57	0.3354	Good
78	2759	7.380	57.49	15.52	0.6583	Good
79	2766	7.850	59.60	15.57	0.7285	Good
80	2767	4.980	50.51	8.43	0.2121	Inferior
81	2768	4.800	59.52	15.20	0.4344	Good
82	2769	4.740	61.54	13.93	0.4062	Good
83	2770	4.820	48.70	9.08	0.2130	Good
84	2771	7.620	59.23	15.77	0.7117	Good
85	2795	5.770	49.12	9.75	0.2764	Good
86	2796	4.840	51.65	10.36	0.2589	Good
87	2797	9.080	49.32	12.85	0.5757	Good
88	2798	7.630	51.81	10.79	0.4265	Good
89	2799	4.260	51.59	9.77	0.2147	Good
90	2800	7.920	51.84	12.40	0.5093	Good
91	2715	4.440	50.39	13.91	0.3112	Good

92	2716	4.740	58.59	9.34	0.2593	Good
93	2717	8.540	49.64	9.47	0.4014	Good
94	2718	8.680	49.40	10.87	0.4661	Good
95	2719	7.320	50.30	11.23	0.4136	Good
96	2772	8.050	50.54	10.11	0.4114	Good
97	2773	5.290	51.74	9.34	0.2555	Good
98	2774	5.430	49.13	10.46	0.2791	Good
99	2775	4.700	49.90	7.56	0.1772	Inferior
100	2776	4.860	47.19	7.80	0.1788	Inferior

DATE: 02.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 34/452**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3389	5.060	61.25	14.58	0.4519	Good
2	3390	8.030	59.27	10.36	0.4930	Good
3	3391	8.010	56.30	9.54	0.4301	Good
4	3392	4.820	59.25	11.29	0.3225	Good
5	3393	4.220	56.29	11.07	0.2629	Good
6	3394	9.520	57.15	13.61	0.7407	Good
7	3308	7.100	54.07	10.97	0.4210	Good
8	3309	7.210	58.14	9.91	0.4153	Good
9	3310	7.960	63.72	11.69	0.5930	Good
10	3311	7.700	60.24	9.46	0.4389	Good
11	3312	9.710	59.07	10.92	0.6263	Good
12	3313	3.610	55.43	13.15	0.2632	Good
13	3314	3.980	55.18	10.73	0.2356	Good
14	3322	4.640	62.63	10.75	0.3123	Good
15	3323	4.020	52.59	8.08	0.1709	Inferior
16	3324	7.590	50.89	7.72	0.2983	Inferior
17	3325	4.510	52.99	11.02	0.2634	Good
18	3326	4.560	59.33	9.56	0.2586	Good
19	3327	7.380	58.64	11.08	0.4797	Good
20	3328	4.810	62.11	5.83	0.1741	Inferior
21	3336	4.360	55.01	8.20	0.1966	Inferior
22	3337	4.550	56.33	8.45	0.2166	Inferior
23	3338	8.180	56.69	9.58	0.4442	Good
24	3339	7.940	50.66	12.40	0.4986	Good
25	3340	8.090	56.99	6.93	0.3196	Inferior
26	3341	7.750	57.66	9.45	0.4224	Good
27	3342	4.760	63.85	13.11	0.3984	Good
28	3354	7.720	58.21	9.41	0.4231	Good
29	3355	4.850	57.35	9.26	0.2575	Good
30	3356	4.850	55.60	9.84	0.2653	Good
31	3357	8.030	52.97	10.10	0.4296	Good
32	3358	4.870	57.76	9.75	0.2742	Good
33	3359	9.600	58.79	7.89	0.4454	Inferior
34	3366	8.060	61.27	10.49	0.5183	Good

35	3367	9.790	62.76	8.08	0.4964	Inferior
36	3368	4.810	60.32	9.91	0.2876	Good
37	3369	4.490	56.09	10.11	0.2546	Good
38	3370	7.650	57.83	9.94	0.4399	Good
39	3376	4.960	56.06	10.54	0.2931	Good
40	3377	4.920	56.09	9.63	0.2657	Good
41	3378	9.400	55.69	10.65	0.5574	Good
42	3379	4.850	63.19	14.40	0.4414	Good
43	3380	9.420	60.61	10.51	0.6001	Good
44	3381	8.100	57.16	10.43	0.4828	Good
45	3382	5.010	56.60	9.59	0.2720	Good
46	3395	3.810	61.16	14.78	0.3444	Good
47	3396	4.670	51.77	6.74	0.1630	Inferior
48	3397	3.710	50.94	8.13	0.1536	Inferior
49	3398	7.250	53.98	8.67	0.3393	Inferior
50	3399	4.460	58.56	10.66	0.2783	Good
51	3400	2.210	52.23	10.43	0.1204	Good
52	3301	3.660	58.74	11.05	0.2375	Good
53	3302	3.890	56.56	11.17	0.2458	Good
54	3303	3.700	54.82	13.66	0.2771	Good
55	3304	3.930	57.70	12.37	0.2806	Good
56	3305	4.180	58.16	9.15	0.2224	Good
57	3306	9.630	61.08	9.68	0.5691	Good
58	3307	7.710	55.39	7.85	0.3354	Inferior
59	3315	3.970	56.86	12.59	0.2843	Good
60	3316	3.980	61.82	9.22	0.2269	Good
61	3317	7.470	56.33	11.79	0.4960	Good
62	3318	1.230	61.12	12.45	0.0936	Good
63	3319	7.400	57.13	11.55	0.4884	Good
64	3320	4.360	54.17	9.93	0.2346	Good
65	3321	7.740	51.60	13.70	0.5472	Good
66	3329	4.600	51.71	11.06	0.2631	Good
67	3330	7.500	57.67	6.52	0.2820	Inferior
68	3331	4.850	52.03	9.36	0.2362	Good
69	3332	4.750	53.89	11.13	0.2850	Good
70	3333	8.170	63.53	7.57	0.3930	Inferior
71	3334	9.340	50.79	7.38	0.3503	Inferior
72	3335	4.550	57.08	9.58	0.2489	Good
73	3343	7.980	54.90	9.85	0.4317	Good
74	3344	7.600	54.56	12.52	0.5191	Good

75	3345	9.910	53.81	9.96	0.5312	Good
76	3346	8.220	50.12	11.13	0.4587	Good
77	3347	7.800	52.65	9.99	0.4103	Good
78	3348	4.220	59.40	7.37	0.1848	Inferior
79	3360	8.440	56.47	8.23	0.3925	Inferior
80	3361	4.050	60.42	15.06	0.3686	Good
81	3362	4.070	51.10	13.42	0.2792	Good
82	3363	8.240	65.82	14.51	0.7869	Good
83	3364	4.850	52.73	11.45	0.2929	Good
84	3365	8.110	52.94	10.29	0.4420	Good
85	3383	9.260	48.66	13.44	0.6056	Good
86	3384	3.960	55.48	10.90	0.2396	Good
87	3385	9.440	54.71	10.47	0.5409	Good
88	3386	4.230	53.21	13.93	0.3134	Good
89	3387	7.460	55.60	11.51	0.4774	Good
90	3388	5.070	52.35	12.38	0.3285	Good
91	3349	8.070	50.68	13.63	0.5576	Good
92	3350	7.920	58.60	10.63	0.4934	Good
93	3351	4.730	50.87	10.83	0.2606	Good
94	3352	8.340	47.90	12.11	0.4837	Good
95	3353	7.710	62.33	14.31	0.6877	Good
96	3371	9.590	56.58	9.51	0.5159	Good
97	3372	9.190	50.04	16.95	0.7793	Good
98	3373	7.320	48.92	10.77	0.3858	Good
99	3374	7.680	50.47	11.17	0.4332	Good
100	3375	8.070	51.83	11.38	0.4761	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 46/517**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4567	3.540	53.27	11.73	0.2213	Good
2	4568	3.610	55.48	13.23	0.2650	Good
3	4569	3.950	60.72	10.24	0.2457	Good
4	4570	4.660	54.52	11.13	0.2829	Good
5	4571	4.430	55.62	10.52	0.2592	Good
6	4572	4.130	58.69	10.63	0.2577	Good
7	4573	4.860	55.01	11.74	0.3140	Good
8	4501	3.950	63.81	9.26	0.2334	Good
9	4502	4.280	48.02	11.81	0.2427	Good
10	4503	7.370	61.04	10.32	0.4643	Good
11	4504	7.710	51.91	10.54	0.4217	Good

12	4505	4.520	55.04	11.50	0.2861	Good
13	4506	7.880	63.96	9.35	0.4712	Good
14	4507	7.460	59.24	10.57	0.4670	Good
15	4515	7.990	46.29	14.13	0.5225	Good
16	4516	4.810	46.88	11.73	0.2646	Good
17	4517	4.800	56.14	9.28	0.2501	Good
18	4518	4.520	53.15	11.06	0.2658	Good
19	4519	7.610	57.98	7.09	0.3128	Inferior
20	4520	8.150	51.80	9.94	0.4197	Good
21	4521	7.730	56.53	8.05	0.3517	Inferior
22	4529	7.530	62.43	9.90	0.4654	Good
23	4530	8.130	61.97	9.89	0.4984	Good
24	4531	4.810	51.90	11.64	0.2905	Good
25	4532	4.470	53.11	9.96	0.2365	Good
26	4533	7.620	46.07	13.52	0.4747	Good
27	4534	8.220	52.23	10.68	0.4587	Good
28	4535	4.330	52.75	10.67	0.2438	Good
29	4536	7.130	51.07	13.39	0.4877	Good
30	4551	4.430	56.29	13.00	0.3243	Good
31	4552	7.330	55.73	10.46	0.4273	Good
32	4553	4.470	56.54	10.72	0.2709	Good
33	4554	4.460	58.08	11.36	0.2944	Good
34	4555	9.110	55.63	11.23	0.5694	Good
35	4556	7.440	54.47	11.11	0.4501	Good
36	4557	4.410	57.76	11.50	0.2928	Good
37	4558	4.360	54.37	12.36	0.2930	Good
38	4581	7.260	62.22	10.19	0.4603	Good
39	4582	7.690	57.49	10.63	0.4699	Good
40	4583	7.320	59.89	8.22	0.3601	Inferior
41	4584	4.350	55.16	11.75	0.2819	Good
42	4585	4.650	55.45	9.85	0.2539	Good
43	4586	4.370	58.30	10.53	0.2683	Good
44	4587	3.860	56.90	11.86	0.2606	Good
45	4588	3.520	48.89	13.30	0.2288	Good
46	4574	3.710	61.65	12.36	0.2827	Good
47	4575	4.550	62.31	12.31	0.3490	Good
48	4576	9.410	55.89	8.41	0.4423	Inferior
49	4577	4.050	52.91	5.20	0.1114	Inferior
50	4578	3.830	51.90	9.79	0.1946	Good
51	4579	4.820	60.78	10.00	0.2931	Good

52	4580	4.840	57.41	7.28	0.2023	Inferior
53	4508	4.490	57.62	11.30	0.2923	Good
54	4509	7.630	58.69	9.35	0.4189	Good
55	4510	7.640	58.90	10.02	0.4508	Good
56	4511	3.520	59.77	10.57	0.2225	Good
57	4512	4.490	65.73	10.25	0.3026	Good
58	4513	4.450	63.96	10.38	0.2955	Good
59	4514	3.620	62.51	10.14	0.2295	Good
60	4522	4.740	51.90	13.99	0.3441	Good
61	4523	4.950	55.98	11.13	0.3084	Good
62	4524	8.730	57.87	13.50	0.6818	Good
63	4525	7.670	55.15	13.47	0.5699	Good
64	4526	4.630	55.51	14.14	0.3635	Good
65	4527	7.890	57.02	13.91	0.6257	Good
66	4528	7.530	61.23	11.76	0.5422	Good
67	4537	4.090	50.64	12.64	0.2618	Good
68	4538	9.150	53.38	11.52	0.5627	Good
69	4539	3.690	55.56	10.03	0.2055	Good
70	4540	4.490	60.83	11.05	0.3017	Good
71	4541	7.300	59.01	14.12	0.6081	Good
72	4542	4.700	59.77	8.00	0.2247	Inferior
73	4543	3.940	57.72	13.10	0.2979	Good
74	4544	4.450	58.70	11.60	0.3030	Good
75	4559	4.680	59.78	13.67	0.3824	Good
76	4560	4.600	55.28	10.29	0.2617	Good
77	4561	7.610	57.80	10.64	0.4680	Good
78	4562	4.480	55.12	10.90	0.2692	Good
79	4563	9.450	63.92	9.18	0.5547	Good
80	4564	8.170	59.34	9.49	0.4600	Good
81	4565	7.040	56.89	11.39	0.4562	Good
82	4566	4.490	56.72	9.80	0.2496	Good
83	4593	3.920	51.99	13.18	0.2685	Good
84	4594	4.090	56.02	13.03	0.2986	Good
85	4595	3.650	56.14	14.29	0.2927	Good
86	4596	7.460	60.75	10.29	0.4663	Good
87	4597	3.820	61.54	12.02	0.2827	Good
88	4598	4.250	61.19	12.35	0.3213	Good
89	4599	4.580	59.14	10.89	0.2950	Good
90	4600	7.430	63.11	10.57	0.4956	Good
91	4545	7.520	58.20	12.29	0.5377	Good

92	4546	4.680	53.32	12.12	0.3023	Good
93	4547	4.240	59.19	11.47	0.2879	Good
94	4548	9.450	51.95	13.97	0.6861	Good
95	4549	4.720	53.52	11.49	0.2903	Good
96	4550	4.600	58.19	11.20	0.2999	Good
97	4589	3.970	59.30	9.95	0.2342	Good
98	4590	3.970	61.89	10.11	0.2485	Good
99	4591	3.620	58.03	10.67	0.2241	Good
100	4592	3.780	57.25	9.82	0.2124	Good

DATE: 29.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 48/533**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4761	5.090	62.87	10.72	0.3431	Good
2	4762	4.920	70.48	14.05	0.4871	Good
3	4763	4.260	60.59	12.76	0.3293	Good
4	4764	4.940	56.57	12.21	0.3414	Good
5	4765	4.820	61.14	10.03	0.2955	Good
6	4766	8.090	61.53	9.59	0.4773	Good
7	4767	4.750	64.04	12.09	0.3677	Good
8	4708	4.530	50.77	12.33	0.2836	Good
9	4709	8.940	54.14	12.65	0.6124	Good
10	4710	4.630	60.41	9.07	0.2537	Good
11	4711	9.110	62.55	12.41	0.7069	Good
12	4712	7.600	60.40	11.34	0.5206	Good
13	4713	4.420	56.42	11.73	0.2926	Good
14	4714	3.520	53.70	10.88	0.2056	Good
15	4749	3.850	66.73	6.40	0.1644	Inferior
16	4750	4.440	65.32	9.49	0.2753	Good
17	4751	8.630	70.27	12.48	0.7569	Good
18	4752	8.790	61.47	11.79	0.6373	Good
19	4753	3.640	67.25	9.98	0.2442	Good
20	4754	7.920	63.86	13.11	0.6629	Good
21	4768	5.030	84.35	2.05	0.0870	Inferior
22	4769	4.060	59.63	10.21	0.2473	Good
23	4770	3.880	64.76	9.98	0.2506	Good
24	4771	4.150	56.04	11.65	0.2710	Good
25	4715	7.400	55.43	13.66	0.5602	Good
26	4716	7.380	59.59	12.97	0.5705	Good
27	4717	7.300	58.52	12.24	0.5227	Good
28	4718	9.110	62.23	12.36	0.7006	Good
29	4719	9.210	61.17	12.95	0.7294	Good
30	4720	9.460	61.40	12.74	0.7398	Good
31	4772	3.810	62.37	10.73	0.2549	Good
32	4773	3.770	61.92	13.10	0.3057	Good
33	4774	4.200	58.01	13.46	0.3280	Good
34	4775	4.710	58.35	11.24	0.3090	Good

35	4776	3.950	62.09	9.92	0.2433	Good
36	4777	4.910	57.58	12.94	0.3658	Good
37	4726	8.000	47.13	14.00	0.5280	Good
38	4727	4.020	57.12	15.27	0.3505	Good
39	4728	7.430	61.52	11.17	0.5104	Good
40	4729	4.630	66.28	11.21	0.3440	Good
41	4730	4.610	56.18	12.78	0.3310	Good
42	4731	7.210	61.03	11.80	0.5191	Good
43	4732	8.700	62.36	12.38	0.6716	Good
44	4733	3.570	55.21	10.83	0.2135	Good
45	4734	3.880	64.38	10.72	0.2677	Good
46	4778	4.170	54.81	11.79	0.2694	Good
47	4779	4.170	58.52	10.82	0.2640	Good
48	4780	9.580	65.17	4.94	0.3085	Inferior
49	4781	8.230	62.72	9.47	0.4889	Good
50	4782	8.100	59.66	12.54	0.6059	Good
51	4783	4.440	63.76	10.60	0.3001	Good
52	4784	9.480	72.60	3.40	0.2342	Inferior
53	4701	4.760	65.66	12.35	0.3860	Good
54	4702	4.530	66.39	11.67	0.3511	Good
55	4703	4.260	67.86	7.26	0.2100	Inferior
56	4704	3.960	50.59	13.50	0.2705	Good
57	4705	6.910	53.68	10.12	0.3752	Good
58	4706	7.260	51.44	10.19	0.3804	Good
59	4707	9.170	51.09	11.82	0.5539	Good
60	4755	7.860	61.75	10.09	0.4897	Good
61	4756	7.740	56.72	9.06	0.3978	Good
62	4757	4.720	55.05	9.16	0.2379	Good
63	4758	4.830	55.63	10.53	0.2830	Good
64	4759	4.660	64.30	10.20	0.3057	Good
65	4760	4.580	60.06	12.30	0.3385	Good
66	4785	8.020	63.39	10.76	0.5470	Good
67	4786	4.940	64.55	12.10	0.3858	Good
68	4787	4.610	58.73	9.91	0.2683	Good
69	4788	4.690	63.39	10.41	0.3095	Good
70	4721	8.670	56.78	9.40	0.4630	Good
71	4722	6.750	56.59	10.73	0.4097	Good
72	4723	7.610	58.60	13.33	0.5943	Good
73	4724	9.040	60.65	10.82	0.5930	Good
74	4725	7.410	59.12	11.25	0.4928	Good

75	4789	4.740	59.17	10.29	0.2887	Good
76	4790	4.160	57.71	10.74	0.2579	Good
77	4791	4.150	63.44	10.07	0.2652	Good
78	4792	3.950	61.89	9.90	0.2421	Good
79	4793	4.150	65.98	10.97	0.3005	Good
80	4794	4.790	70.18	3.69	0.1241	Inferior
81	4795	7.960	65.73	11.35	0.5938	Good
82	4735	4.710	60.53	12.16	0.3467	Good
83	4736	8.460	60.34	10.01	0.5110	Good
84	4737	8.850	60.60	10.17	0.5452	Good
85	4738	4.560	62.33	14.01	0.3981	Good
86	4739	4.320	61.86	10.99	0.2938	Good
87	4740	7.680	57.57	13.74	0.6075	Good
88	4741	8.540	63.75	11.29	0.6149	Good
89	4742	4.230	59.48	10.64	0.2678	Good
90	4743	4.580	57.40	12.94	0.3403	Good
91	4796	4.610	66.89	10.66	0.3287	Good
92	4797	4.610	58.53	14.32	0.3863	Good
93	4798	4.540	63.20	11.65	0.3341	Good
94	4799	7.510	62.10	12.56	0.5858	Good
95	4800	4.560	45.18	11.33	0.2335	Good
96	4744	7.400	60.87	10.78	0.4854	Good
97	4745	8.780	62.45	12.11	0.6638	Good
98	4746	4.630	61.56	11.35	0.3236	Good
99	4747	3.970	59.31	12.12	0.2854	Good
100	4748	4.330	58.99	12.24	0.3126	Good

DATE: 28.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 43/514**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4219	4.900	65.77	12.22	0.3940	Good
2	4220	7.390	53.58	13.42	0.5313	Good
3	4221	7.170	54.64	11.75	0.4603	Good
4	4222	8.720	56.56	10.25	0.5058	Good
5	4223	7.380	56.11	10.82	0.4480	Good
6	4224	4.800	59.67	12.27	0.3514	Good
7	4241	4.010	54.49	14.24	0.3112	Good
8	4242	3.690	56.86	10.68	0.2240	Good
9	4243	5.280	59.31	13.64	0.4272	Good
10	4244	7.400	59.76	10.76	0.4758	Good
11	4245	8.550	56.88	11.37	0.5532	Good
12	4246	4.330	63.66	13.04	0.3594	Good
13	4274	4.660	58.09	9.52	0.2577	Good
14	4275	8.010	47.17	9.24	0.3492	Good
15	4276	8.050	52.05	9.07	0.3800	Good
16	4277	8.290	56.75	11.35	0.5339	Good
17	4278	4.660	53.97	8.08	0.2032	Inferior
18	4279	8.090	48.86	7.55	0.2985	Inferior
19	4280	9.310	56.43	9.96	0.5232	Good
20	4201	8.640	55.01	13.22	0.6281	Good
21	4202	9.060	55.80	10.39	0.5255	Good
22	4203	7.540	53.53	10.35	0.4177	Good
23	4204	4.320	55.19	12.86	0.3067	Good
24	4205	7.610	54.16	11.02	0.4543	Good
25	4206	4.220	55.48	9.84	0.2304	Good
26	4207	4.270	56.76	9.36	0.2267	Good
27	4281	4.650	57.58	10.73	0.2874	Good
28	4282	3.940	56.91	8.07	0.1808	Inferior
29	4283	4.050	56.61	9.49	0.2175	Good
30	4284	10.060	54.33	10.47	0.5724	Good
31	4285	9.800	57.59	10.07	0.5684	Good
32	4286	4.820	55.66	10.04	0.2694	Good
33	4287	4.910	53.79	12.64	0.3339	Good
34	4208	7.160	54.30	8.36	0.3251	Inferior

35	4209	7.060	53.01	10.87	0.4067	Good
36	4210	4.670	53.18	10.79	0.2681	Good
37	4211	4.330	52.71	9.26	0.2113	Good
38	4212	6.890	53.28	9.38	0.3445	Good
39	4288	5.050	56.64	9.55	0.2732	Good
40	4289	8.120	53.83	11.29	0.4937	Good
41	4290	4.160	60.47	9.15	0.2300	Good
42	4291	4.090	58.88	9.32	0.2245	Good
43	4292	4.040	56.98	9.48	0.2182	Good
44	4293	4.010	58.40	9.97	0.2334	Good
45	4294	4.120	51.15	9.99	0.2105	Good
46	4213	4.620	54.71	10.16	0.2569	Good
47	4214	3.570	55.07	11.69	0.2299	Good
48	4215	3.670	55.88	11.29	0.2316	Good
49	4216	3.520	54.50	10.50	0.2013	Good
50	4217	3.540	56.71	10.93	0.2195	Good
51	4218	4.730	53.04	14.76	0.3704	Good
52	4247	7.500	53.51	13.38	0.5370	Good
53	4248	7.090	57.75	10.53	0.4311	Good
54	4249	7.050	59.05	13.11	0.5457	Good
55	4250	7.280	58.16	11.52	0.4878	Good
56	4251	3.880	59.12	11.03	0.2530	Good
57	4252	3.780	63.19	7.98	0.1905	Inferior
58	4253	7.980	49.82	9.65	0.3838	Good
59	4295	4.740	54.63	10.20	0.2640	Good
60	4296	7.990	53.52	9.57	0.4091	Good
61	4297	8.020	54.85	10.57	0.4652	Good
62	4298	9.350	51.10	10.00	0.4778	Good
63	4299	3.930	54.70	10.69	0.2299	Good
64	4300	5.080	55.90	12.16	0.3454	Good
65	4225	4.200	56.21	12.63	0.2982	Good
66	4226	4.500	55.76	14.38	0.3609	Good
67	4227	4.620	55.51	10.39	0.2666	Good
68	4228	7.330	54.97	12.57	0.5065	Good
69	4229	8.340	52.99	11.61	0.5129	Good
70	4230	6.880	54.57	11.21	0.4211	Good
71	4254	9.570	54.70	9.36	0.4900	Good
72	4255	4.430	48.96	7.25	0.1573	Inferior
73	4256	9.600	47.01	9.38	0.4234	Good
74	4257	4.400	47.47	10.66	0.2226	Good

75	4258	4.570	55.04	7.03	0.1769	Inferior
76	4259	7.730	53.17	8.22	0.3378	Inferior
77	4260	3.520	51.54	7.95	0.1443	Inferior
78	4261	4.610	49.16	8.10	0.1835	Inferior
79	4231	7.460	55.76	10.87	0.4521	Good
80	4232	8.530	54.67	12.97	0.6048	Good
81	4233	8.280	59.60	9.36	0.4620	Good
82	4234	4.490	54.25	9.51	0.2317	Good
83	4235	7.550	56.08	10.70	0.4530	Good
84	4262	4.820	51.71	10.42	0.2598	Good
85	4263	7.940	55.65	9.06	0.4002	Good
86	4264	7.850	53.51	8.02	0.3368	Inferior
87	4265	4.030	50.74	10.13	0.2071	Good
88	4266	9.840	55.51	10.14	0.5540	Good
89	4267	7.930	53.48	9.84	0.4171	Good
90	4268	4.700	54.55	10.39	0.2665	Good
91	4236	9.590	56.96	12.39	0.6771	Good
92	4237	8.980	55.79	12.46	0.6241	Good
93	4238	4.280	55.44	11.96	0.2838	Good
94	4239	4.020	53.73	14.16	0.3059	Good
95	4240	3.650	54.11	13.93	0.2752	Good
96	4269	7.490	56.46	9.87	0.4172	Good
97	4270	5.130	54.96	10.84	0.3057	Good
98	4271	8.050	54.81	11.07	0.4886	Good
99	4272	9.450	55.68	6.50	0.3421	Inferior
100	4273	9.530	59.14	9.05	0.5099	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 47/518**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4608	3.910	62.79	9.78	0.2401	Good
2	4609	3.660	59.99	10.27	0.2255	Good
3	4610	4.140	59.71	10.02	0.2476	Good
4	4611	3.730	64.01	9.78	0.2335	Good
5	4612	3.680	56.51	10.55	0.2193	Good
6	4613	4.580	58.57	10.64	0.2853	Good
7	4614	4.440	67.24	10.68	0.3188	Good
8	4648	4.230	60.07	11.62	0.2953	Good
9	4649	7.660	58.85	11.57	0.5216	Good
10	4650	4.130	61.23	11.82	0.2990	Good
11	4651	3.600	60.38	13.66	0.2970	Good

12	4652	7.710	63.15	11.89	0.5790	Good
13	4653	3.600	60.59	12.08	0.2635	Good
14	4678	4.480	58.24	10.54	0.2751	Good
15	4679	4.140	55.09	10.75	0.2451	Good
16	4680	3.810	56.40	10.57	0.2271	Good
17	4681	4.620	65.47	10.77	0.3257	Good
18	4682	7.670	63.27	11.85	0.5753	Good
19	4622	4.180	54.17	12.79	0.2897	Good
20	4623	4.330	48.73	12.85	0.2711	Good
21	4624	7.660	56.04	11.31	0.4856	Good
22	4625	4.810	45.42	12.70	0.2775	Good
23	4626	4.340	52.84	13.80	0.3164	Good
24	4627	7.430	48.74	12.95	0.4688	Good
25	4628	4.290	52.72	9.83	0.2222	Good
26	4660	3.540	63.23	11.81	0.2644	Good
27	4661	4.380	61.11	14.27	0.3819	Good
28	4662	3.960	65.41	10.30	0.2669	Good
29	4663	7.670	67.96	9.05	0.4717	Good
30	4664	7.520	49.47	11.12	0.4136	Good
31	4665	4.120	51.18	12.64	0.2666	Good
32	4666	4.350	59.81	10.75	0.2797	Good
33	4683	4.470	58.16	12.28	0.3192	Good
34	4684	4.250	61.43	12.52	0.3268	Good
35	4685	4.430	61.14	11.38	0.3083	Good
36	4686	4.330	56.82	10.93	0.2689	Good
37	4687	4.520	65.40	9.34	0.2762	Good
38	4688	4.800	62.55	10.33	0.3101	Good
39	4636	7.520	59.27	10.39	0.4632	Good
40	4637	3.570	60.26	9.94	0.2138	Good
41	4638	4.380	55.24	12.55	0.3035	Good
42	4639	7.860	57.39	10.45	0.4716	Good
43	4640	4.160	58.96	11.87	0.2912	Good
44	4641	4.440	58.38	11.46	0.2970	Good
45	4642	4.400	60.63	13.46	0.3590	Good
46	4601	4.540	58.54	9.46	0.2515	Good
47	4602	7.090	60.10	10.85	0.4623	Good
48	4603	7.450	57.89	12.99	0.5602	Good
49	4604	4.320	57.73	11.14	0.2778	Good
50	4605	3.970	62.92	10.19	0.2545	Good
51	4606	3.840	56.61	10.97	0.2385	Good

52	4607	3.710	59.36	11.00	0.2423	Good
53	4654	3.870	56.70	12.72	0.2790	Good
54	4655	3.840	53.91	12.32	0.2550	Good
55	4656	3.690	61.51	13.33	0.3026	Good
56	4657	3.680	58.80	10.05	0.2175	Good
57	4658	4.310	61.13	10.16	0.2677	Good
58	4659	4.210	56.86	10.66	0.2551	Good
59	4689	4.400	56.42	10.40	0.2583	Good
60	4690	4.380	54.85	13.42	0.3224	Good
61	4691	9.450	55.11	9.87	0.5141	Good
62	4692	9.200	59.12	11.98	0.6514	Good
63	4693	7.550	55.28	12.10	0.5051	Good
64	4694	4.090	55.44	11.96	0.2712	Good
65	4615	7.450	61.40	10.75	0.4917	Good
66	4616	4.520	59.34	13.01	0.3489	Good
67	4617	7.790	61.92	10.55	0.5087	Good
68	4618	7.360	61.38	11.97	0.5410	Good
69	4619	7.720	58.98	11.80	0.5373	Good
70	4620	3.900	67.53	12.14	0.3198	Good
71	4621	4.300	60.98	10.68	0.2799	Good
72	4667	7.480	58.04	13.37	0.5804	Good
73	4668	7.580	55.66	14.05	0.5928	Good
74	4669	4.100	49.41	12.18	0.2468	Good
75	4670	9.600	53.97	12.51	0.6480	Good
76	4671	4.380	49.67	13.81	0.3005	Good
77	4672	4.390	58.09	15.56	0.3969	Good
78	4695	7.340	59.35	13.73	0.5982	Good
79	4696	3.910	58.40	11.83	0.2702	Good
80	4697	4.140	56.30	12.29	0.2865	Good
81	4698	4.580	65.31	12.85	0.3843	Good
82	4699	4.340	58.35	14.53	0.3680	Good
83	4700	5.010	59.22	12.12	0.3597	Good
84	4629	5.120	60.21	12.22	0.3768	Good
85	4630	4.610	52.61	12.60	0.3056	Good
86	4631	4.560	49.52	13.07	0.2950	Good
87	4632	4.650	50.58	13.70	0.3222	Good
88	4633	2.040	56.54	14.80	0.1707	Good
89	4634	7.410	59.48	13.28	0.5854	Good
90	4635	4.270	53.81	12.45	0.2861	Good
91	4643	4.460	56.28	12.65	0.3176	Good



92	4644	4.420	58.06	11.71	0.3006	Good
93	4645	4.230	60.63	12.25	0.3143	Good
94	4646	4.550	54.28	12.99	0.3208	Good
95	4647	4.800	59.89	11.92	0.3427	Good
96	4673	4.350	51.75	13.31	0.2997	Good
97	4674	7.760	50.53	12.47	0.4889	Good
98	4675	7.380	54.39	14.19	0.5697	Good
99	4676	7.700	53.79	13.37	0.5536	Good
100	4677	7.750	51.27	11.90	0.4728	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 49/534**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4834	7.740	52.45	9.44	0.3831	Good
2	4835	4.700	54.28	9.38	0.2392	Good
3	4836	7.920	58.64	10.95	0.5085	Good
4	4837	4.600	55.27	12.92	0.3284	Good
5	4838	4.720	54.12	11.86	0.3030	Good
6	4839	3.630	54.45	15.28	0.3020	Good
7	4840	3.670	52.54	13.72	0.2646	Good
8	4862	4.810	53.87	6.91	0.1789	Inferior
9	4863	6.910	52.44	9.19	0.3331	Good
10	4864	4.180	55.88	11.29	0.2638	Good
11	4865	4.370	54.56	11.79	0.2810	Good
12	4866	7.800	54.37	9.27	0.3931	Good
13	4867	3.780	52.50	10.10	0.2003	Good
14	4891	3.720	54.57	11.93	0.2422	Good
15	4892	3.660	53.13	9.66	0.1878	Good
16	4893	3.640	52.66	12.63	0.2421	Good
17	4894	7.530	53.83	10.92	0.4428	Good
18	4895	4.340	56.40	9.77	0.2391	Good
19	4801	4.510	52.99	7.81	0.1867	Inferior
20	4802	4.500	49.19	7.79	0.1724	Inferior
21	4803	7.480	52.94	7.69	0.3044	Inferior
22	4804	4.770	61.30	13.74	0.4016	Good
23	4805	4.640	61.44	10.40	0.2965	Good
24	4806	7.190	50.10	11.22	0.4041	Good
25	4807	4.640	52.58	10.31	0.2515	Good
26	4841	3.750	55.05	11.53	0.2381	Good
27	4842	4.010	58.23	10.13	0.2366	Good
28	4843	3.940	53.00	12.26	0.2561	Good

29	4844	4.220	53.71	10.82	0.2452	Good
30	4845	4.420	56.70	12.42	0.3112	Good
31	4846	4.270	58.26	9.73	0.2421	Good
32	4847	7.050	54.21	12.84	0.4907	Good
33	4848	4.720	54.33	12.15	0.3115	Good
34	4896	7.340	57.64	11.94	0.5050	Good
35	4897	8.640	58.77	11.64	0.5910	Good
36	4898	4.380	55.43	11.42	0.2773	Good
37	4899	4.500	53.05	14.16	0.3380	Good
38	4900	4.650	55.34	11.04	0.2841	Good
39	4808	9.250	55.85	9.26	0.4782	Good
40	4809	3.920	53.26	7.44	0.1552	Inferior
41	4810	7.370	55.09	11.00	0.4466	Good
42	4811	4.850	53.32	10.47	0.2706	Good
43	4812	7.120	55.29	12.52	0.4927	Good
44	4813	7.590	53.91	11.09	0.4539	Good
45	4814	4.860	61.62	10.22	0.3062	Good
46	4849	7.760	57.08	11.14	0.4935	Good
47	4850	7.370	56.21	11.65	0.4827	Good
48	4851	3.760	58.24	10.37	0.2271	Good
49	4852	3.720	57.49	10.38	0.2221	Good
50	4853	4.200	60.68	9.95	0.2537	Good
51	4854	3.690	63.38	14.12	0.3303	Good
52	4868	4.330	55.29	10.74	0.2572	Good
53	4869	7.630	53.81	12.04	0.4944	Good
54	4870	4.090	57.97	9.00	0.2135	Good
55	4871	7.190	53.45	10.35	0.3976	Good
56	4872	4.540	56.81	9.95	0.2565	Good
57	4873	9.220	52.94	9.26	0.4518	Good
58	4874	4.410	53.56	11.09	0.2620	Good
59	4886	4.060	53.70	12.68	0.2765	Good
60	4887	1.160	55.58	12.54	0.0809	Good
61	4888	3.710	53.25	13.13	0.2593	Good
62	4889	3.740	55.07	10.82	0.2229	Good
63	4890	3.470	53.27	10.76	0.1988	Good
64	4815	7.780	54.84	8.44	0.3602	Inferior
65	4816	9.810	54.25	9.20	0.4895	Good
66	4817	8.410	54.88	11.04	0.5096	Good
67	4818	4.920	71.78	13.35	0.4713	Good
68	4819	5.130	54.04	11.97	0.3319	Good

69	4820	7.660	53.03	9.67	0.3930	Good
70	4855	6.990	56.80	10.81	0.4292	Good
71	4856	7.980	54.03	7.42	0.3200	Inferior
72	4857	3.820	53.44	9.86	0.2013	Good
73	4858	4.330	53.06	8.05	0.1849	Inferior
74	4859	9.520	63.42	13.37	0.8073	Good
75	4860	3.450	54.77	12.21	0.2308	Good
76	4861	3.900	51.97	9.70	0.1966	Good
77	4879	4.560	57.66	12.94	0.3402	Good
78	4880	8.350	52.34	15.57	0.6805	Good
79	4881	4.450	51.59	10.76	0.2470	Good
80	4882	7.070	54.27	9.66	0.3705	Good
81	4883	4.460	55.23	9.22	0.2270	Good
82	4884	4.630	53.11	11.32	0.2783	Good
83	4885	3.820	53.30	11.07	0.2254	Good
84	4821	4.080	64.11	13.59	0.3554	Good
85	4822	4.060	63.02	14.07	0.3601	Good
86	4823	3.780	52.00	10.79	0.2121	Good
87	4824	3.810	56.06	9.86	0.2107	Good
88	4825	4.410	50.74	12.73	0.2849	Good
89	4826	4.930	55.31	11.81	0.3219	Good
90	4827	7.260	52.16	12.77	0.4835	Good
91	4875	4.560	54.28	11.77	0.2914	Good
92	4876	8.810	53.96	11.66	0.5541	Good
93	4877	3.930	54.74	10.80	0.2323	Good
94	4878	7.320	53.58	9.56	0.3748	Good
95	4828	4.800	53.13	11.41	0.2909	Good
96	4829	7.350	53.51	11.06	0.4351	Good
97	4830	7.200	57.09	10.72	0.4406	Good
98	4831	9.190	57.24	10.80	0.5679	Good
99	4832	7.590	55.84	9.67	0.4099	Good
100	4833	4.720	54.62	11.31	0.2917	Good

DATE: 27.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 54/539**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5339	7.090	58.14	7.74	0.3191	Inferior
2	5340	7.430	58.30	10.09	0.4369	Good
3	5341	7.380	55.72	10.19	0.4192	Good
4	5342	4.750	53.22	11.14	0.2817	Good
5	5343	3.990	56.46	11.62	0.2617	Good
6	5344	3.810	55.25	10.21	0.2149	Good
7	5345	3.920	56.80	9.12	0.2031	Good
8	5370	4.420	55.62	10.61	0.2608	Good
9	5371	7.730	57.58	9.71	0.4321	Good
10	5372	7.720	58.63	12.26	0.5551	Good
11	5373	4.770	55.66	9.16	0.2433	Good
12	5374	4.250	57.95	9.46	0.2329	Good
13	5375	7.630	59.03	9.33	0.4204	Good
14	5301	9.890	57.37	10.27	0.5825	Good
15	5302	7.670	59.69	11.38	0.5208	Good
16	5303	4.590	57.67	11.84	0.3135	Good
17	5304	7.440	56.15	13.77	0.5751	Good
18	5305	4.370	55.68	13.29	0.3234	Good
19	5306	4.400	54.92	11.51	0.2781	Good
20	5307	8.240	61.47	12.71	0.6435	Good
21	5346	3.490	59.39	9.23	0.1913	Good
22	5347	4.060	53.53	12.01	0.2611	Good
23	5348	7.240	57.01	9.75	0.4025	Good
24	5349	4.520	56.17	10.50	0.2667	Good
25	5350	7.240	59.35	8.14	0.3497	Inferior
26	5351	8.610	57.52	10.55	0.5226	Good
27	5376	9.290	57.48	12.56	0.6707	Good
28	5377	7.710	60.10	9.30	0.4310	Good
29	5378	7.690	57.05	11.57	0.5075	Good
30	5379	9.000	56.50	10.04	0.5103	Good
31	5380	4.400	57.92	10.12	0.2578	Good
32	5381	4.510	57.36	15.97	0.4131	Good
33	5308	4.420	56.65	11.62	0.2908	Good
34	5309	3.980	56.66	12.34	0.2782	Good

35	5310	7.670	58.69	11.86	0.5338	Good
36	5311	4.150	58.09	9.74	0.2349	Good
37	5312	4.160	57.72	13.34	0.3203	Good
38	5313	7.290	56.35	11.66	0.4790	Good
39	5382	4.550	59.06	10.77	0.2894	Good
40	5383	9.330	53.36	14.39	0.7165	Good
41	5384	4.400	55.30	8.23	0.2002	Inferior
42	5385	4.360	61.05	7.98	0.2123	Inferior
43	5386	3.680	56.85	11.98	0.2506	Good
44	5387	7.080	54.68	10.84	0.4198	Good
45	5388	3.740	58.42	10.66	0.2330	Good
46	5314	4.500	57.33	11.15	0.2876	Good
47	5315	7.060	55.98	12.25	0.4843	Good
48	5316	6.550	58.91	8.28	0.3196	Inferior
49	5317	4.310	56.45	11.05	0.2689	Good
50	5318	3.710	57.56	9.26	0.1977	Good
51	5319	3.900	56.57	9.16	0.2020	Good
52	5320	3.600	57.67	7.33	0.1523	Inferior
53	5389	3.770	61.55	10.58	0.2454	Good
54	5390	3.630	56.70	11.01	0.2265	Good
55	5391	3.820	56.73	11.26	0.2441	Good
56	5392	3.810	56.29	10.43	0.2236	Good
57	5393	3.780	60.11	8.09	0.1837	Inferior
58	5394	3.470	59.10	7.28	0.1492	Inferior
59	5321	4.510	59.64	9.21	0.2476	Good
60	5322	4.530	56.25	9.56	0.2437	Good
61	5323	7.550	56.94	6.66	0.2861	Inferior
62	5324	8.410	58.64	11.29	0.5567	Good
63	5325	7.380	55.53	9.54	0.3911	Good
64	5326	8.240	55.14	9.67	0.4392	Good
65	5327	7.620	55.19	11.05	0.4648	Good
66	5352	8.060	54.65	14.77	0.6504	Good
67	5353	4.300	57.92	12.00	0.2989	Good
68	5354	4.610	57.85	11.25	0.3001	Good
69	5355	3.970	58.77	11.18	0.2608	Good
70	5356	3.600	59.26	10.43	0.2225	Good
71	5357	3.940	54.19	13.40	0.2860	Good
72	5395	3.880	58.44	11.58	0.2627	Good
73	5396	7.370	56.65	10.66	0.4451	Good
74	5397	7.940	55.22	10.67	0.4677	Good

75	5398	4.440	53.91	14.00	0.3352	Good
76	5399	7.410	52.82	11.91	0.4661	Good
77	5400	7.610	56.87	12.13	0.5251	Good
78	5328	4.510	53.39	12.27	0.2954	Good
79	5329	7.150	53.75	11.37	0.4369	Good
80	5330	4.230	54.72	12.17	0.2817	Good
81	5331	7.390	55.20	7.97	0.3252	Inferior
82	5332	7.540	62.17	8.43	0.3951	Inferior
83	5333	4.350	53.40	9.33	0.2166	Good
84	5358	3.610	51.39	12.77	0.2368	Good
85	5359	3.510	52.44	13.83	0.2545	Good
86	5360	4.350	56.71	8.23	0.2031	Inferior
87	5361	4.530	54.56	13.91	0.3438	Good
88	5362	3.800	52.65	15.52	0.3105	Good
89	5363	4.230	55.33	11.21	0.2623	Good
90	5364	3.730	56.18	11.07	0.2320	Good
91	5334	4.440	58.20	9.30	0.2402	Good
92	5335	3.870	55.59	9.28	0.1997	Good
93	5336	7.590	53.38	14.39	0.5829	Good
94	5337	4.930	52.45	10.68	0.2761	Good
95	5338	4.180	57.06	10.92	0.2604	Good
96	5365	4.650	55.43	10.61	0.2734	Good
97	5366	3.460	58.61	11.81	0.2394	Good
98	5367	4.510	58.15	11.14	0.2922	Good
99	5368	3.620	53.91	9.03	0.1763	Good
100	5369	4.510	57.72	11.02	0.2868	Good

DATE: 26.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 39/501**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3836	4.240	60.15	9.21	0.2349	Good
2	3837	7.860	55.20	12.03	0.5219	Good
3	3838	4.330	53.12	12.71	0.2923	Good
4	3839	3.540	53.61	12.87	0.2443	Good
5	3840	7.140	55.95	12.01	0.4798	Good
6	3841	4.740	54.92	11.76	0.3062	Good
7	3842	3.670	51.97	8.41	0.1604	Inferior
8	3857	4.840	50.68	10.36	0.2541	Good
9	3858	4.560	53.72	7.73	0.1892	Inferior
10	3859	4.800	62.14	15.19	0.4531	Good
11	3860	4.600	55.25	8.38	0.2130	Inferior
12	3861	7.800	54.70	8.45	0.3604	Inferior
13	3862	4.840	53.95	11.25	0.2938	Good
14	3801	4.960	55.12	10.40	0.2842	Good
15	3802	7.580	54.13	11.86	0.4866	Good
16	3803	9.550	56.27	10.72	0.5759	Good
17	3804	9.570	57.94	12.31	0.6823	Good
18	3805	8.060	53.85	12.61	0.5473	Good
19	3806	4.460	51.09	14.01	0.3193	Good
20	3843	7.170	54.14	9.68	0.3757	Good
21	3844	7.120	57.14	9.47	0.3852	Good
22	3845	4.330	54.22	10.48	0.2459	Good
23	3846	4.330	51.07	10.30	0.2278	Good
24	3847	3.580	58.12	9.21	0.1915	Good
25	3848	3.330	57.76	10.09	0.1941	Good
26	3863	7.970	63.30	6.46	0.3260	Inferior
27	3864	4.750	55.05	9.52	0.2489	Good
28	3865	4.730	56.35	8.98	0.2393	Inferior
29	3866	4.750	54.63	9.81	0.2546	Good
30	3867	4.650	58.92	9.03	0.2474	Good
31	3868	9.960	54.45	10.43	0.5657	Good
32	3807	4.800	55.21	10.52	0.2789	Good
33	3808	7.880	56.25	13.55	0.6005	Good
34	3809	5.280	54.16	13.02	0.3722	Good



35	3810	4.860	54.29	11.57	0.3052	Good
36	3811	10.120	54.22	11.55	0.6335	Good
37	3812	5.050	54.66	11.20	0.3091	Good
38	3869	9.460	54.79	10.02	0.5194	Good
39	3870	4.050	56.19	9.36	0.2130	Good
40	3871	3.460	54.68	9.89	0.1872	Good
41	3872	4.600	54.79	10.62	0.2677	Good
42	3873	4.850	57.07	12.30	0.3405	Good
43	3874	4.690	57.34	9.54	0.2565	Good
44	3875	4.620	57.79	10.54	0.2814	Good
45	3876	4.460	52.75	10.56	0.2484	Good
46	3813	4.640	53.92	7.03	0.1759	Inferior
47	3814	4.030	53.48	9.55	0.2059	Good
48	3815	4.070	55.28	9.64	0.2169	Good
49	3816	4.210	57.30	9.02	0.2177	Good
50	3817	3.740	55.02	10.38	0.2136	Good
51	3818	4.350	56.93	10.28	0.2545	Good
52	3877	7.700	56.61	10.46	0.4558	Good
53	3878	4.600	57.71	10.22	0.2714	Good
54	3879	4.670	55.75	10.60	0.2760	Good
55	3880	3.760	62.94	13.92	0.3294	Good
56	3881	4.830	52.89	12.57	0.3212	Good
57	3819	3.650	53.01	10.41	0.2015	Good
58	3820	4.210	55.23	9.56	0.2223	Good
59	3821	8.270	57.01	10.30	0.4854	Good
60	3822	6.880	56.61	11.22	0.4369	Good
61	3823	4.320	53.46	10.55	0.2436	Good
62	3824	4.470	54.42	7.90	0.1922	Inferior
63	3849	4.240	55.81	11.83	0.2798	Good
64	3850	7.720	56.44	8.15	0.3551	Inferior
65	3851	4.330	57.00	9.33	0.2304	Good
66	3852	3.720	55.47	10.44	0.2154	Good
67	3853	3.450	52.77	12.15	0.2211	Good
68	3854	3.520	55.01	10.58	0.2049	Good
69	3855	4.080	57.19	9.90	0.2309	Good
70	3856	4.330	54.24	13.35	0.3135	Good
71	3882	3.720	54.83	10.20	0.2079	Good
72	3883	3.930	57.69	9.98	0.2264	Good
73	3884	9.840	50.79	15.95	0.7970	Good
74	3885	4.410	56.83	14.46	0.3625	Good

75	3886	9.650	52.78	13.79	0.7025	Good
76	3887	4.690	53.62	13.76	0.3461	Good
77	3825	2.920	55.97	11.42	0.1866	Good
78	3826	4.250	55.11	12.28	0.2877	Good
79	3827	4.000	52.61	11.88	0.2500	Good
80	3828	4.160	51.58	10.93	0.2346	Good
81	3829	4.170	55.20	8.10	0.1864	Inferior
82	3830	8.490	58.68	8.67	0.4321	Inferior
83	3888	7.530	59.91	9.38	0.4232	Good
84	3889	7.720	55.46	10.91	0.4671	Good
85	3890	3.990	58.24	13.55	0.3148	Good
86	3891	4.710	53.93	12.89	0.3273	Good
87	3892	4.100	55.77	14.77	0.3378	Good
88	3893	4.970	57.06	13.79	0.3911	Good
89	3894	7.670	59.01	10.08	0.4564	Good
90	3895	7.750	55.77	9.09	0.3929	Good
91	3831	4.180	54.49	12.42	0.2830	Good
92	3832	3.960	59.01	7.29	0.1703	Inferior
93	3833	3.510	57.58	11.55	0.2334	Good
94	3834	7.350	57.53	11.59	0.4902	Good
95	3835	7.320	54.85	10.26	0.4121	Good
96	3896	4.640	57.15	8.05	0.2134	Inferior
97	3897	4.690	55.54	10.01	0.2608	Good
98	3898	4.810	56.70	7.30	0.1991	Inferior
99	3899	7.960	51.79	8.57	0.3534	Inferior
100	3900	8.110	57.65	8.00	0.3739	Inferior

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 50/535**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4938	7.050	59.46	10.16	0.4258	Good
2	4939	4.390	49.87	15.04	0.3293	Good
3	4940	7.050	72.81	10.11	0.5189	Good
4	4941	4.230	66.83	10.43	0.2948	Good
5	4942	7.500	51.94	12.53	0.4883	Good
6	4943	3.620	64.83	12.56	0.2947	Good
7	4957	4.150	58.86	15.53	0.3793	Good
8	4958	8.530	69.99	12.19	0.7276	Good
9	4959	7.160	74.74	10.97	0.5871	Good
10	4960	8.920	64.27	13.65	0.7823	Good
11	4961	4.820	63.89	12.77	0.3933	Good

12	4901	7.090	74.85	11.13	0.5906	Good
13	4902	6.990	57.15	9.59	0.3831	Good
14	4903	4.750	78.37	9.07	0.3377	Good
15	4904	4.430	55.64	11.20	0.2760	Good
16	4905	7.530	76.65	10.10	0.5828	Good
17	4906	9.120	71.54	9.25	0.6037	Good
18	4944	4.150	72.36	10.56	0.3171	Good
19	4945	7.080	67.93	10.03	0.4821	Good
20	4946	8.540	63.61	9.23	0.5013	Good
21	4947	8.130	60.21	11.68	0.5715	Good
22	4948	7.170	54.55	10.69	0.4180	Good
23	4949	7.320	69.86	9.66	0.4941	Good
24	4950	4.380	78.30	10.75	0.3688	Good
25	4962	5.100	52.68	6.74	0.1811	Inferior
26	4963	7.550	63.59	14.45	0.6938	Good
27	4964	7.520	49.30	9.98	0.3700	Good
28	4965	7.920	54.17	9.97	0.4277	Good
29	4966	4.780	53.77	10.12	0.2600	Good
30	4907	7.520	71.06	10.89	0.5820	Good
31	4908	7.210	65.88	11.63	0.5523	Good
32	4909	8.720	65.44	12.33	0.7037	Good
33	4910	4.150	67.09	10.78	0.3000	Good
34	4911	3.760	66.24	11.56	0.2880	Good
35	4912	3.860	74.69	11.34	0.3269	Good
36	4913	7.570	76.50	9.88	0.5723	Good
37	4967	7.460	52.31	9.10	0.3551	Good
38	4968	3.990	49.83	9.13	0.1815	Good
39	4969	4.040	52.27	10.96	0.2315	Good
40	4970	3.890	68.64	9.19	0.2455	Good
41	4971	4.020	71.08	11.25	0.3216	Good
42	4972	4.490	68.12	9.86	0.3017	Good
43	4973	7.750	66.97	11.72	0.6084	Good
44	4974	9.850	67.24	9.35	0.6196	Good
45	4975	7.850	59.48	9.48	0.4427	Good
46	4914	4.550	69.87	9.65	0.3067	Good
47	4915	4.770	63.67	9.42	0.2862	Good
48	4916	4.450	52.28	7.79	0.1811	Inferior
49	4917	9.310	49.13	9.14	0.4180	Good
50	4918	8.160	52.77	7.31	0.3150	Inferior
51	4919	4.690	53.10	5.25	0.1309	Inferior

52	4976	4.690	70.00	9.71	0.3189	Good
53	4977	4.150	74.40	10.07	0.3108	Good
54	4978	4.120	51.98	12.81	0.2744	Good
55	4979	4.530	72.33	11.34	0.3715	Good
56	4980	4.830	52.07	12.75	0.3207	Good
57	4920	4.140	51.13	10.29	0.2178	Good
58	4921	4.960	47.25	10.39	0.2435	Good
59	4922	3.970	52.70	9.64	0.2017	Good
60	4923	4.290	58.95	3.97	0.1004	Inferior
61	4924	4.460	59.08	5.91	0.1557	Inferior
62	4925	9.350	51.84	10.01	0.4853	Good
63	4951	3.540	68.19	12.07	0.2913	Good
64	4952	7.200	60.27	11.60	0.5033	Good
65	4953	7.030	68.26	11.57	0.5554	Good
66	4954	4.280	66.22	10.36	0.2936	Good
67	4955	7.100	69.98	9.47	0.4707	Good
68	4956	7.160	68.16	13.92	0.6795	Good
69	4981	8.090	68.31	9.09	0.5024	Good
70	4982	4.850	65.89	12.78	0.4084	Good
71	4983	7.450	69.19	10.62	0.5476	Good
72	4984	5.160	70.96	11.47	0.4200	Good
73	4985	8.080	64.93	9.53	0.5002	Good
74	4986	8.830	58.66	12.82	0.6640	Good
75	4926	7.990	51.84	9.30	0.3851	Good
76	4927	7.950	58.67	10.01	0.4667	Good
77	4928	7.950	56.08	7.45	0.3323	Inferior
78	4929	8.070	53.54	8.26	0.3567	Inferior
79	4930	8.270	58.38	9.16	0.4424	Good
80	4931	4.800	56.58	10.39	0.2822	Good
81	4932	8.260	53.01	8.53	0.3734	Inferior
82	4987	4.700	71.58	12.92	0.4348	Good
83	4988	7.990	63.07	11.42	0.5753	Good
84	4989	4.500	53.03	10.71	0.2556	Good
85	4990	4.450	52.38	11.40	0.2657	Good
86	4991	4.320	52.46	13.34	0.3024	Good
87	4992	4.450	55.27	11.24	0.2763	Good
88	4993	4.420	53.50	9.93	0.2347	Good
89	4994	4.350	56.06	12.74	0.3106	Good
90	4995	4.550	64.68	10.67	0.3140	Good
91	4933	4.560	57.87	10.54	0.2782	Good

92	4934	4.510	53.69	11.18	0.2706	Good
93	4935	8.950	47.39	12.89	0.5468	Good
94	4936	4.610	54.71	9.58	0.2416	Good
95	4937	4.940	51.96	9.31	0.2391	Good
96	4996	4.410	67.21	12.05	0.3572	Good
97	4997	4.580	63.10	12.38	0.3577	Good
98	4998	4.780	71.90	10.93	0.3757	Good
99	4999	7.320	68.09	11.29	0.5629	Good
100	5000	9.780	52.90	6.98	0.3609	Inferior

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 52/537**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5140	9.380	58.23	11.71	0.6397	Good
2	5141	7.920	71.41	9.28	0.5251	Good
3	5142	4.790	59.04	10.20	0.2884	Good
4	5143	9.540	62.11	9.58	0.5676	Good
5	5144	7.690	55.11	9.80	0.4153	Good
6	5145	8.180	73.92	10.11	0.6110	Good
7	5146	3.940	55.13	12.21	0.2652	Good
8	5163	7.620	51.23	10.40	0.4061	Good
9	5164	9.360	51.38	9.52	0.4577	Good
10	5165	8.200	55.19	10.98	0.4969	Good
11	5166	4.890	65.18	13.76	0.4386	Good
12	5167	7.860	54.57	6.95	0.2979	Inferior
13	5168	7.780	55.59	10.78	0.4660	Good
14	5101	7.440	48.52	11.50	0.4152	Good
15	5102	4.190	52.57	9.68	0.2133	Good
16	5103	7.510	49.19	14.21	0.5249	Good
17	5104	4.310	59.22	9.90	0.2526	Good
18	5105	3.900	55.20	12.10	0.2605	Good
19	5106	4.650	51.65	6.12	0.1469	Inferior
20	5107	4.060	49.66	9.89	0.1993	Good
21	5147	3.930	63.19	14.18	0.3521	Good
22	5148	4.000	55.70	11.24	0.2504	Good
23	5149	4.200	72.72	9.63	0.2940	Good
24	5150	4.000	57.33	12.42	0.2848	Good
25	5151	4.820	57.48	10.33	0.2863	Good
26	5152	4.360	68.00	9.15	0.2712	Good
27	5169	9.590	52.86	9.25	0.4690	Good
28	5170	7.420	52.38	9.95	0.3866	Good

29	5171	7.890	57.53	9.87	0.4482	Good
30	5172	7.790	66.28	14.20	0.7330	Good
31	5173	7.870	52.49	8.48	0.3502	Inferior
32	5174	9.330	61.47	9.19	0.5271	Good
33	5108	4.540	50.87	9.81	0.2265	Good
34	5109	9.760	59.13	9.84	0.5680	Good
35	5110	4.730	55.77	9.36	0.2469	Good
36	5111	9.020	62.47	9.65	0.5439	Good
37	5112	8.520	51.43	9.04	0.3962	Good
38	5113	9.330	53.22	8.47	0.4208	Inferior
39	5175	8.280	51.79	10.02	0.4297	Good
40	5176	4.800	55.27	9.35	0.2482	Good
41	5177	4.860	54.96	8.30	0.2216	Inferior
42	5178	9.350	49.18	11.33	0.5208	Good
43	5179	7.550	50.53	7.62	0.2907	Inferior
44	5180	4.810	47.51	14.23	0.3252	Good
45	5181	4.260	54.88	9.15	0.2139	Good
46	5114	4.550	53.55	9.09	0.2216	Good
47	5115	9.320	58.49	10.28	0.5601	Good
48	5116	4.550	50.97	14.07	0.3262	Good
49	5117	7.660	53.04	9.03	0.3669	Good
50	5118	9.660	54.40	9.80	0.5149	Good
51	5119	9.880	57.35	9.33	0.5286	Good
52	5120	4.170	70.72	9.39	0.2769	Good
53	5182	3.950	54.40	10.22	0.2196	Good
54	5183	8.090	53.79	9.46	0.4118	Good
55	5184	9.650	62.84	14.08	0.8540	Good
56	5185	8.110	54.26	10.03	0.4412	Good
57	5186	7.970	69.67	9.14	0.5077	Good
58	5187	8.010	64.54	9.28	0.4798	Good
59	5121	4.680	57.00	9.65	0.2574	Good
60	5122	7.520	62.78	9.72	0.4587	Good
61	5123	9.250	63.35	9.46	0.5541	Good
62	5124	3.840	57.40	8.54	0.1882	Inferior
63	5125	7.490	55.64	9.71	0.4045	Good
64	5126	4.870	53.33	10.48	0.2722	Good
65	5127	7.590	55.51	8.50	0.3582	Inferior
66	5153	4.720	57.51	10.36	0.2813	Good
67	5154	7.810	52.56	10.77	0.4420	Good
68	5155	7.970	50.12	14.64	0.5850	Good

69	5156	4.070	51.88	16.50	0.3484	Good
70	5157	4.030	56.80	11.51	0.2636	Good
71	5158	3.740	50.53	13.34	0.2521	Good
72	5188	8.070	51.86	9.78	0.4091	Good
73	5189	7.860	53.45	11.84	0.4975	Good
74	5190	9.700	51.38	10.59	0.5277	Good
75	5191	9.460	58.97	11.07	0.6177	Good
76	5192	8.050	53.92	11.37	0.4935	Good
77	5193	7.920	54.18	10.24	0.4396	Good
78	5128	4.920	46.03	9.19	0.2081	Good
79	5129	3.880	51.29	13.16	0.2619	Good
80	5130	3.820	53.42	10.48	0.2139	Good
81	5131	3.940	60.37	7.11	0.1690	Inferior
82	5132	4.750	50.80	10.83	0.2613	Good
83	5133	8.280	55.52	10.19	0.4686	Good
84	5194	4.780	64.08	14.08	0.4312	Good
85	5195	7.840	56.55	10.38	0.4602	Good
86	5196	4.670	55.53	9.69	0.2512	Good
87	5197	9.420	57.45	7.17	0.3881	Inferior
88	5198	9.410	53.39	9.31	0.4677	Good
89	5199	9.380	54.47	9.55	0.4878	Good
90	5200	8.850	55.40	8.16	0.4000	Inferior
91	5159	3.930	51.60	13.84	0.2806	Good
92	5160	9.520	50.99	7.75	0.3760	Inferior
93	5161	7.820	64.51	14.63	0.7382	Good
94	5162	7.570	55.44	8.39	0.3520	Inferior
95	5134	4.800	52.95	10.71	0.2722	Good
96	5135	7.490	54.67	7.24	0.2966	Inferior
97	5136	8.020	51.69	10.85	0.4499	Good
98	5137	4.500	48.87	11.97	0.2633	Good
99	5138	7.590	52.35	11.79	0.4683	Good
100	5139	5.050	50.54	10.94	0.2793	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 55/540**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5441	4.220	63.90	11.60	0.3127	Good
2	5442	4.870	64.56	8.64	0.2717	Inferior
3	5443	9.140	60.98	11.79	0.6572	Good
4	5444	4.580	61.94	11.29	0.3201	Good
5	5445	7.990	59.58	9.84	0.4682	Good

6	5446	4.820	55.94	10.98	0.2959	Good
7	5447	7.480	59.81	10.15	0.4540	Good
8	5464	4.440	50.73	11.81	0.2660	Good
9	5465	4.860	57.76	7.62	0.2138	Inferior
10	5466	8.110	48.26	13.84	0.5417	Good
11	5467	4.100	46.78	15.37	0.2948	Good
12	5468	4.030	49.77	11.81	0.2370	Good
13	5469	4.560	49.68	12.10	0.2741	Good
14	5401	7.440	62.74	11.24	0.5245	Good
15	5402	4.420	59.61	11.07	0.2917	Good
16	5403	6.790	59.23	10.25	0.4122	Good
17	5404	4.390	61.43	11.23	0.3029	Good
18	5405	7.640	57.66	10.72	0.4722	Good
19	5406	4.730	65.24	9.90	0.3056	Good
20	5407	7.820	65.78	4.79	0.2463	Inferior
21	5448	4.680	58.21	9.62	0.2621	Good
22	5449	4.400	59.65	9.56	0.2508	Good
23	5450	4.460	60.88	9.40	0.2551	Good
24	5451	4.730	57.54	11.57	0.3150	Good
25	5452	7.370	63.31	9.52	0.4444	Good
26	5470	5.100	56.42	9.66	0.2780	Good
27	5471	7.730	48.56	8.24	0.3092	Inferior
28	5472	9.260	50.14	11.51	0.5343	Good
29	5473	7.610	52.05	10.09	0.3995	Good
30	5474	7.700	51.57	10.82	0.4297	Good
31	5475	4.320	45.38	15.27	0.2994	Good
32	5408	4.000	61.22	9.33	0.2284	Good
33	5409	3.880	65.16	9.04	0.2285	Good
34	5410	4.340	57.25	10.64	0.2643	Good
35	5411	3.750	57.45	12.60	0.2715	Good
36	5412	3.950	60.45	10.98	0.2623	Good
37	5413	4.200	62.90	9.41	0.2486	Good
38	5414	7.920	54.75	8.49	0.3683	Inferior
39	5476	4.730	53.06	10.25	0.2573	Good
40	5477	7.990	50.74	9.68	0.3923	Good
41	5478	4.080	56.80	11.30	0.2619	Good
42	5479	9.660	58.70	9.52	0.5400	Good
43	5480	9.440	58.84	8.34	0.4635	Inferior
44	5481	7.840	59.17	9.35	0.4336	Good
45	5482	7.860	57.06	10.76	0.4826	Good



46	5415	4.360	64.46	13.45	0.3780	Good
47	5416	4.210	54.86	11.27	0.2602	Good
48	5417	4.200	54.77	13.89	0.3196	Good
49	5418	3.660	54.27	13.80	0.2741	Good
50	5419	4.400	58.79	10.46	0.2706	Good
51	5420	4.530	59.39	10.51	0.2827	Good
52	5421	4.720	57.21	9.91	0.2676	Good
53	5483	7.880	57.23	10.01	0.4515	Good
54	5484	7.960	62.92	9.92	0.4967	Good
55	5485	7.920	56.96	7.69	0.3469	Inferior
56	5486	4.520	60.55	10.27	0.2811	Good
57	5487	9.560	55.43	9.22	0.4885	Good
58	5488	7.770	56.67	9.28	0.4087	Good
59	5422	9.410	56.79	13.17	0.7039	Good
60	5423	4.750	60.39	11.14	0.3197	Good
61	5424	4.370	56.82	11.18	0.2775	Good
62	5425	4.380	60.63	11.31	0.3005	Good
63	5426	7.580	56.70	10.23	0.4396	Good
64	5427	4.490	55.58	12.14	0.3031	Good
65	5428	7.840	60.58	8.35	0.3967	Inferior
66	5453	2.930	62.34	9.14	0.1670	Good
67	5454	3.890	62.55	8.30	0.2019	Inferior
68	5455	4.670	63.14	11.01	0.3246	Good
69	5456	9.580	57.04	9.69	0.5298	Good
70	5457	4.410	57.62	11.21	0.2849	Good
71	5458	7.660	48.75	12.27	0.4581	Good
72	5489	4.910	60.13	8.10	0.2391	Inferior
73	5490	9.680	58.55	7.40	0.4191	Inferior
74	5491	7.710	64.61	9.87	0.4919	Good
75	5492	4.280	59.08	10.43	0.2636	Good
76	5493	4.620	57.89	10.42	0.2786	Good
77	5429	4.790	56.44	10.29	0.2783	Good
78	5430	4.550	54.95	10.99	0.2748	Good
79	5431	4.430	58.48	10.47	0.2711	Good
80	5432	4.180	56.57	10.11	0.2391	Good
81	5433	4.160	57.69	10.47	0.2513	Good
82	5434	4.520	57.65	9.99	0.2604	Good
83	5435	3.860	55.83	10.33	0.2227	Good
84	5494	7.950	58.17	9.25	0.4277	Good
85	5495	4.560	56.93	10.68	0.2772	Good

86	5496	8.050	61.87	7.68	0.3824	Inferior
87	5497	9.410	59.35	10.92	0.6098	Good
88	5498	7.870	58.87	9.65	0.4470	Good
89	5499	4.850	55.12	9.38	0.2507	Good
90	5500	7.870	55.87	10.74	0.4722	Good
91	5459	7.450	58.64	11.44	0.4999	Good
92	5460	4.350	58.22	10.12	0.2562	Good
93	5461	4.280	59.55	10.31	0.2628	Good
94	5462	9.050	65.80	12.34	0.7349	Good
95	5463	4.120	70.90	5.06	0.1479	Inferior
96	5436	3.820	57.75	9.58	0.2112	Good
97	5437	3.950	57.43	9.63	0.2184	Good
98	5438	4.390	59.51	9.12	0.2384	Good
99	5439	4.190	57.08	10.13	0.2422	Good
100	5440	7.550	57.04	9.19	0.3956	Good

DATE: 25.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 38/500**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3743	9.420	52.34	12.55	0.6189	Good
2	3744	7.690	64.57	12.45	0.6183	Good
3	3745	8.000	62.22	12.50	0.6224	Good
4	3746	4.390	56.06	9.94	0.2445	Good
5	3747	7.800	54.24	12.30	0.5203	Good
6	3748	4.610	58.66	9.39	0.2540	Good
7	3774	4.380	57.37	9.74	0.2448	Good
8	3775	4.490	56.10	10.02	0.2523	Good
9	3776	4.420	56.31	5.95	0.1481	Inferior
10	3777	4.060	58.57	6.10	0.1449	Inferior
11	3778	4.150	53.10	9.70	0.2137	Good
12	3701	7.730	57.96	10.78	0.4831	Good
13	3702	7.290	54.17	9.88	0.3900	Good
14	3703	4.790	52.79	10.74	0.2716	Good
15	3704	7.670	56.04	9.49	0.4080	Good
16	3705	4.910	51.39	12.36	0.3118	Good
17	3706	7.410	53.37	12.80	0.5061	Good
18	3707	7.540	55.32	11.21	0.4675	Good
19	3749	4.710	55.97	9.88	0.2605	Good
20	3750	9.510	55.55	9.34	0.4936	Good
21	3751	4.810	57.20	11.01	0.3030	Good
22	3752	4.610	55.17	9.39	0.2388	Good
23	3753	7.660	55.63	9.65	0.4113	Good
24	3754	4.760	54.57	13.16	0.3418	Good
25	3755	7.630	61.99	11.21	0.5303	Good
26	3779	4.140	60.33	5.22	0.1304	Inferior
27	3780	4.230	58.24	9.46	0.2331	Good
28	3781	7.380	55.45	9.23	0.3779	Good
29	3782	4.360	56.26	10.13	0.2485	Good
30	3783	4.230	57.40	9.65	0.2343	Good
31	3708	3.860	56.23	11.65	0.2528	Good
32	3709	5.100	56.11	13.21	0.3779	Good
33	3710	4.650	53.36	10.29	0.2553	Good
34	3711	4.670	57.77	10.47	0.2825	Good

35	3712	4.440	56.74	9.71	0.2446	Good
36	3713	7.770	62.27	12.35	0.5975	Good
37	3714	4.790	58.78	9.46	0.2663	Good
38	3784	9.400	55.87	6.35	0.3337	Inferior
39	3785	9.860	56.12	5.36	0.2968	Inferior
40	3786	9.280	59.24	5.94	0.3267	Inferior
41	3787	4.460	55.49	10.70	0.2649	Good
42	3788	5.020	53.70	9.93	0.2676	Good
43	3789	4.490	51.96	10.85	0.2532	Good
44	3790	4.900	51.22	9.96	0.2499	Good
45	3791	7.710	57.54	9.09	0.4032	Good
46	3715	4.440	61.90	10.08	0.2771	Good
47	3716	4.900	60.12	9.70	0.2857	Good
48	3717	7.910	51.43	9.20	0.3741	Good
49	3718	7.970	58.36	10.16	0.4726	Good
50	3719	4.460	50.42	11.03	0.2480	Good
51	3720	4.420	54.36	11.06	0.2656	Good
52	3721	7.670	56.01	11.12	0.4778	Good
53	3792	4.540	52.07	12.14	0.2869	Good
54	3793	4.860	49.63	11.36	0.2741	Good
55	3794	8.350	55.77	11.67	0.5436	Good
56	3795	7.910	59.45	9.34	0.4390	Good
57	3722	7.740	55.79	9.48	0.4094	Good
58	3723	4.940	55.98	10.52	0.2910	Good
59	3724	8.940	56.21	10.44	0.5248	Good
60	3725	7.560	53.08	11.06	0.4438	Good
61	3726	4.540	54.54	9.97	0.2470	Good
62	3727	4.710	52.53	12.64	0.3127	Good
63	3728	7.790	54.72	11.35	0.4838	Good
64	3756	7.270	55.30	9.42	0.3788	Good
65	3757	7.920	54.85	10.37	0.4506	Good
66	3758	7.720	55.88	12.94	0.5582	Good
67	3759	7.780	54.85	12.47	0.5322	Good
68	3760	7.950	58.89	10.75	0.5032	Good
69	3761	4.470	55.69	12.59	0.3133	Good
70	3762	9.220	52.08	12.06	0.5790	Good
71	3796	4.420	53.88	9.11	0.2170	Good
72	3797	4.660	55.19	9.68	0.2488	Good
73	3798	7.580	57.79	10.64	0.4662	Good
74	3799	7.870	51.95	9.39	0.3841	Good

75	3800	4.710	55.04	10.68	0.2769	Good
76	3729	7.830	57.17	10.02	0.4487	Good
77	3730	7.780	54.20	9.19	0.3874	Good
78	3731	8.840	52.82	9.50	0.4438	Good
79	3732	7.450	54.44	9.13	0.3703	Good
80	3733	7.940	50.84	11.31	0.4566	Good
81	3734	8.110	53.13	10.56	0.4550	Good
82	3735	9.780	51.27	9.56	0.4792	Good
83	3736	4.500	59.08	12.10	0.3218	Good
84	3763	7.800	53.50	10.56	0.4407	Good
85	3764	7.420	55.22	10.74	0.4400	Good
86	3765	7.780	54.52	9.74	0.4131	Good
87	3766	4.780	55.02	12.34	0.3246	Good
88	3767	9.540	53.80	11.21	0.5753	Good
89	3768	7.660	54.59	9.56	0.3999	Good
90	3769	4.810	55.70	10.45	0.2799	Good
91	3737	7.400	52.94	14.71	0.5765	Good
92	3738	8.090	52.56	10.71	0.4555	Good
93	3739	8.890	55.01	9.93	0.4854	Good
94	3740	4.740	53.90	11.73	0.2996	Good
95	3741	7.830	56.66	11.52	0.5113	Good
96	3742	4.610	52.94	11.50	0.2807	Good
97	3770	7.860	53.97	14.45	0.6131	Good
98	3771	3.960	53.53	13.08	0.2772	Good
99	3772	4.200	56.38	9.42	0.2230	Good
100	3773	4.380	49.78	9.22	0.2010	Good

DATE: 23.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 16/281**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1555	4.730	55.37	11.76	0.3079	Good
2	1556	9.520	59.01	9.91	0.5569	Good
3	1557	7.780	55.24	11.22	0.4824	Good
4	1558	7.650	54.95	10.05	0.4223	Good
5	1559	8.630	56.16	10.29	0.4988	Good
6	1560	7.880	56.87	9.88	0.4429	Good
7	1501	9.250	57.11	10.37	0.5476	Good
8	1502	7.690	58.61	9.55	0.4306	Good
9	1503	7.880	60.36	7.14	0.3396	Inferior
10	1504	7.990	59.05	10.16	0.4794	Good
11	1505	9.320	61.41	9.90	0.5667	Good
12	1506	7.500	60.19	9.54	0.4305	Good
13	1541	9.470	61.22	10.00	0.5796	Good
14	1542	4.730	58.04	10.54	0.2895	Good
15	1543	7.730	58.95	10.14	0.4623	Good
16	1544	4.940	62.00	9.52	0.2915	Good
17	1545	9.610	62.11	9.61	0.5737	Good
18	1546	4.890	62.70	9.94	0.3046	Good
19	1547	9.560	53.04	9.95	0.5048	Good
20	1561	8.200	55.57	10.01	0.4559	Good
21	1562	8.870	57.44	11.96	0.6094	Good
22	1563	4.760	54.41	9.87	0.2556	Good
23	1564	4.860	57.07	13.05	0.3621	Good
24	1565	8.000	60.04	9.53	0.4576	Good
25	1566	3.700	56.86	11.36	0.2390	Good
26	1567	9.030	57.39	11.45	0.5933	Good
27	1507	7.940	55.52	9.08	0.4002	Good
28	1508	9.480	60.77	11.26	0.6484	Good
29	1509	7.330	63.67	10.99	0.5131	Good
30	1510	4.800	55.95	9.28	0.2491	Good
31	1511	4.890	56.26	12.07	0.3320	Good
32	1512	7.930	57.12	12.15	0.5503	Good
33	1568	9.300	58.95	9.96	0.5459	Good
34	1569	4.770	62.86	10.61	0.3182	Good

35	1570	4.680	59.85	10.98	0.3075	Good
36	1571	7.400	60.66	11.98	0.5380	Good
37	1572	4.770	59.05	10.69	0.3010	Good
38	1573	8.920	60.30	9.90	0.5325	Good
39	1574	9.570	59.65	10.60	0.6048	Good
40	1575	9.140	60.09	11.35	0.6233	Good
41	1513	7.920	56.37	12.12	0.5409	Good
42	1514	3.940	58.47	10.84	0.2498	Good
43	1515	9.220	60.95	9.81	0.5514	Good
44	1516	4.900	65.52	10.99	0.3528	Good
45	1517	9.000	63.74	10.73	0.6156	Good
46	1576	7.790	63.85	9.74	0.4845	Good
47	1577	9.630	55.77	10.38	0.5576	Good
48	1578	4.950	60.84	9.09	0.2737	Good
49	1579	8.850	59.04	12.52	0.6540	Good
50	1580	7.920	57.86	10.16	0.4657	Good
51	1581	4.030	61.53	10.35	0.2567	Good
52	1518	8.180	64.99	9.51	0.5055	Good
53	1519	8.060	54.86	9.62	0.4256	Good
54	1520	9.620	58.26	9.10	0.5099	Good
55	1521	9.590	53.25	10.25	0.5236	Good
56	1522	9.350	57.30	9.97	0.5339	Good
57	1523	7.940	58.02	9.67	0.4454	Good
58	1548	4.850	48.05	9.93	0.2313	Good
59	1549	8.070	56.92	8.33	0.3825	Inferior
60	1550	4.750	61.04	9.50	0.2755	Good
61	1551	4.800	63.57	9.00	0.2746	Good
62	1552	4.470	65.10	10.26	0.2986	Good
63	1553	7.700	49.93	8.61	0.3311	Inferior
64	1554	8.750	53.79	10.04	0.4725	Good
65	1582	3.980	59.56	10.21	0.2420	Good
66	1583	8.740	63.69	9.51	0.5296	Good
67	1584	4.990	62.63	9.28	0.2899	Good
68	1585	4.730	64.83	10.10	0.3098	Good
69	1586	4.790	62.21	9.68	0.2884	Good
70	1587	9.280	61.96	9.39	0.5401	Good
71	1588	3.970	61.22	9.96	0.2422	Good
72	1524	9.640	57.69	9.52	0.5292	Good
73	1525	7.960	55.19	9.44	0.4147	Good
74	1526	7.850	53.92	10.05	0.4255	Good

75	1527	9.330	57.32	9.61	0.5141	Good
76	1528	4.710	56.81	9.91	0.2652	Good
77	1529	4.780	55.08	9.26	0.2438	Good
78	1589	4.430	55.64	8.95	0.2206	Inferior
79	1590	4.830	53.35	8.21	0.2116	Inferior
80	1591	10.060	55.09	8.48	0.4698	Inferior
81	1592	9.920	63.81	9.56	0.6051	Good
82	1593	9.770	61.38	10.26	0.6155	Good
83	1594	5.160	60.41	9.22	0.2874	Good
84	1595	8.050	59.28	10.02	0.4782	Good
85	1596	6.580	59.07	11.44	0.4448	Good
86	1530	9.610	60.54	9.55	0.5555	Good
87	1531	9.150	59.65	10.18	0.5554	Good
88	1532	8.000	57.26	7.75	0.3552	Inferior
89	1533	4.920	60.81	11.28	0.3375	Good
90	1534	9.600	61.51	9.90	0.5846	Good
91	1597	5.490	58.78	10.82	0.3492	Good
92	1598	8.170	59.46	9.50	0.4616	Good
93	1599	7.960	59.69	9.26	0.4402	Good
94	1600	9.910	63.23	7.80	0.4886	Inferior
95	1535	7.720	60.71	8.43	0.3953	Inferior
96	1536	9.140	60.29	9.17	0.5054	Good
97	1537	4.670	60.53	9.28	0.2625	Good
98	1538	7.950	58.49	9.78	0.4547	Good
99	1539	7.760	57.97	9.25	0.4159	Good
100	1540	7.980	56.56	10.57	0.4772	Good

DATE: 18.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 15/280**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1437	9.140	54.54	9.57	0.4771	Good
2	1438	8.830	52.62	9.12	0.4238	Good
3	1439	9.070	52.69	11.43	0.5460	Good
4	1440	8.000	52.59	11.41	0.4800	Good
5	1441	7.860	59.23	13.76	0.6406	Good
6	1463	8.060	79.18	10.61	0.6770	Good
7	1464	3.690	73.04	10.31	0.2779	Good
8	1465	7.270	50.13	9.56	0.3482	Good
9	1466	3.970	60.45	9.36	0.2247	Good
10	1467	3.970	63.13	9.12	0.2287	Good
11	1468	3.700	52.71	9.98	0.1946	Good
12	1469	6.930	59.87	8.10	0.3361	Inferior
13	1470	8.830	66.15	9.57	0.5589	Good
14	1471	7.130	63.01	10.68	0.4798	Good
15	1472	7.780	56.33	10.67	0.4676	Good
16	1401	3.900	61.63	10.92	0.2625	Good
17	1402	3.710	66.55	11.59	0.2860	Good
18	1403	9.550	53.09	9.23	0.4680	Good
19	1404	7.640	54.87	9.42	0.3950	Good
20	1405	7.820	71.67	10.03	0.5623	Good
21	1406	3.980	52.40	10.34	0.2157	Good
22	1442	7.510	70.60	11.84	0.6278	Good
23	1443	9.150	54.78	13.60	0.6817	Good
24	1444	9.030	65.50	11.68	0.6908	Good
25	1445	9.410	59.40	10.52	0.5881	Good
26	1446	9.140	73.57	11.34	0.7623	Good
27	1447	7.490	70.84	11.12	0.5902	Good
28	1473	7.750	55.76	11.41	0.4929	Good
29	1474	6.820	55.14	11.06	0.4160	Good
30	1475	7.180	57.06	12.69	0.5198	Good
31	1476	8.360	56.46	13.02	0.6145	Good
32	1477	8.370	55.26	12.45	0.5759	Good
33	1478	9.240	55.11	8.38	0.4269	Inferior
34	1407	9.630	57.42	11.23	0.6211	Good

35	1408	4.700	56.12	11.62	0.3064	Good
36	1409	4.090	73.45	11.23	0.3374	Good
37	1410	3.940	54.98	12.35	0.2675	Good
38	1411	4.450	61.54	13.13	0.3596	Good
39	1412	7.370	58.93	13.12	0.5697	Good
40	1479	9.830	54.68	7.26	0.3903	Inferior
41	1480	5.030	50.79	10.14	0.2590	Good
42	1481	7.380	51.86	9.60	0.3675	Good
43	1482	4.910	52.28	11.11	0.2853	Good
44	1483	4.790	50.47	11.27	0.2726	Good
45	1484	4.760	64.65	11.38	0.3503	Good
46	1413	9.570	55.62	12.35	0.6575	Good
47	1414	7.700	45.97	11.20	0.3966	Good
48	1415	9.400	55.28	12.50	0.6495	Good
49	1416	7.810	58.43	13.91	0.6350	Good
50	1417	9.340	51.77	9.45	0.4567	Good
51	1418	7.230	47.66	11.94	0.4114	Good
52	1448	7.260	68.06	11.06	0.5467	Good
53	1449	8.030	49.77	14.49	0.5790	Good
54	1450	9.000	51.84	13.39	0.6246	Good
55	1451	8.920	51.62	12.63	0.5816	Good
56	1452	9.220	48.72	14.37	0.6454	Good
57	1485	9.190	59.86	7.18	0.3952	Inferior
58	1486	9.530	50.33	10.83	0.5194	Good
59	1487	9.210	55.33	9.71	0.4946	Good
60	1488	7.950	62.10	10.53	0.5199	Good
61	1419	7.610	57.11	10.61	0.4612	Good
62	1420	4.690	51.08	12.51	0.2997	Good
63	1421	7.300	56.04	8.98	0.3672	Inferior
64	1422	4.400	55.68	9.45	0.2314	Good
65	1423	8.660	47.82	9.45	0.3914	Good
66	1424	8.890	58.53	9.60	0.4996	Good
67	1453	9.060	55.74	10.46	0.5282	Good
68	1454	7.450	64.05	11.83	0.5647	Good
69	1455	7.840	67.44	11.30	0.5974	Good
70	1456	7.170	61.99	10.47	0.4653	Good
71	1457	7.200	65.51	9.65	0.4550	Good
72	1458	7.120	56.72	10.51	0.4244	Good
73	1489	8.610	51.59	10.58	0.4701	Good
74	1490	7.980	53.92	10.78	0.4636	Good

75	1491	4.620	50.48	11.55	0.2693	Good
76	1492	3.890	52.27	13.72	0.2789	Good
77	1493	7.940	50.49	11.21	0.4494	Good
78	1494	9.510	55.85	8.90	0.4726	Inferior
79	1425	9.130	51.19	11.19	0.5231	Good
80	1426	7.630	50.10	11.44	0.4372	Good
81	1427	9.200	54.15	12.10	0.6026	Good
82	1428	7.350	56.36	13.01	0.5388	Good
83	1429	8.700	48.15	10.36	0.4341	Good
84	1430	7.650	65.20	8.47	0.4223	Inferior
85	1495	4.740	50.58	9.51	0.2280	Good
86	1496	3.950	49.68	11.17	0.2192	Good
87	1497	4.180	55.21	8.95	0.2065	Inferior
88	1498	7.880	57.31	11.59	0.5232	Good
89	1499	9.290	66.57	9.81	0.6066	Good
90	1500	9.520	71.59	9.28	0.6321	Good
91	1459	3.710	55.25	12.87	0.2638	Good
92	1460	3.970	54.11	12.10	0.2600	Good
93	1461	7.760	71.80	11.18	0.6231	Good
94	1462	7.910	70.20	11.62	0.6455	Good
95	1431	4.360	63.40	11.51	0.3183	Good
96	1432	7.490	52.71	12.50	0.4936	Good
97	1433	7.600	52.13	13.27	0.5259	Good
98	1434	7.780	65.28	10.32	0.5244	Good
99	1435	4.580	63.24	9.99	0.2895	Good
100	1436	9.020	55.95	11.89	0.5998	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 53/538**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5239	5.110	60.25	10.34	0.3184	Good
2	5240	8.250	64.61	11.75	0.6262	Good
3	5241	5.040	65.31	11.39	0.3750	Good
4	5242	4.990	64.28	11.87	0.3807	Good
5	5243	5.060	60.79	9.48	0.2915	Good
6	5244	4.690	60.44	10.51	0.2978	Good
7	5266	5.050	64.20	11.90	0.3858	Good
8	5267	7.960	65.89	12.78	0.6702	Good
9	5268	4.580	68.79	11.91	0.3751	Good
10	5269	5.010	61.85	11.51	0.3567	Good
11	5270	7.660	63.31	13.22	0.6411	Good

12	5271	5.180	56.45	9.53	0.2787	Good
13	5201	7.810	59.67	9.89	0.4608	Good
14	5202	7.800	62.51	7.61	0.3713	Inferior
15	5203	9.570	54.23	9.87	0.5120	Good
16	5204	4.440	51.63	10.42	0.2389	Good
17	5205	7.820	53.37	7.51	0.3136	Inferior
18	5206	8.110	45.52	13.64	0.5036	Good
19	5245	4.920	56.47	11.62	0.3228	Good
20	5246	5.010	63.92	12.28	0.3933	Good
21	5247	4.860	60.87	11.96	0.3538	Good
22	5248	4.760	58.01	11.72	0.3237	Good
23	5249	5.000	61.35	11.98	0.3675	Good
24	5250	5.010	64.70	11.84	0.3838	Good
25	5272	4.110	58.09	10.72	0.2561	Good
26	5273	4.580	58.75	11.59	0.3119	Good
27	5274	7.860	58.83	10.88	0.5030	Good
28	5275	7.780	61.78	14.81	0.7119	Good
29	5276	7.890	62.50	10.38	0.5121	Good
30	5277	4.760	59.70	10.54	0.2994	Good
31	5207	3.900	59.54	10.09	0.2344	Good
32	5208	3.870	58.55	12.78	0.2895	Good
33	5209	4.760	53.04	13.22	0.3337	Good
34	5210	4.930	65.10	9.89	0.3175	Good
35	5211	9.200	61.83	9.91	0.5640	Good
36	5212	8.030	54.17	14.38	0.6255	Good
37	5213	9.190	57.63	11.14	0.5900	Good
38	5278	7.830	60.94	12.16	0.5802	Good
39	5279	4.520	60.18	11.00	0.2992	Good
40	5280	3.850	63.06	9.47	0.2298	Good
41	5281	4.710	61.42	10.52	0.3043	Good
42	5282	4.670	58.18	10.36	0.2816	Good
43	5283	7.580	62.24	13.06	0.6163	Good
44	5284	7.760	56.91	10.72	0.4734	Good
45	5285	8.000	59.33	10.55	0.5008	Good
46	5214	9.190	53.65	11.41	0.5624	Good
47	5215	8.100	61.90	10.76	0.5395	Good
48	5216	3.910	56.86	12.28	0.2729	Good
49	5217	4.110	57.32	7.64	0.1800	Inferior
50	5218	4.040	58.20	10.12	0.2380	Good
51	5219	3.940	57.40	13.36	0.3022	Good

52	5286	4.800	64.13	12.71	0.3912	Good
53	5287	9.450	64.88	11.16	0.6842	Good
54	5288	4.710	63.69	12.17	0.3650	Good
55	5289	7.700	63.11	10.14	0.4928	Good
56	5290	4.650	63.19	10.62	0.3120	Good
57	5291	3.890	62.97	8.34	0.2042	Inferior
58	5220	3.890	66.22	11.73	0.3023	Good
59	5221	5.130	62.00	10.19	0.3242	Good
60	5222	4.890	53.91	14.54	0.3834	Good
61	5223	9.780	62.63	14.16	0.8675	Good
62	5224	5.140	52.59	14.66	0.3963	Good
63	5225	8.350	50.55	13.18	0.5561	Good
64	5251	4.770	64.11	10.03	0.3067	Good
65	5252	5.100	57.50	9.32	0.2734	Good
66	5253	4.390	60.98	15.56	0.4166	Good
67	5254	4.210	62.29	12.49	0.3275	Good
68	5255	5.390	58.77	9.29	0.2943	Good
69	5256	3.930	58.57	11.25	0.2590	Good
70	5257	9.850	70.82	4.90	0.3418	Inferior
71	5258	4.550	65.22	11.07	0.3285	Good
72	5292	4.430	61.36	10.19	0.2769	Good
73	5293	7.870	67.61	12.81	0.6815	Good
74	5294	3.750	50.23	16.05	0.3023	Good
75	5295	4.530	53.21	13.70	0.3302	Good
76	5296	7.610	48.12	13.94	0.5106	Good
77	5226	7.140	59.46	13.82	0.5869	Good
78	5227	4.820	62.72	12.26	0.3707	Good
79	5228	8.200	59.57	13.19	0.6445	Good
80	5229	4.910	64.26	12.79	0.4036	Good
81	5230	4.920	59.80	12.46	0.3665	Good
82	5231	4.940	58.02	10.01	0.2870	Good
83	5232	8.100	53.04	13.44	0.5775	Good
84	5259	7.940	61.64	12.26	0.6003	Good
85	5260	5.040	64.32	11.99	0.3886	Good
86	5261	5.220	63.43	13.42	0.4442	Good
87	5262	7.520	61.94	12.79	0.5956	Good
88	5263	4.870	63.56	14.49	0.4485	Good
89	5264	4.880	64.06	11.30	0.3533	Good
90	5265	5.040	67.65	14.04	0.4788	Good
91	5297	4.610	59.46	12.38	0.3393	Good

92	5298	7.500	56.84	14.23	0.6068	Good
93	5299	4.330	55.28	13.75	0.3291	Good
94	5300	7.660	56.17	14.38	0.6189	Good
95	5233	3.870	59.01	11.56	0.2639	Good
96	5234	4.480	53.67	10.77	0.2589	Good
97	5235	4.870	56.30	11.46	0.3141	Good
98	5236	5.190	62.99	11.87	0.3882	Good
99	5237	4.110	57.07	12.91	0.3029	Good
100	5238	7.900	65.64	12.78	0.6628	Good

DATE: 17.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 20/351**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1969	5.320	45.65	14.94	0.3628	Good
2	1970	4.720	49.62	13.85	0.3243	Good
3	1971	4.810	49.93	11.00	0.2641	Good
4	1972	5.000	49.63	11.57	0.2870	Good
5	1973	4.790	54.95	10.72	0.2821	Good
6	1974	4.090	55.72	12.62	0.2875	Good
7	1901	9.050	57.53	10.85	0.5647	Good
8	1902	4.240	52.03	13.36	0.2947	Good
9	1903	3.550	54.21	11.79	0.2268	Good
10	1904	7.780	65.01	8.03	0.4061	Inferior
11	1905	3.740	57.41	10.07	0.2162	Good
12	1906	7.600	59.79	10.70	0.4864	Good
13	1941	4.980	43.19	14.96	0.3217	Good
14	1942	4.780	43.51	15.72	0.3270	Good
15	1943	8.390	48.67	11.94	0.4875	Good
16	1944	7.810	46.47	12.14	0.4405	Good
17	1945	4.980	49.56	13.01	0.3212	Good
18	1946	4.680	50.22	10.61	0.2494	Good
19	1975	4.050	52.45	11.94	0.2535	Good
20	1976	3.710	57.08	11.30	0.2393	Good
21	1977	4.430	58.93	11.98	0.3128	Good
22	1978	4.310	61.55	9.10	0.2414	Good
23	1979	3.450	59.55	9.52	0.1956	Good
24	1980	8.370	60.90	11.94	0.6085	Good
25	1907	4.360	58.79	10.41	0.2668	Good
26	1908	3.500	71.61	5.87	0.1470	Inferior
27	1909	7.530	62.03	9.77	0.4563	Good
28	1910	4.320	50.32	11.67	0.2536	Good
29	1911	4.140	55.60	10.61	0.2443	Good
30	1912	9.330	57.33	10.99	0.5878	Good
31	1947	4.240	52.57	11.28	0.2514	Good
32	1948	4.860	54.52	10.29	0.2726	Good
33	1949	4.910	53.21	11.22	0.2931	Good
34	1950	5.550	45.58	10.14	0.2564	Good

35	1951	7.930	46.08	10.20	0.3727	Good
36	1981	4.290	61.88	10.75	0.2853	Good
37	1982	4.030	62.97	10.97	0.2785	Good
38	1983	4.320	63.97	10.44	0.2886	Good
39	1984	4.190	61.13	10.32	0.2644	Good
40	1913	4.640	52.99	12.17	0.2993	Good
41	1914	4.850	50.60	10.93	0.2682	Good
42	1915	7.700	59.69	10.69	0.4913	Good
43	1916	4.640	48.29	11.18	0.2506	Good
44	1917	7.440	50.47	10.20	0.3832	Good
45	1918	8.020	53.18	10.19	0.4347	Good
46	1985	3.560	62.83	11.11	0.2485	Good
47	1986	7.370	65.99	10.30	0.5012	Good
48	1987	3.480	65.04	11.05	0.2502	Good
49	1988	4.480	44.13	12.08	0.2388	Good
50	1989	4.280	46.95	11.42	0.2294	Good
51	1990	4.500	53.16	9.88	0.2363	Good
52	1919	4.550	52.88	10.91	0.2625	Good
53	1920	4.540	54.01	10.15	0.2488	Good
54	1921	7.900	51.74	10.07	0.4116	Good
55	1922	7.360	51.98	9.43	0.3606	Good
56	1923	5.000	51.57	9.39	0.2420	Good
57	1924	9.420	54.49	9.21	0.4729	Good
58	1952	4.970	46.74	8.34	0.1938	Inferior
59	1953	9.040	48.00	10.77	0.4674	Good
60	1954	9.390	49.71	10.38	0.4845	Good
61	1955	7.910	49.92	9.70	0.3828	Good
62	1956	7.890	53.87	9.24	0.3929	Good
63	1957	5.100	54.08	13.37	0.3687	Good
64	1991	7.470	50.75	9.77	0.3705	Good
65	1992	4.210	53.14	9.26	0.2071	Good
66	1993	4.620	49.65	10.80	0.2476	Good
67	1994	9.620	53.16	9.52	0.4868	Good
68	1995	8.130	53.85	10.23	0.4480	Good
69	1996	7.840	53.12	9.71	0.4045	Good
70	1925	4.580	58.18	9.28	0.2473	Good
71	1926	4.710	53.31	10.56	0.2652	Good
72	1927	9.510	55.35	11.71	0.6162	Good
73	1928	10.090	57.92	9.56	0.5590	Good
74	1929	9.650	56.83	9.10	0.4989	Good



75	1930	4.900	57.65	9.78	0.2764	Good
76	1958	3.750	51.74	9.22	0.1789	Good
77	1959	5.180	54.02	9.96	0.2787	Good
78	1960	4.520	56.17	9.60	0.2436	Good
79	1961	4.910	57.56	7.70	0.2175	Inferior
80	1962	4.110	60.96	11.61	0.2910	Good
81	1963	5.050	58.63	10.80	0.3197	Good
82	1997	4.830	55.93	8.17	0.2207	Inferior
83	1998	4.550	55.18	7.77	0.1952	Inferior
84	1999	7.960	55.53	9.09	0.4020	Good
85	2000	4.080	55.62	9.64	0.2187	Good
86	1931	9.760	57.05	9.82	0.5466	Good
87	1932	4.700	54.75	10.85	0.2792	Good
88	1933	4.800	58.67	9.27	0.2611	Good
89	1934	4.730	59.58	9.57	0.2696	Good
90	1935	8.110	60.90	9.69	0.4785	Good
91	1964	8.280	63.03	7.96	0.4157	Inferior
92	1965	7.900	62.27	10.84	0.5333	Good
93	1966	4.560	57.17	10.84	0.2827	Good
94	1967	4.920	64.83	10.40	0.3316	Good
95	1968	8.010	58.52	11.02	0.5166	Good
96	1936	4.140	62.22	11.06	0.2848	Good
97	1937	4.820	60.41	9.07	0.2641	Good
98	1938	4.680	61.22	10.05	0.2878	Good
99	1939	9.720	61.55	9.54	0.5706	Good
100	1940	4.840	57.85	10.03	0.2807	Good

DATE: 14.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 56/541**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5537	4.730	61.67	11.38	0.3320	Good
2	5538	4.690	50.80	13.11	0.3124	Good
3	5539	7.910	55.86	12.44	0.5497	Good
4	5540	4.590	53.28	13.55	0.3314	Good
5	5541	4.120	42.27	14.50	0.2526	Good
6	5542	7.490	54.48	12.89	0.5258	Good
7	5543	4.180	51.31	10.76	0.2307	Good
8	5501	4.410	53.99	10.08	0.2399	Good
9	5502	7.580	57.26	9.08	0.3942	Good
10	5503	7.540	58.41	10.97	0.4833	Good
11	5504	4.220	58.45	9.87	0.2435	Good
12	5505	3.990	58.29	9.76	0.2270	Good
13	5506	7.700	62.72	9.45	0.4566	Good
14	5544	4.680	51.41	14.04	0.3379	Good
15	5545	4.030	52.19	9.22	0.1938	Good
16	5546	2.160	50.65	15.02	0.1644	Good
17	5547	4.070	50.95	10.50	0.2177	Good
18	5548	4.490	58.29	11.61	0.3040	Good
19	5549	4.800	60.41	7.83	0.2270	Inferior
20	5507	4.710	64.11	10.17	0.3071	Good
21	5508	7.530	58.43	8.11	0.3569	Inferior
22	5509	4.820	57.75	12.23	0.3403	Good
23	5510	4.720	51.54	9.86	0.2398	Good
24	5511	4.680	66.49	9.19	0.2859	Good
25	5512	7.310	59.13	11.06	0.4781	Good
26	5550	4.770	56.68	10.11	0.2733	Good
27	5551	7.650	57.14	12.20	0.5332	Good
28	5552	4.000	49.54	13.32	0.2640	Good
29	5553	4.010	62.63	10.68	0.2683	Good
30	5554	4.720	51.83	11.27	0.2756	Good
31	5555	4.320	50.30	9.32	0.2026	Good
32	5556	4.490	58.09	11.98	0.3125	Good
33	5557	4.080	54.98	10.28	0.2305	Good
34	5558	4.090	55.41	11.66	0.2642	Good
35	5513	7.550	62.61	9.28	0.4387	Good
36	5514	4.820	58.34	10.08	0.2834	Good
37	5515	4.110	62.73	7.59	0.1956	Inferior

38	5516	4.430	67.93	8.49	0.2556	Inferior
39	5517	4.510	64.47	8.30	0.2413	Inferior
40	5518	4.550	66.56	7.65	0.2316	Inferior
41	5559	7.400	63.18	9.50	0.4440	Good
42	5560	4.740	55.82	9.10	0.2408	Good
43	5561	4.700	54.72	11.00	0.2829	Good
44	5562	4.820	57.52	9.91	0.2747	Good
45	5519	7.820	59.05	9.38	0.4332	Good
46	5520	7.230	60.66	10.40	0.4562	Good
47	5521	3.800	60.35	10.49	0.2405	Good
48	5522	7.920	68.73	10.37	0.5647	Good
49	5523	4.860	58.33	10.99	0.3115	Good
50	5524	8.060	60.68	11.04	0.5400	Good
51	5525	8.370	47.12	10.40	0.4101	Good
52	5526	7.580	64.49	11.37	0.5556	Good
53	5527	4.560	48.30	10.97	0.2417	Good
54	5528	4.910	54.45	11.48	0.3069	Good
55	5529	7.810	47.90	9.48	0.3546	Good
56	5530	4.550	50.36	14.10	0.3231	Good
57	5531	8.500	49.08	11.37	0.4743	Good
58	5532	4.110	53.92	12.70	0.2815	Good
59	5533	2.240	47.82	14.51	0.1555	Good
60	5534	8.110	48.40	16.32	0.6407	Good
61	5535	4.700	43.70	11.35	0.2331	Good
62	5536	4.650	50.90	13.69	0.3241	Good

DATE: 28.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 32/450**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3130	3.980	57.90	16.80	0.3873	Good
2	3131	4.490	57.36	17.43	0.4490	Good
3	3132	4.860	53.81	13.01	0.3402	Good
4	3133	4.730	58.65	13.90	0.3855	Good
5	3134	3.850	63.10	14.01	0.3403	Good
6	3135	7.720	57.94	15.00	0.6709	Good
7	3167	9.360	56.71	12.47	0.6618	Good
8	3168	3.900	49.83	14.91	0.2898	Good
9	3169	8.300	51.22	14.84	0.6308	Good
10	3170	4.930	66.88	15.91	0.5246	Good
11	3171	7.730	58.78	15.18	0.6895	Good
12	3172	9.900	55.33	12.80	0.7009	Good
13	3101	5.110	56.85	13.63	0.3960	Good
14	3102	4.560	60.28	11.35	0.3119	Good
15	3103	4.830	53.29	14.64	0.3767	Good
16	3104	4.720	55.85	12.23	0.3224	Good
17	3105	4.730	58.75	17.07	0.4744	Good
18	3106	4.990	61.36	14.99	0.4591	Good
19	3136	7.880	61.79	15.23	0.7415	Good
20	3137	4.900	62.70	12.38	0.3802	Good
21	3138	4.630	58.84	11.79	0.3213	Good
22	3139	9.390	59.22	12.38	0.6883	Good
23	3140	7.610	58.11	11.58	0.5122	Good
24	3141	4.850	58.58	12.62	0.3584	Good
25	3173	3.770	53.99	14.30	0.2910	Good
26	3174	7.890	52.05	17.21	0.7069	Good
27	3175	4.070	51.75	13.99	0.2947	Good
28	3176	8.240	52.85	15.27	0.6650	Good
29	3177	7.810	52.72	14.11	0.5811	Good
30	3178	9.500	51.77	12.81	0.6299	Good
31	3107	8.050	56.84	14.04	0.6424	Good
32	3108	4.770	57.12	12.54	0.3415	Good
33	3109	4.650	62.82	8.56	0.2502	Inferior
34	3110	3.670	59.85	12.25	0.2690	Good

35	3111	9.560	56.39	13.97	0.7533	Good
36	3112	4.680	62.75	9.26	0.2719	Good
37	3142	4.880	60.18	14.49	0.4255	Good
38	3143	8.280	62.81	14.11	0.7336	Good
39	3144	7.980	62.15	12.63	0.6264	Good
40	3145	7.930	63.15	11.75	0.5884	Good
41	3146	3.840	63.27	11.70	0.2842	Good
42	3147	8.020	61.43	14.63	0.7210	Good
43	3148	7.670	62.34	14.44	0.6903	Good
44	3149	7.940	59.60	14.95	0.7075	Good
45	3150	9.780	62.68	15.01	0.9203	Good
46	3179	5.150	52.78	15.02	0.4084	Good
47	3180	9.470	50.33	12.84	0.6118	Good
48	3181	7.580	55.67	10.13	0.4275	Good
49	3182	4.920	58.44	15.31	0.4403	Good
50	3183	9.530	56.59	9.93	0.5356	Good
51	3184	4.380	58.27	13.21	0.3373	Good
52	3113	4.530	61.26	10.17	0.2822	Good
53	3114	4.460	65.32	8.34	0.2431	Inferior
54	3115	4.630	68.14	8.29	0.2616	Inferior
55	3116	4.300	62.72	14.52	0.3917	Good
56	3117	4.520	67.10	11.31	0.3431	Good
57	3118	4.090	60.36	5.37	0.1325	Inferior
58	3151	8.250	56.92	13.32	0.6254	Good
59	3152	7.610	45.76	18.92	0.6590	Good
60	3153	7.590	58.45	15.35	0.6808	Good
61	3154	9.570	61.22	14.41	0.8441	Good
62	3155	4.220	45.84	15.92	0.3081	Good
63	3194	7.900	61.04	14.58	0.7031	Good
64	3195	9.280	65.23	10.30	0.6236	Good
65	3196	9.410	56.37	15.42	0.8177	Good
66	3197	4.780	55.21	9.51	0.2510	Good
67	3198	4.610	51.44	8.94	0.2121	Inferior
68	3199	7.410	51.77	14.14	0.5424	Good
69	3200	4.000	52.20	15.50	0.3236	Good
70	3119	4.120	44.29	18.72	0.3415	Good
71	3120	4.120	49.94	14.04	0.2888	Good
72	3121	4.190	52.83	13.04	0.2887	Good
73	3122	4.460	46.21	16.34	0.3367	Good
74	3123	4.050	52.82	15.94	0.3410	Good

75	3124	7.070	54.74	15.49	0.5995	Good
76	3156	7.940	45.14	16.44	0.5891	Good
77	3157	8.050	58.89	15.69	0.7438	Good
78	3158	4.000	47.62	17.16	0.3268	Good
79	3159	8.030	58.14	15.93	0.7436	Good
80	3160	3.880	48.14	14.87	0.2778	Good
81	3161	4.830	46.92	14.79	0.3352	Good
82	3185	3.700	58.09	16.61	0.3571	Good
83	3186	4.510	52.00	15.50	0.3635	Good
84	3187	4.500	51.61	16.53	0.3839	Good
85	3188	4.540	52.29	14.86	0.3528	Good
86	3189	7.720	59.04	12.79	0.5829	Good
87	3190	9.900	54.92	12.27	0.6673	Good
88	3191	8.010	56.72	13.12	0.5959	Good
89	3192	4.780	63.56	10.78	0.3274	Good
90	3193	4.890	57.43	12.08	0.3394	Good
91	3162	4.790	47.41	17.55	0.3985	Good
92	3163	9.750	49.38	17.09	0.8229	Good
93	3164	4.930	52.05	16.12	0.4136	Good
94	3165	9.600	51.61	16.00	0.7930	Good
95	3166	5.060	51.08	14.88	0.3846	Good
96	3125	3.670	55.40	15.45	0.3142	Good
97	3126	4.310	58.48	14.42	0.3633	Good
98	3127	4.340	59.99	14.94	0.3889	Good
99	3128	7.820	58.77	15.25	0.7007	Good
100	3129	4.480	58.49	15.20	0.3983	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 35/453**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3438	3.730	58.05	15.50	0.3357	Good
2	3439	4.920	57.51	15.89	0.4497	Good
3	3440	4.330	55.29	12.23	0.2927	Good
4	3441	4.630	60.32	10.91	0.3047	Good
5	3442	7.680	61.38	11.24	0.5299	Good
6	3443	4.800	58.73	15.56	0.4387	Good
7	3472	3.820	59.16	16.29	0.3682	Good
8	3473	4.580	60.31	12.93	0.3572	Good
9	3474	3.970	69.67	5.87	0.1624	Inferior
10	3475	4.550	62.62	8.18	0.2330	Inferior
11	3476	3.590	58.89	15.94	0.3371	Good

12	3401	4.640	50.26	17.87	0.4167	Good
13	3402	4.170	50.39	16.83	0.3536	Good
14	3403	4.650	55.88	15.44	0.4013	Good
15	3404	7.680	58.63	12.28	0.5530	Good
16	3405	4.490	52.01	16.02	0.3740	Good
17	3406	3.630	53.71	15.47	0.3017	Good
18	3444	4.930	58.12	16.74	0.4797	Good
19	3445	4.870	59.29	10.58	0.3053	Good
20	3446	7.990	64.09	11.00	0.5633	Good
21	3447	4.760	59.13	13.16	0.3703	Good
22	3448	4.720	60.25	13.96	0.3970	Good
23	3477	4.570	55.43	12.50	0.3167	Good
24	3478	4.830	59.16	11.85	0.3386	Good
25	3479	4.530	48.92	16.01	0.3547	Good
26	3480	3.930	57.20	6.03	0.1356	Inferior
27	3481	4.120	51.36	9.27	0.1961	Good
28	3482	4.980	63.40	13.66	0.4313	Good
29	3407	4.650	46.96	11.16	0.2437	Good
30	3408	4.320	52.10	11.19	0.2519	Good
31	3409	4.310	55.04	10.70	0.2539	Good
32	3410	4.570	54.90	15.15	0.3802	Good
33	3411	7.630	51.79	15.58	0.6157	Good
34	3412	7.440	56.83	11.02	0.4657	Good
35	3449	4.860	54.74	14.45	0.3844	Good
36	3450	4.200	54.37	13.50	0.3083	Good
37	3451	4.020	54.67	16.08	0.3534	Good
38	3452	3.810	63.10	12.65	0.3040	Good
39	3453	4.000	59.92	10.45	0.2504	Good
40	3454	4.030	58.38	15.23	0.3583	Good
41	3483	4.250	58.52	15.36	0.3821	Good
42	3484	4.280	51.86	15.31	0.3398	Good
43	3485	8.060	56.67	13.04	0.5956	Good
44	3486	4.570	66.91	10.03	0.3066	Good
45	3487	4.530	59.96	12.14	0.3298	Good
46	3413	4.240	55.83	13.70	0.3244	Good
47	3414	7.410	55.15	14.20	0.5802	Good
48	3415	4.070	53.41	13.74	0.2987	Good
49	3416	3.740	58.44	12.92	0.2824	Good
50	3417	4.360	64.68	11.55	0.3257	Good
51	3418	3.690	64.39	9.24	0.2196	Good

52	3455	4.060	59.53	9.88	0.2387	Good
53	3456	8.190	63.94	9.76	0.5111	Good
54	3457	8.800	61.23	14.76	0.7955	Good
55	3458	8.070	61.59	9.51	0.4729	Good
56	3459	8.050	57.39	16.22	0.7495	Good
57	3460	7.670	63.39	13.61	0.6619	Good
58	3488	3.550	55.21	16.48	0.3231	Good
59	3489	4.720	57.36	9.92	0.2686	Good
60	3490	7.180	60.20	14.07	0.6081	Good
61	3491	9.130	51.95	14.65	0.6948	Good
62	3492	7.380	58.30	17.38	0.7476	Good
63	3493	7.700	56.05	12.47	0.5382	Good
64	3419	8.110	54.84	9.32	0.4144	Good
65	3420	4.820	44.55	16.34	0.3509	Good
66	3421	4.830	58.32	12.50	0.3521	Good
67	3422	4.660	56.61	11.04	0.2913	Good
68	3423	8.270	58.49	15.69	0.7592	Good
69	3424	4.780	57.00	16.33	0.4450	Good
70	3461	3.940	62.68	11.28	0.2786	Good
71	3462	3.830	62.37	7.58	0.1812	Inferior
72	3463	3.980	65.92	10.63	0.2790	Good
73	3464	3.920	57.03	16.24	0.3630	Good
74	3465	4.920	72.83	9.98	0.3577	Good
75	3466	4.680	63.79	11.11	0.3318	Good
76	3494	4.700	61.33	15.67	0.4517	Good
77	3495	7.870	60.27	15.76	0.7477	Good
78	3496	8.870	55.09	15.96	0.7797	Good
79	3497	7.720	49.26	15.06	0.5728	Good
80	3498	7.210	60.09	12.40	0.5371	Good
81	3499	4.150	55.06	11.91	0.2722	Good
82	3500	4.530	63.41	14.08	0.4045	Good
83	3425	10.180	58.35	17.14	1.0180	Good
84	3426	4.810	59.81	12.09	0.3478	Good
85	3427	8.200	58.74	16.12	0.7765	Good
86	3428	7.650	60.13	11.94	0.5493	Good
87	3429	8.070	57.39	15.02	0.6956	Good
88	3430	4.800	56.36	16.25	0.4397	Good
89	3431	4.630	58.37	16.55	0.4473	Good
90	3432	8.160	56.48	13.99	0.6446	Good
91	3467	4.740	65.82	13.10	0.4086	Good



92	3468	5.050	57.90	12.14	0.3550	Good
93	3469	7.190	59.14	15.29	0.6500	Good
94	3470	4.800	60.00	10.25	0.2952	Good
95	3471	4.500	52.76	10.92	0.2592	Good
96	3433	7.350	56.44	12.31	0.5108	Good
97	3434	4.630	58.21	15.46	0.4167	Good
98	3435	4.710	59.41	12.96	0.3627	Good
99	3436	4.900	53.29	14.94	0.3900	Good
100	3437	4.120	58.06	12.50	0.2991	Good

Date:08.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 04/68**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	336	8.690	53.86	13.46	0.6300	Good
2	337	4.090	55.16	15.43	0.3481	Good
3	338	4.370	58.07	12.69	0.3221	Good
4	339	4.940	52.91	14.78	0.3863	Good
5	340	9.960	57.72	16.09	0.9253	Good
6	341	8.480	54.44	14.90	0.6877	Good
7	373	8.670	58.11	12.42	0.6260	Good
8	374	5.360	58.28	6.95	0.2171	Inferior
9	375	9.100	53.01	16.02	0.7726	Good
10	376	9.260	54.92	16.99	0.8640	Good
11	377	7.430	62.39	13.86	0.6427	Good
12	378	8.200	47.98	17.01	0.6691	Good
13	301	8.480	58.08	12.19	0.6004	Good
14	302	9.750	58.13	15.40	0.8726	Good
15	303	10.310	56.06	14.93	0.8629	Good
16	304	8.090	56.34	13.12	0.5979	Good
17	305	9.260	56.25	14.92	0.7769	Good
18	306	4.260	55.98	12.65	0.3016	Good
19	342	9.540	59.81	17.76	1.0131	Good
20	343	7.870	56.17	15.35	0.6784	Good
21	344	9.720	59.04	10.59	0.6075	Good
22	345	7.990	59.26	11.05	0.5233	Good
23	346	8.210	57.73	14.71	0.6970	Good
24	347	7.730	61.24	14.06	0.6656	Good
25	379	8.520	53.92	15.39	0.7072	Good
26	380	8.550	62.16	12.40	0.6592	Good
27	381	4.370	60.92	12.38	0.3295	Good
28	382	7.190	68.91	13.44	0.6658	Good
29	383	7.970	64.06	15.83	0.8082	Good
30	384	8.060	56.76	13.27	0.6069	Good
31	307	9.730	58.60	12.73	0.7259	Good
32	308	4.120	56.55	14.24	0.3317	Good
33	309	9.490	60.71	11.35	0.6539	Good
34	310	8.120	61.97	13.36	0.6723	Good

35	311	9.840	63.70	11.13	0.6977	Good
36	312	9.710	63.55	12.23	0.7545	Good
37	348	7.920	55.58	13.76	0.6059	Good
38	349	9.500	59.42	13.14	0.7420	Good
39	350	9.350	54.43	12.81	0.6517	Good
40	351	9.310	61.56	11.76	0.6740	Good
41	352	9.950	61.02	11.05	0.6706	Good
42	353	7.970	56.12	13.90	0.6217	Good
43	354	7.740	55.91	15.01	0.6494	Good
44	355	9.420	53.29	14.36	0.7206	Good
45	356	8.180	58.11	11.96	0.5685	Good
46	385	9.350	49.88	16.90	0.7882	Good
47	386	9.040	60.05	13.57	0.7368	Good
48	387	3.920	54.21	13.56	0.2881	Good
49	388	8.150	53.83	14.69	0.6447	Good
50	389	8.420	60.81	14.24	0.7292	Good
51	313	9.710	60.23	12.67	0.7409	Good
52	314	9.920	59.70	11.93	0.7063	Good
53	315	9.540	60.49	14.07	0.8119	Good
54	316	4.410	59.86	11.88	0.3136	Good
55	317	7.660	63.11	10.41	0.5033	Good
56	318	9.750	63.32	13.11	0.8093	Good
57	357	10.520	56.08	13.62	0.8037	Good
58	358	5.010	58.27	13.40	0.3913	Good
59	359	4.690	58.56	13.39	0.3677	Good
60	360	8.590	57.13	13.90	0.6820	Good
61	361	9.710	55.26	13.45	0.7215	Good
62	390	7.940	52.03	16.34	0.6749	Good
63	391	4.810	54.54	13.15	0.3449	Good
64	392	4.810	59.64	14.27	0.4093	Good
65	393	9.610	60.79	15.66	0.9149	Good
66	319	10.770	65.60	14.92	1.0544	Good
67	320	10.660	64.01	13.90	0.9487	Good
68	321	8.120	51.37	13.02	0.5432	Good
69	322	10.360	60.42	15.31	0.9583	Good
70	323	9.880	56.97	15.29	0.8605	Good
71	324	10.010	53.64	15.60	0.8378	Good
72	362	3.960	61.82	11.18	0.2736	Good
73	363	7.580	58.51	14.15	0.6276	Good
74	364	4.130	59.43	13.31	0.3267	Good

75	365	9.350	60.58	12.28	0.6956	Good
76	366	3.910	61.23	13.95	0.3339	Good
77	367	3.910	64.90	13.36	0.3390	Good
78	394	5.360	58.20	14.02	0.4374	Good
79	395	9.230	55.90	17.58	0.9073	Good
80	396	4.490	63.81	13.23	0.3790	Good
81	397	7.690	57.91	13.37	0.5952	Good
82	398	9.030	56.21	14.91	0.7567	Good
83	399	4.460	57.12	17.09	0.4353	Good
84	400	9.040	57.83	15.72	0.8217	Good
85	325	5.130	53.00	12.55	0.3411	Good
86	326	8.060	55.79	13.08	0.5884	Good
87	327	8.250	53.83	14.10	0.6262	Good
88	328	9.590	54.27	12.01	0.6253	Good
89	329	9.280	59.25	11.73	0.6450	Good
90	330	7.580	57.63	12.98	0.5670	Good
91	368	7.930	53.39	13.94	0.5900	Good
92	369	9.020	51.51	16.66	0.7739	Good
93	370	9.170	55.72	13.23	0.6758	Good
94	371	9.120	56.09	16.40	0.8390	Good
95	372	9.330	66.05	15.03	0.9265	Good
96	331	9.310	58.87	13.54	0.7420	Good
97	332	9.880	56.24	12.89	0.7163	Good
98	333	7.970	59.87	14.13	0.6743	Good
99	334	10.130	58.46	13.02	0.7709	Good
100	335	9.550	58.09	12.67	0.7029	Good

DATE: 05.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 31/449**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3037	7.720	57.54	14.72	0.6539	Good
2	3038	4.430	64.28	11.22	0.3194	Good
3	3039	7.490	58.11	14.61	0.6359	Good
4	3040	7.870	55.47	14.58	0.6367	Good
5	3041	4.470	60.34	10.84	0.2923	Good
6	3042	9.360	61.51	13.93	0.8022	Good
7	3043	4.360	60.88	11.53	0.3061	Good
8	3044	7.510	57.58	13.16	0.5693	Good
9	3045	4.510	57.01	13.23	0.3401	Good
10	3046	4.570	61.31	13.65	0.3825	Good
11	3047	9.350	57.96	13.10	0.7097	Good
12	3048	9.640	59.85	12.90	0.7442	Good
13	3001	4.130	62.16	12.92	0.3316	Good
14	3002	4.940	62.60	12.48	0.3858	Good
15	3003	4.450	52.97	15.71	0.3702	Good
16	3004	4.760	58.78	11.62	0.3251	Good
17	3005	4.740	53.72	14.63	0.3726	Good
18	3006	4.700	52.94	16.74	0.4164	Good
19	3049	7.920	59.95	12.46	0.5916	Good
20	3050	9.450	58.19	14.95	0.8222	Good
21	3051	9.410	56.69	13.49	0.7199	Good
22	3052	7.640	55.50	13.91	0.5898	Good
23	3053	4.720	58.86	13.66	0.3795	Good
24	3076	4.040	48.49	17.24	0.3377	Good
25	3077	4.130	57.80	13.75	0.3283	Good
26	3078	4.220	60.68	12.62	0.3233	Good
27	3079	4.660	56.07	14.13	0.3691	Good
28	3007	4.610	57.28	11.77	0.3107	Good
29	3008	7.830	56.94	13.75	0.6131	Good
30	3009	4.800	58.37	13.96	0.3912	Good
31	3010	7.510	55.19	11.87	0.4919	Good
32	3011	7.900	59.51	12.60	0.5925	Good
33	3012	3.840	55.32	13.14	0.2792	Good
34	3054	4.740	62.47	13.08	0.3873	Good

35	3055	9.280	57.92	15.25	0.8194	Good
36	3056	9.470	59.70	13.13	0.7424	Good
37	3057	4.990	61.94	11.19	0.3458	Good
38	3058	4.660	62.72	12.45	0.3639	Good
39	3059	7.720	57.34	11.98	0.5304	Good
40	3080	8.020	56.48	14.13	0.6400	Good
41	3081	4.170	57.66	12.23	0.2940	Good
42	3082	7.950	57.21	14.93	0.6789	Good
43	3083	4.410	54.17	15.56	0.3718	Good
44	3084	4.380	54.89	12.83	0.3084	Good
45	3085	4.570	54.48	15.64	0.3894	Good
46	3013	4.660	53.60	16.08	0.4017	Good
47	3014	7.830	56.33	12.80	0.5645	Good
48	3015	4.670	59.78	12.75	0.3559	Good
49	3016	4.550	59.15	12.29	0.3308	Good
50	3017	4.730	63.82	13.01	0.3926	Good
51	3018	4.780	62.10	12.69	0.3767	Good
52	3060	9.550	61.26	12.72	0.7439	Good
53	3061	9.610	59.76	11.65	0.6689	Good
54	3062	3.920	62.81	12.58	0.3097	Good
55	3063	4.810	61.49	13.11	0.3877	Good
56	3064	4.710	64.74	11.72	0.3575	Good
57	3086	4.550	54.40	12.89	0.3190	Good
58	3087	4.590	56.96	12.22	0.3195	Good
59	3088	4.470	58.93	15.19	0.4001	Good
60	3089	4.550	57.10	14.52	0.3772	Good
61	3090	8.030	58.03	14.22	0.6625	Good
62	3019	7.760	58.48	14.12	0.6410	Good
63	3020	4.980	53.06	15.11	0.3994	Good
64	3021	7.100	55.78	16.33	0.6468	Good
65	3022	3.990	52.12	17.13	0.3563	Good
66	3023	7.770	51.41	17.62	0.7040	Good
67	3024	7.810	55.32	17.68	0.7638	Good
68	3065	4.250	59.07	16.12	0.4046	Good
69	3066	7.390	61.08	15.09	0.6814	Good
70	3067	4.100	47.25	18.50	0.3583	Good
71	3068	4.170	58.02	16.94	0.4099	Good
72	3069	7.100	61.36	17.29	0.7533	Good
73	3070	4.330	60.73	15.12	0.3975	Good
74	3091	4.520	62.30	13.88	0.3910	Good

75	3092	4.550	60.73	14.16	0.3913	Good
76	3093	4.370	56.85	14.49	0.3601	Good
77	3094	7.540	53.48	17.26	0.6959	Good
78	3095	4.490	59.65	15.42	0.4131	Good
79	3096	4.760	57.52	15.77	0.4317	Good
80	3025	7.990	52.42	19.74	0.8270	Good
81	3026	8.760	50.70	16.25	0.7218	Good
82	3027	4.500	57.28	17.21	0.4437	Good
83	3028	4.010	59.43	15.82	0.3769	Good
84	3029	7.600	56.51	15.82	0.6794	Good
85	3030	3.950	55.85	13.89	0.3065	Good
86	3071	4.140	58.30	17.02	0.4107	Good
87	3072	4.430	53.84	17.12	0.4084	Good
88	3073	4.670	52.63	15.73	0.3867	Good
89	3074	4.600	54.54	16.43	0.4122	Good
90	3075	4.650	53.51	14.61	0.3636	Good
91	3097	8.680	53.36	15.01	0.6953	Good
92	3098	4.750	61.36	18.30	0.5334	Good
93	3099	5.030	62.82	14.68	0.4638	Good
94	3100	4.950	59.53	15.34	0.4519	Good
95	3031	3.680	56.50	17.40	0.3617	Good
96	3032	7.750	58.72	13.22	0.6014	Good
97	3033	9.320	58.38	13.17	0.7167	Good
98	3034	7.750	60.19	15.67	0.7308	Good
99	3035	4.540	55.90	17.91	0.4545	Good
100	3036	4.580	61.87	14.05	0.3980	Good

**Name of Division : CHITTORGARH-III**

**Challan No. : 51/536**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5037	4.620	55.49	14.74	0.3779	Good
2	5038	4.750	56.76	13.46	0.3629	Good
3	5039	7.910	63.93	14.19	0.7174	Good
4	5040	4.720	55.44	16.65	0.4357	Good
5	5041	4.770	56.28	15.07	0.4045	Good
6	5042	4.710	56.97	16.24	0.4357	Good
7	5073	4.840	54.52	13.72	0.3620	Good
8	5074	4.810	59.43	12.40	0.3545	Good
9	5075	4.810	56.74	13.38	0.3651	Good
10	5076	9.660	57.06	11.69	0.6443	Good
11	5077	8.040	63.06	11.42	0.5789	Good

12	5001	3.970	60.80	13.49	0.3255	Good
13	5002	7.910	61.79	13.11	0.6407	Good
14	5003	4.750	49.59	15.85	0.3734	Good
15	5004	7.850	58.20	14.42	0.6586	Good
16	5005	9.340	60.69	13.76	0.7799	Good
17	5006	7.840	57.84	17.08	0.7746	Good
18	5043	4.820	62.86	12.36	0.3745	Good
19	5044	4.640	54.96	13.30	0.3392	Good
20	5045	4.830	56.63	17.68	0.4835	Good
21	5046	8.190	57.65	15.13	0.7142	Good
22	5047	4.850	52.43	14.46	0.3676	Good
23	5048	3.980	57.29	16.77	0.3825	Good
24	5078	9.720	59.50	12.39	0.7164	Good
25	5079	8.440	61.04	12.29	0.6330	Good
26	5080	9.510	63.52	10.88	0.6571	Good
27	5081	7.820	59.17	11.88	0.5497	Good
28	5007	8.170	59.04	14.94	0.7206	Good
29	5008	4.830	57.77	16.10	0.4492	Good
30	5009	4.870	60.37	12.03	0.3536	Good
31	5010	4.790	60.75	15.24	0.4436	Good
32	5011	4.710	60.50	14.02	0.3994	Good
33	5012	4.690	56.02	18.90	0.4967	Good
34	5049	7.640	53.24	14.88	0.6051	Good
35	5050	9.260	58.41	12.58	0.6806	Good
36	5051	9.530	53.78	14.08	0.7214	Good
37	5052	4.760	59.87	14.33	0.4084	Good
38	5053	7.720	58.26	13.25	0.5960	Good
39	5054	9.530	57.63	13.03	0.7157	Good
40	5082	7.890	60.24	10.61	0.5042	Good
41	5083	4.770	61.47	13.18	0.3864	Good
42	5084	4.750	63.28	15.11	0.4541	Good
43	5085	4.880	63.50	10.90	0.3377	Good
44	5086	4.900	59.79	12.71	0.3724	Good
45	5087	4.780	60.80	12.22	0.3552	Good
46	5013	9.450	60.01	13.25	0.7513	Good
47	5014	4.720	58.11	16.69	0.4578	Good
48	5015	5.040	61.18	16.93	0.5221	Good
49	5016	7.590	63.27	6.64	0.3188	Inferior
50	5017	4.870	58.44	11.45	0.3258	Good
51	5018	4.020	57.78	14.12	0.3280	Good



52	5055	4.860	64.08	11.38	0.3543	Good
53	5056	7.720	58.32	16.68	0.7512	Good
54	5057	4.730	56.37	17.24	0.4598	Good
55	5058	4.700	57.83	12.31	0.3346	Good
56	5059	9.240	57.67	13.35	0.7115	Good
57	5060	5.000	65.00	10.78	0.3505	Good
58	5088	4.980	60.82	12.50	0.3785	Good
59	5089	4.570	62.55	12.36	0.3533	Good
60	5090	4.940	64.12	12.91	0.4090	Good
61	5091	3.930	62.60	13.90	0.3419	Good
62	5092	4.660	53.31	13.67	0.3397	Good
63	5019	4.700	61.43	14.00	0.4042	Good
64	5020	7.710	51.05	15.75	0.6199	Good
65	5021	9.580	57.23	13.98	0.7664	Good
66	5022	8.000	57.61	13.75	0.6336	Good
67	5023	9.250	58.76	13.90	0.7557	Good
68	5024	7.470	59.85	14.39	0.6432	Good
69	5061	4.690	56.53	12.35	0.3274	Good
70	5062	4.780	58.85	17.21	0.4842	Good
71	5063	7.840	60.95	12.16	0.5809	Good
72	5064	3.990	62.21	16.46	0.4086	Good
73	5065	3.930	61.12	11.11	0.2668	Good
74	5066	8.360	66.74	9.23	0.5150	Good
75	5067	4.510	48.88	13.95	0.3076	Good
76	5093	4.630	60.11	9.43	0.2625	Good
77	5094	9.790	59.46	10.01	0.5825	Good
78	5095	9.540	59.00	12.92	0.7269	Good
79	5096	9.520	62.75	11.01	0.6578	Good
80	5097	4.780	61.43	12.14	0.3566	Good
81	5098	7.980	62.63	12.09	0.6041	Good
82	5099	8.000	66.88	7.28	0.3896	Inferior
83	5100	8.840	53.53	15.52	0.7346	Good
84	5025	9.300	55.60	14.19	0.7338	Good
85	5026	4.910	60.06	14.12	0.4164	Good
86	5027	7.760	57.42	13.04	0.5812	Good
87	5028	4.810	58.87	12.28	0.3478	Good
88	5029	4.990	56.18	14.90	0.4177	Good
89	5030	9.440	61.31	13.36	0.7731	Good
90	5031	7.950	59.35	13.90	0.6559	Good
91	5068	8.410	58.00	13.38	0.6526	Good

92	5069	7.760	63.28	11.39	0.5595	Good
93	5070	4.370	57.90	11.36	0.2875	Good
94	5071	9.050	60.00	12.02	0.6525	Good
95	5072	4.680	60.19	11.18	0.3150	Good
96	5032	4.860	58.76	12.81	0.3660	Good
97	5033	4.900	58.27	12.77	0.3646	Good
98	5034	7.960	57.95	14.34	0.6615	Good
99	5035	9.480	62.73	15.21	0.9044	Good
100	5036	9.800	59.25	12.69	0.7370	Good

DATE: 03.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 36/498**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3534	7.910	55.32	16.00	0.7000	Good
2	3535	4.410	60.01	14.13	0.3740	Good
3	3536	7.160	50.27	14.62	0.5263	Good
4	3537	4.260	60.13	14.70	0.3766	Good
5	3538	3.920	56.97	16.97	0.3791	Good
6	3539	4.050	59.04	14.67	0.3507	Good
7	3540	4.630	59.54	13.17	0.3630	Good
8	3565	4.270	54.39	14.86	0.3450	Good
9	3566	7.500	57.37	14.00	0.6023	Good
10	3567	3.890	61.42	12.73	0.3042	Good
11	3568	3.890	62.02	12.22	0.2949	Good
12	3501	7.640	56.01	15.34	0.6563	Good
13	3502	4.540	56.60	14.06	0.3614	Good
14	3503	7.600	56.44	14.67	0.6293	Good
15	3504	6.860	63.26	13.34	0.5790	Good
16	3505	7.020	60.44	16.10	0.6830	Good
17	3506	7.470	59.60	14.23	0.6335	Good
18	3541	7.960	55.39	12.29	0.5421	Good
19	3542	4.660	58.26	10.37	0.2815	Good
20	3543	7.820	58.45	12.66	0.5787	Good
21	3544	4.540	60.75	17.63	0.4862	Good
22	3545	7.420	61.18	14.66	0.6656	Good
23	3546	7.220	58.72	13.30	0.5639	Good
24	3569	3.710	62.23	12.55	0.2898	Good
25	3570	3.600	62.87	12.52	0.2833	Good
26	3571	3.580	66.18	10.11	0.2395	Good
27	3572	3.880	56.30	15.04	0.3286	Good
28	3573	4.610	65.63	11.63	0.3517	Good
29	3574	3.640	62.75	11.06	0.2526	Good
30	3575	9.540	56.80	13.38	0.7250	Good
31	3587	5.070	58.58	12.36	0.3671	Good
32	3588	9.540	58.36	12.01	0.6688	Good
33	3589	3.970	53.60	12.22	0.2600	Good
34	3590	5.010	56.69	14.04	0.3988	Good

35	3591	8.050	58.93	10.57	0.5015	Good
36	3592	9.780	58.02	13.08	0.7423	Good
37	3593	9.790	58.25	12.17	0.6941	Good
38	3594	9.850	53.61	14.47	0.7644	Good
39	3507	7.570	60.22	10.16	0.4633	Good
40	3508	9.080	59.32	13.69	0.7373	Good
41	3509	7.370	60.32	12.30	0.5469	Good
42	3510	4.450	60.01	13.13	0.3507	Good
43	3511	7.330	63.24	12.82	0.5945	Good
44	3512	7.640	63.25	13.22	0.6387	Good
45	3513	4.410	60.47	12.01	0.3202	Good
46	3547	8.850	59.06	11.51	0.6018	Good
47	3548	7.000	58.73	11.46	0.4711	Good
48	3549	7.370	57.58	10.84	0.4599	Good
49	3550	4.400	59.37	9.77	0.2552	Good
50	3551	4.310	59.44	10.45	0.2677	Good
51	3576	8.190	60.52	11.19	0.5545	Good
52	3577	4.650	55.27	15.22	0.3911	Good
53	3578	7.530	61.61	9.77	0.4533	Good
54	3579	8.500	59.66	14.40	0.7302	Good
55	3580	10.180	58.66	12.02	0.7177	Good
56	3581	9.620	56.93	13.46	0.7369	Good
57	3514	7.360	62.65	11.40	0.5255	Good
58	3515	7.320	62.82	13.21	0.6076	Good
59	3516	8.770	62.27	12.65	0.6911	Good
60	3517	7.280	62.60	13.61	0.6203	Good
61	3518	4.290	67.03	14.38	0.4136	Good
62	3519	7.320	62.45	12.99	0.5937	Good
63	3520	3.760	65.72	12.29	0.3038	Good
64	3552	7.810	58.41	13.27	0.6053	Good
65	3553	4.380	65.86	13.38	0.3859	Good
66	3554	4.630	60.47	11.53	0.3227	Good
67	3555	7.580	60.17	13.25	0.6041	Good
68	3556	3.870	58.09	12.17	0.2736	Good
69	3557	3.930	58.74	13.60	0.3140	Good
70	3558	3.920	59.26	9.94	0.2309	Good
71	3559	7.730	64.32	9.11	0.4530	Good
72	3582	9.730	59.67	12.89	0.7482	Good
73	3583	9.920	53.65	14.56	0.7748	Good
74	3584	9.690	54.27	13.60	0.7151	Good

75	3585	10.030	58.00	12.41	0.7222	Good
76	3586	5.110	61.82	18.02	0.5693	Good
77	3595	8.130	60.42	11.87	0.5829	Good
78	3596	4.900	55.07	15.96	0.4307	Good
79	3597	9.820	60.75	11.24	0.6707	Good
80	3598	8.820	60.76	11.70	0.6271	Good
81	3599	7.960	63.89	7.39	0.3757	Inferior
82	3600	7.970	55.82	14.06	0.6256	Good
83	3521	4.640	68.47	13.86	0.4403	Good
84	3522	4.850	57.73	16.51	0.4622	Good
85	3523	4.230	55.26	14.66	0.3426	Good
86	3524	3.970	54.77	13.86	0.3013	Good
87	3525	7.440	56.87	16.55	0.7001	Good
88	3526	7.280	56.91	11.70	0.4848	Good
89	3527	7.360	57.48	13.40	0.5667	Good
90	3528	4.150	53.76	12.67	0.2826	Good
91	3560	4.370	62.25	8.02	0.2181	Inferior
92	3561	7.310	61.64	13.22	0.5958	Good
93	3562	7.300	58.21	13.16	0.5592	Good
94	3563	4.620	60.86	11.63	0.3271	Good
95	3564	7.390	62.61	9.14	0.4227	Good
96	3529	9.200	62.07	10.17	0.5805	Good
97	3530	4.460	59.77	16.06	0.4282	Good
98	3531	4.310	51.84	14.91	0.3332	Good
99	3532	4.180	59.62	13.97	0.3482	Good
100	3533	4.650	59.55	15.16	0.4199	Good

DATE: 02.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 03/67**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	239	4.140	56.73	16.68	0.3916	Good
2	240	9.690	60.93	14.61	0.8624	Good
3	241	9.620	57.26	15.42	0.8494	Good
4	242	9.600	58.14	11.56	0.6451	Good
5	243	8.010	60.40	13.73	0.6640	Good
6	244	8.230	59.50	13.34	0.6535	Good
7	272	3.800	66.55	10.14	0.2565	Good
8	273	9.860	49.72	13.76	0.6744	Good
9	274	8.800	55.06	12.22	0.5922	Good
10	275	9.460	55.07	15.53	0.8088	Good
11	276	8.080	57.16	15.41	0.7118	Good
12	277	7.950	53.15	16.26	0.6869	Good
13	201	8.210	50.86	12.23	0.5107	Good
14	202	8.510	59.62	10.27	0.5208	Good
15	203	5.070	50.74	16.69	0.4294	Good
16	204	9.670	55.71	14.41	0.7765	Good
17	205	8.180	51.62	17.05	0.7198	Good
18	206	9.970	54.15	13.83	0.7468	Good
19	245	9.560	53.63	14.60	0.7485	Good
20	246	9.450	56.63	15.61	0.8354	Good
21	247	7.950	56.58	12.34	0.5549	Good
22	248	9.480	57.65	15.78	0.8627	Good
23	249	9.420	61.76	16.58	0.9646	Good
24	250	7.990	58.93	13.37	0.6296	Good
25	278	9.390	55.77	14.29	0.7484	Good
26	279	8.190	59.98	18.06	0.8870	Good
27	280	7.910	56.43	14.46	0.6455	Good
28	281	9.990	59.99	14.62	0.8761	Good
29	207	9.640	55.81	11.95	0.6430	Good
30	208	10.010	55.31	14.57	0.8068	Good
31	209	10.150	56.39	13.90	0.7958	Good
32	210	9.840	56.46	13.16	0.7311	Good
33	211	10.070	54.94	12.96	0.7170	Good
34	212	9.780	57.36	14.35	0.8049	Good

35	251	9.380	56.92	12.12	0.6472	Good
36	252	7.830	59.94	12.40	0.5818	Good
37	253	8.920	60.89	13.29	0.7216	Good
38	254	9.360	58.71	14.41	0.7919	Good
39	255	7.900	58.69	13.15	0.6099	Good
40	282	7.920	59.55	13.13	0.6193	Good
41	283	7.810	54.90	14.88	0.6381	Good
42	284	8.100	54.86	15.82	0.7031	Good
43	285	4.970	52.49	14.73	0.3842	Good
44	286	8.120	57.23	15.04	0.6991	Good
45	287	4.170	55.38	15.84	0.3657	Good
46	213	9.870	55.31	14.55	0.7945	Good
47	214	8.820	57.04	16.81	0.8458	Good
48	215	5.210	55.60	12.46	0.3611	Good
49	216	9.990	51.18	15.30	0.7822	Good
50	217	4.360	53.86	13.81	0.3244	Good
51	218	4.220	56.02	11.48	0.2713	Good
52	256	9.400	59.42	13.93	0.7783	Good
53	257	4.020	58.17	14.05	0.3284	Good
54	258	4.360	54.51	15.70	0.3732	Good
55	259	4.410	58.04	15.63	0.4000	Good
56	260	9.510	60.33	13.33	0.7646	Good
57	261	9.700	60.27	12.84	0.7508	Good
58	288	5.290	55.33	14.75	0.4317	Good
59	289	10.230	56.46	12.38	0.7151	Good
60	290	9.990	54.87	13.81	0.7572	Good
61	291	9.790	58.72	12.89	0.7411	Good
62	292	7.960	59.52	13.46	0.6376	Good
63	293	8.390	60.28	10.22	0.5168	Good
64	294	9.660	57.83	11.00	0.6144	Good
65	219	4.310	55.98	15.01	0.3620	Good
66	220	9.920	59.29	14.72	0.8660	Good
67	221	8.810	57.32	13.83	0.6986	Good
68	222	9.920	58.94	10.45	0.6111	Good
69	223	9.990	61.65	12.00	0.7393	Good
70	224	3.990	58.95	13.08	0.3076	Good
71	262	9.780	56.19	13.26	0.7286	Good
72	263	8.190	59.16	13.00	0.6298	Good
73	264	9.350	59.26	12.67	0.7022	Good
74	265	7.990	62.14	12.73	0.6320	Good

75	266	3.990	59.12	12.20	0.2877	Good
76	267	4.210	60.62	9.70	0.2475	Good
77	295	8.090	60.86	12.67	0.6237	Good
78	296	9.450	61.83	14.30	0.8354	Good
79	297	7.890	61.12	13.42	0.6470	Good
80	298	9.620	59.43	13.07	0.7475	Good
81	299	9.660	60.95	14.34	0.8443	Good
82	300	9.680	59.00	11.98	0.6844	Good
83	225	4.220	60.70	12.93	0.3313	Good
84	226	4.100	58.03	13.49	0.3210	Good
85	227	9.590	64.94	10.26	0.6387	Good
86	228	4.410	60.54	14.68	0.3920	Good
87	229	6.760	54.61	15.42	0.5692	Good
88	230	4.370	60.05	13.42	0.3522	Good
89	231	4.310	54.43	12.81	0.3004	Good
90	232	7.750	62.50	14.26	0.6905	Good
91	268	4.200	59.22	15.54	0.3864	Good
92	269	9.560	64.18	15.61	0.9579	Good
93	270	4.730	67.81	6.98	0.2237	Inferior
94	271	4.270	64.64	12.56	0.3467	Good
95	233	8.940	48.94	17.14	0.7501	Good
96	234	9.770	56.84	14.27	0.7923	Good
97	235	9.750	54.54	17.02	0.9048	Good
98	236	7.650	55.90	17.76	0.7596	Good
99	237	8.240	54.95	14.36	0.6501	Good
100	238	9.150	57.82	15.15	0.8015	Good

DATE: 01.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTOREGARGH-III****Challan No. : 02/66**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	148	9.590	58.34	12.27	0.6866	Good
2	149	8.250	58.76	13.22	0.6410	Good
3	150	8.140	58.10	10.40	0.4917	Good
4	151	8.150	57.44	12.22	0.5721	Good
5	152	9.310	58.86	12.22	0.6694	Good
6	101	9.480	60.59	11.07	0.6361	Good
7	102	9.470	60.32	7.69	0.4394	Inferior
8	103	9.290	57.79	11.21	0.6020	Good
9	104	9.390	60.22	9.75	0.5512	Good
10	105	7.680	57.03	11.77	0.5153	Good
11	106	7.980	58.40	10.53	0.4908	Good
12	107	9.410	62.58	10.77	0.6342	Good
13	108	9.320	59.79	10.55	0.5881	Good
14	180	4.330	61.13	12.15	0.3217	Good
15	181	9.580	58.91	11.05	0.6237	Good
16	182	9.280	61.02	11.08	0.6273	Good
17	183	9.470	62.63	9.01	0.5341	Good
18	184	9.800	60.31	13.08	0.7732	Good
19	185	9.720	58.00	10.97	0.6182	Good
20	197	9.530	56.69	11.20	0.6052	Good
21	198	4.940	55.60	11.87	0.3260	Good
22	199	9.960	56.97	10.69	0.6066	Good
23	200	9.540	54.15	10.58	0.5466	Good
24	109	9.150	62.45	11.75	0.6716	Good
25	110	8.960	60.14	11.62	0.6263	Good
26	111	9.060	61.89	10.76	0.6034	Good
27	112	7.690	60.89	10.38	0.4860	Good
28	113	8.810	59.58	11.28	0.5920	Good
29	114	9.480	61.78	12.24	0.7167	Good
30	115	8.750	60.69	12.28	0.6519	Good
31	153	7.730	57.74	13.46	0.6006	Good
32	154	9.550	58.04	12.59	0.6981	Good
33	155	9.810	60.44	10.59	0.6278	Good
34	156	5.110	58.33	13.49	0.4022	Good

35	157	5.070	55.46	12.13	0.3412	Good
36	158	9.980	56.58	12.69	0.7166	Good
37	159	8.250	58.29	11.67	0.5610	Good
38	116	9.150	58.16	14.06	0.7485	Good
39	117	9.510	60.31	13.08	0.7503	Good
40	118	8.990	58.60	12.51	0.6590	Good
41	119	7.890	58.68	11.74	0.5436	Good
42	120	9.150	58.52	12.99	0.6954	Good
43	121	8.860	58.56	12.50	0.6486	Good
44	122	9.490	57.46	13.57	0.7402	Good
45	123	9.500	58.51	12.58	0.6992	Good
46	172	9.750	59.52	11.58	0.6718	Good
47	173	8.140	58.84	10.59	0.5071	Good
48	174	8.010	60.59	12.53	0.6080	Good
49	175	5.020	57.76	12.71	0.3685	Good
50	176	9.680	57.48	13.01	0.7241	Good
51	177	4.640	60.65	10.27	0.2891	Good
52	178	9.580	58.78	10.70	0.6026	Good
53	179	10.010	57.61	10.62	0.6126	Good
54	124	9.540	58.28	13.19	0.7336	Good
55	125	9.430	59.48	10.91	0.6120	Good
56	126	9.150	60.60	11.55	0.6405	Good
57	127	7.900	58.88	11.84	0.5506	Good
58	128	9.150	58.12	12.03	0.6396	Good
59	129	9.260	62.92	11.86	0.6908	Good
60	130	9.220	59.51	11.93	0.6546	Good
61	160	10.120	54.02	13.51	0.7388	Good
62	161	7.610	59.34	11.95	0.5395	Good
63	162	8.010	56.90	10.98	0.5006	Good
64	163	4.790	56.70	13.62	0.3698	Good
65	164	8.160	58.19	10.74	0.5100	Good
66	165	8.920	56.50	12.23	0.6164	Good
67	166	9.650	55.30	10.80	0.5761	Good
68	131	9.360	61.95	11.38	0.6599	Good
69	132	7.750	61.62	11.98	0.5720	Good
70	133	9.230	60.05	10.62	0.5889	Good
71	134	4.770	59.92	11.43	0.3267	Good
72	135	9.470	64.77	11.44	0.7017	Good
73	136	9.580	60.26	13.33	0.7693	Good
74	186	3.750	59.61	11.47	0.2565	Good

75	187	9.570	61.39	11.37	0.6680	Good
76	188	8.360	61.17	9.60	0.4907	Good
77	189	9.920	62.65	11.65	0.7242	Good
78	190	7.890	62.00	9.47	0.4631	Good
79	191	10.100	65.97	10.34	0.6888	Good
80	137	4.080	52.93	7.12	0.1538	Inferior
81	138	9.790	51.06	7.81	0.3906	Inferior
82	139	9.870	55.06	13.00	0.7067	Good
83	140	8.180	55.33	15.34	0.6945	Good
84	141	9.330	62.63	12.13	0.7091	Good
85	142	9.540	57.06	12.71	0.6917	Good
86	167	9.640	56.86	12.61	0.6912	Good
87	168	9.230	58.22	12.74	0.6849	Good
88	169	7.990	60.34	11.55	0.5569	Good
89	170	9.220	60.10	12.20	0.6758	Good
90	171	9.820	61.90	10.40	0.6324	Good
91	192	9.250	59.25	12.05	0.6605	Good
92	193	9.600	62.73	10.95	0.6595	Good
93	194	4.810	60.31	13.08	0.3795	Good
94	195	9.910	51.73	14.02	0.7185	Good
95	196	9.500	56.75	13.13	0.7078	Good
96	143	8.070	54.73	13.17	0.5818	Good
97	144	7.970	56.81	12.90	0.5842	Good
98	145	8.030	56.48	12.55	0.5693	Good
99	146	9.340	56.46	13.27	0.6996	Good
100	147	9.640	62.73	10.95	0.6623	Good

DATE: 22.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTOREGARH-III****Challan No. : 01/65**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	38	8.060	60.36	10.35	0.5038	Good
2	39	9.060	60.85	12.13	0.6686	Good
3	40	4.170	58.84	12.85	0.3153	Good
4	41	9.300	64.09	11.58	0.6901	Good
5	42	9.570	67.01	6.22	0.3991	Inferior
6	43	4.170	62.54	10.73	0.2798	Good
7	72	10.050	62.12	10.99	0.6864	Good
8	73	9.950	58.31	9.86	0.5721	Good
9	74	9.170	57.24	11.13	0.5841	Good
10	75	3.340	62.31	10.38	0.2161	Good
11	76	9.710	55.59	12.66	0.6836	Good
12	77	9.340	58.20	11.39	0.6192	Good
13	1	9.600	56.63	10.82	0.5885	Good
14	2	6.720	54.84	11.93	0.4395	Good
15	3	9.490	57.41	13.17	0.7174	Good
16	4	9.280	57.90	11.97	0.6431	Good
17	5	9.540	59.25	11.81	0.6678	Good
18	6	9.610	59.13	12.65	0.7188	Good
19	44	9.220	58.57	12.26	0.6620	Good
20	45	4.130	64.19	12.49	0.3312	Good
21	46	10.020	51.22	12.67	0.6503	Good
22	47	9.970	54.08	11.83	0.6381	Good
23	48	8.220	52.95	13.35	0.5812	Good
24	7	8.040	60.23	11.42	0.5532	Good
25	8	8.140	60.41	11.72	0.5763	Good
26	9	4.000	56.96	12.22	0.2784	Good
27	10	7.740	58.01	11.34	0.5093	Good
28	11	4.830	60.08	11.25	0.3265	Good
29	12	9.490	58.43	12.58	0.6975	Good
30	78	10.040	62.00	12.44	0.7741	Good
31	79	10.050	55.84	12.43	0.6975	Good
32	80	4.910	61.50	11.84	0.3574	Good
33	81	9.930	59.75	10.29	0.6107	Good
34	82	9.320	60.79	12.27	0.6953	Good

35	83	9.100	59.61	11.34	0.6152	Good
36	84	4.070	64.89	9.06	0.2393	Good
37	49	10.050	50.13	13.80	0.6955	Good
38	50	8.260	57.45	9.99	0.4741	Good
39	51	4.120	53.12	13.44	0.2942	Good
40	52	4.360	64.94	11.36	0.3218	Good
41	53	4.230	52.28	12.43	0.2750	Good
42	54	4.820	55.61	12.86	0.3446	Good
43	55	9.130	53.29	12.97	0.6309	Good
44	56	10.020	62.93	11.87	0.7485	Good
45	57	8.140	54.61	12.60	0.5600	Good
46	13	9.610	59.04	12.57	0.7131	Good
47	14	9.450	58.37	12.16	0.6710	Good
48	15	9.700	57.26	13.29	0.7382	Good
49	16	9.100	59.66	11.20	0.6079	Good
50	17	9.350	57.00	14.40	0.7676	Good
51	18	7.570	56.28	12.53	0.5337	Good
52	58	4.220	58.39	11.46	0.2823	Good
53	59	8.160	51.67	14.13	0.5957	Good
54	60	10.090	56.40	11.79	0.6710	Good
55	61	9.480	51.73	15.56	0.7631	Good
56	62	8.280	58.68	10.97	0.5332	Good
57	63	9.530	55.30	12.82	0.6757	Good
58	85	9.540	58.93	11.81	0.6640	Good
59	86	7.900	55.95	11.76	0.5198	Good
60	87	9.530	60.44	13.00	0.7491	Good
61	88	10.000	59.33	11.07	0.6570	Good
62	89	3.900	61.32	13.31	0.3182	Good
63	90	4.040	64.31	10.54	0.2739	Good
64	19	4.030	58.51	13.43	0.3168	Good
65	20	9.460	59.56	13.05	0.7350	Good
66	21	9.470	58.15	13.53	0.7453	Good
67	22	7.730	61.28	12.39	0.5867	Good
68	23	9.530	57.85	15.71	0.8663	Good
69	24	9.240	58.87	12.23	0.6653	Good
70	64	9.580	57.80	11.70	0.6476	Good
71	65	9.500	56.17	13.30	0.7097	Good
72	66	9.930	57.03	12.87	0.7289	Good
73	67	4.220	53.91	13.75	0.3127	Good
74	68	4.270	57.59	10.63	0.2613	Good

75	91	9.440	56.56	10.20	0.5447	Good
76	92	8.710	62.42	10.94	0.5949	Good
77	93	9.360	58.08	11.91	0.6477	Good
78	94	7.380	60.02	12.25	0.5424	Good
79	25	8.310	60.52	12.62	0.6349	Good
80	26	9.200	58.80	11.24	0.6081	Good
81	27	9.320	60.24	10.23	0.5741	Good
82	28	9.070	61.37	13.00	0.7238	Good
83	29	4.860	60.15	12.65	0.3698	Good
84	30	7.950	61.08	12.31	0.5978	Good
85	95	8.840	56.20	11.78	0.5852	Good
86	96	9.300	56.30	13.36	0.6994	Good
87	97	9.490	57.48	13.36	0.7288	Good
88	98	9.700	58.38	12.71	0.7197	Good
89	99	9.240	59.26	11.51	0.6302	Good
90	100	9.130	58.43	11.16	0.5953	Good
91	69	9.550	57.74	13.04	0.7191	Good
92	70	9.980	64.99	7.59	0.4920	Inferior
93	71	9.970	55.47	13.36	0.7388	Good
94	31	9.540	59.84	12.33	0.7041	Good
95	32	9.380	61.82	10.56	0.6125	Good
96	33	9.340	61.55	11.62	0.6678	Good
97	34	4.110	60.81	10.03	0.2507	Good
98	35	4.880	62.30	11.14	0.3387	Good
99	36	9.100	58.13	12.92	0.6834	Good
100	37	9.290	60.39	10.60	0.5946	Good

DATE: 19.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTOREGARH-III****Challan No. : 07/133**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	647	8.380	57.83	11.85	0.5740	Good
2	648	7.100	60.03	14.19	0.6049	Good
3	649	4.650	58.14	12.04	0.3255	Good
4	650	4.160	60.17	12.03	0.3012	Good
5	651	4.370	62.20	7.03	0.1910	Inferior
6	652	4.170	62.83	12.96	0.3394	Good
7	601	7.250	57.33	12.24	0.5090	Good
8	602	8.980	62.83	8.69	0.4903	Inferior
9	603	7.710	56.89	13.46	0.5906	Good
10	604	4.290	58.54	12.52	0.3145	Good
11	605	7.380	56.58	12.09	0.5048	Good
12	606	4.420	62.38	12.33	0.3399	Good
13	653	4.420	57.83	12.93	0.3306	Good
14	654	6.970	59.56	13.30	0.5520	Good
15	655	4.100	57.00	12.05	0.2817	Good
16	656	7.420	59.02	12.72	0.5572	Good
17	693	10.300	55.72	12.01	0.6891	Good
18	694	9.890	66.66	11.52	0.7596	Good
19	695	7.920	61.11	9.87	0.4776	Good
20	696	10.130	62.00	8.94	0.5612	Inferior
21	607	7.080	60.11	11.28	0.4800	Good
22	608	7.110	58.57	13.42	0.5588	Good
23	609	8.420	61.60	10.62	0.5507	Good
24	610	7.430	57.47	12.28	0.5246	Good
25	611	4.300	59.97	12.96	0.3341	Good
26	612	4.430	59.45	13.20	0.3478	Good
27	657	7.940	63.92	11.05	0.5606	Good
28	658	4.460	61.11	12.37	0.3372	Good
29	659	8.920	64.25	12.75	0.7305	Good
30	660	7.770	65.88	13.01	0.6659	Good
31	697	8.010	59.85	11.98	0.5743	Good
32	698	8.350	61.03	11.83	0.6029	Good
33	699	9.880	61.42	10.27	0.6234	Good
34	700	9.400	61.56	13.81	0.7990	Good

35	613	4.160	61.37	11.57	0.2954	Good
36	614	7.120	58.43	14.15	0.5888	Good
37	615	7.050	61.62	11.17	0.4850	Good
38	616	9.080	61.56	11.39	0.6365	Good
39	617	6.730	59.67	11.40	0.4576	Good
40	618	7.020	58.75	14.72	0.6072	Good
41	661	4.340	66.45	10.11	0.2916	Good
42	662	4.210	66.47	12.01	0.3360	Good
43	663	9.400	54.75	12.02	0.6185	Good
44	664	3.930	56.73	12.07	0.2692	Good
45	665	4.650	59.36	11.96	0.3302	Good
46	666	4.690	59.42	11.02	0.3072	Good
47	667	7.610	59.20	12.60	0.5677	Good
48	668	7.990	60.33	12.05	0.5809	Good
49	669	4.600	54.54	11.81	0.2962	Good
50	670	4.010	58.91	12.71	0.3003	Good
51	619	7.050	64.19	10.41	0.4709	Good
52	620	4.330	65.32	10.93	0.3092	Good
53	621	7.340	64.56	11.42	0.5410	Good
54	622	7.200	62.98	10.59	0.4802	Good
55	623	4.530	65.76	11.31	0.3370	Good
56	671	4.580	59.68	12.13	0.3316	Good
57	672	4.270	59.21	11.33	0.2865	Good
58	673	4.580	61.35	11.28	0.3169	Good
59	674	3.910	59.93	11.83	0.2772	Good
60	675	4.660	63.28	12.66	0.3733	Good
61	690	9.350	61.97	12.30	0.7125	Good
62	691	9.670	56.32	10.60	0.5773	Good
63	692	4.920	50.77	15.91	0.3975	Good
64	624	7.360	61.52	11.93	0.5402	Good
65	625	7.040	66.95	7.68	0.3619	Inferior
66	626	7.290	63.08	11.60	0.5336	Good
67	627	4.510	63.05	11.20	0.3184	Good
68	628	4.270	61.36	11.38	0.2980	Good
69	629	7.130	66.77	9.15	0.4356	Good
70	676	4.490	65.05	11.33	0.3309	Good
71	677	8.000	54.52	10.11	0.4408	Good
72	678	9.410	57.03	11.22	0.6022	Good
73	679	9.530	53.61	13.06	0.6671	Good
74	630	7.450	61.57	12.00	0.5506	Good



75	631	4.410	62.68	10.91	0.3016	Good
76	632	4.260	64.38	12.22	0.3353	Good
77	633	6.760	70.91	8.97	0.4299	Inferior
78	634	4.410	57.13	11.64	0.2933	Good
79	635	4.610	61.37	10.80	0.3056	Good
80	680	9.460	54.85	13.36	0.6934	Good
81	681	9.710	56.13	11.54	0.6292	Good
82	682	3.930	56.87	12.45	0.2782	Good
83	683	7.820	57.90	11.28	0.5106	Good
84	684	9.590	56.17	12.91	0.6953	Good
85	685	7.090	57.64	11.73	0.4793	Good
86	636	8.530	63.95	12.12	0.6611	Good
87	637	4.290	60.18	9.90	0.2557	Good
88	638	4.810	61.39	12.79	0.3776	Good
89	639	9.010	60.07	11.84	0.6406	Good
90	640	4.420	60.46	13.33	0.3563	Good
91	686	7.280	56.10	11.28	0.4608	Good
92	687	8.900	59.59	13.14	0.6969	Good
93	688	9.600	59.43	11.66	0.6653	Good
94	689	8.030	62.42	12.93	0.6480	Good
95	641	7.080	56.93	14.03	0.5657	Good
96	642	4.170	60.45	10.36	0.2610	Good
97	643	6.840	56.93	13.24	0.5157	Good
98	644	4.800	55.68	11.66	0.3115	Good
99	645	8.680	59.01	13.12	0.6718	Good
100	646	4.080	59.85	13.87	0.3386	Good

DATE: 17.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : CHITTORGARH-III****Challan No. : 06/132**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	532	7.790	55.59	12.47	0.5398	Good
2	533	7.640	60.85	10.75	0.4997	Good
3	534	8.440	59.55	11.77	0.5916	Good
4	535	5.370	58.44	12.37	0.3883	Good
5	536	9.560	65.2	12.10	0.7543	Good
6	588	9.130	56.96	13.01	0.6765	Good
7	589	8.030	58.29	11.79	0.5517	Good
8	590	9.090	65.9	9.61	0.5754	Good
9	591	9.340	56.22	11.79	0.6192	Good
10	592	9.620	62.2	12.49	0.7475	Good
11	501	7.810	62.63	9.69	0.4741	Good
12	502	9.630	66.04	10.30	0.6548	Good
13	503	4.880	62.45	13.31	0.4055	Good
14	504	8.210	62.39	10.58	0.5419	Good
15	505	7.510	64.13	10.96	0.5280	Good
16	562	9.830	56.19	13.28	0.7333	Good
17	563	9.570	56.3	11.42	0.6154	Good
18	564	8.870	55.23	13.47	0.6599	Good
19	565	7.800	55.93	11.62	0.5070	Good
20	566	7.430	57.29	14.19	0.6041	Good
21	593	9.630	58.93	10.42	0.5913	Good
22	594	7.710	64.83	11.68	0.5836	Good
23	506	7.860	64.18	10.69	0.5392	Good
24	508	7.730	66.63	11.50	0.5921	Good
25	507	9.530	63.17	10.27	0.6185	Good
26	509	4.700	56.21	14.46	0.3821	Good
27	510	7.610	57.67	9.47	0.4155	Good
28	567	7.520	54.25	13.38	0.5460	Good
29	568	9.610	57.6	9.62	0.5324	Good
30	569	8.920	58.42	13.04	0.6797	Good
31	570	7.910	55.01	9.82	0.4271	Good
32	511	9.360	59.6	10.45	0.5831	Good
33	512	7.810	56.45	12.24	0.5397	Good
34	513	9.370	57.66	12.24	0.6615	Good

35	514	7.340	56.9	12.93	0.5402	Good
36	515	8.070	58.05	12.89	0.6036	Good
37	579	8.190	58.66	13.18	0.6331	Good
38	580	7.930	61.42	11.76	0.5725	Good
39	581	9.720	61.42	13.12	0.7834	Good
40	582	7.610	62.91	11.02	0.5274	Good
41	516	9.210	57.92	12.98	0.6926	Good
42	517	9.540	60.93	11.18	0.6497	Good
43	518	9.690	59.81	14.75	0.8547	Good
44	519	9.740	63.11	10.22	0.6282	Good
45	520	4.900	58.36	13.95	0.3989	Good
46	595	9.120	64.66	11.06	0.6521	Good
47	596	4.020	60.48	13.54	0.3292	Good
48	597	9.140	66.28	12.15	0.7358	Good
49	598	7.230	53.09	14.79	0.5676	Good
50	599	6.940	57	12.91	0.5108	Good
51	600	8.990	56.17	15.42	0.7785	Good
52	521	4.380	62.27	10.81	0.2948	Good
53	522	9.500	59.44	13.04	0.7363	Good
54	523	7.630	58.11	12.72	0.5639	Good
55	524	9.300	60.07	12.70	0.7096	Good
56	525	9.590	62.18	10.63	0.6339	Good
57	571	9.450	57.7	12.50	0.6813	Good
58	572	7.560	58.29	12.37	0.5451	Good
59	573	7.900	55.88	13.31	0.5878	Good
60	574	9.240	59.56	11.72	0.6450	Good
61	575	9.420	57.72	11.21	0.6095	Good
62	526	9.440	60.83	12.02	0.6901	Good
63	527	9.460	63.66	11.77	0.7086	Good
64	528	8.340	61.95	11.86	0.6130	Good
65	529	4.530	59.73	14.00	0.3787	Good
66	530	9.300	61.46	12.06	0.6891	Good
67	531	3.840	61.94	12.21	0.2903	Good
68	576	4.110	61.27	11.56	0.2910	Good
69	577	8.090	57.82	11.10	0.5194	Good
70	578	9.330	63.87	10.46	0.6232	Good
71	550	4.860	62.6	12.41	0.3776	Good
72	551	7.770	62.13	12.02	0.5804	Good
73	537	4.020	59.38	10.86	0.2593	Good
74	538	8.170	59.87	10.86	0.5311	Good

75	539	9.510	59.2	9.97	0.5611	Good
76	540	9.650	61.99	11.16	0.6678	Good
77	541	9.630	65.44	10.47	0.6597	Good
78	552	8.280	63.87	10.22	0.5407	Good
79	553	4.540	61.02	10.26	0.2842	Good
80	554	4.670	65.13	9.20	0.2797	Good
81	555	9.090	67.01	10.94	0.6663	Good
82	556	9.320	56.93	13.33	0.7074	Good
83	557	8.400	57.97	11.13	0.5418	Good
84	558	9.170	58.93	10.93	0.5905	Good
85	559	9.560	58.96	8.92	0.5029	Inferior
86	542	7.940	61.56	10.85	0.5304	Good
87	543	9.370	61.5	11.15	0.6428	Good
88	544	7.560	65.67	11.62	0.5768	Good
89	545	9.080	63.87	9.32	0.5403	Good
90	546	9.150	65.17	9.67	0.5765	Good
91	583	9.090	59.4	12.63	0.6818	Good
92	584	9.450	60.8	10.87	0.6246	Good
93	585	8.340	57.59	10.85	0.5213	Good
94	586	9.470	61.05	11.66	0.6743	Good
95	587	8.190	57.87	9.54	0.4521	Good
96	547	9.110	63.16	13.41	0.7716	Good
97	548	9.200	62.45	11.71	0.6725	Good
98	549	7.630	66.07	8.84	0.4456	Inferior
99	560	9.500	57.57	11.22	0.6137	Good
100	561	9.620	59.63	10.46	0.6003	Good

DATE: 14.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।